

रामविनीतका सूचीपत्र

| विषय | पृष्ठ | विषय | पृष्ठ |
|---|-------|---|-------|
| अबलेहयोगविन्तामणिमतात् ... | १९ | खजीरज्वरको गोली बुन्दात् ... | ३९ |
| काय सन्निपातकलिकात् । ... | २० | पुन भजीरकी चटनी ... | ३९ |
| मासयोगमतात् ... | २० | पुन काटा बुन्दात् ... | ३९ |
| एकान्तरज्वर वेद्यज्वर तिजारी ज्वर चौपियाज्वर अरिष्टज्वरको निम्बादि चरकात् ... | २० | पुन कायबुन्दात् ... | ३९ |
| मन्ज्वरको षोडशाणचूर्ण ... | २० | पुन काटा रसरलाकरात् ... | ३९ |
| एकाहिक ज्वरको रसयोगविन्तामणि मतात् ... | २० | विपमन्वरको उत्पत्ति लक्षण माधव निदानात् ... | ३९ |
| ज्वरादुःख बुन्दात् ... | २१ | विपमज्वर लक्षण कहते हैं ... | ३९ |
| पूजापादगोली योगत्रि० मतात् .. | २१ | विपमज्वरको वर्द्धमान पिप्यनीयोगमतात् ३९ | ३९ |
| एकाहिक शीतज्वरको क्षान्न नित्यज्वर एकान्तरज्वरको जराकुश बुन्दसात् | २१ | द्वारिद्रकज्वर कमलवायुका पीलिषेच लक्षण माधव निदानात् ... | ३९ |
| नित्यज्वरको काटा बुन्दात् ... | २२ | द्वारिद्रक ज्वरवालेको काययोगवि- न्तामणि मतात् ... | ३९ |
| तिजारी ज्वरको काटा बुन्दात् ... | २२ | कायबुन्दात् ... | ३९ |
| तिजारीको काटा चरकात् ... | २२ | नामज्वरका ल० माधवनिदानात् .. | ३९ |
| शतुर्ग ज्वरको काय वाग्मद्यत् ... | २२ | (द्वितीयाधिकारः) | |
| काय बुन्दात् ... | २२ | अतासार अधिकात् वातापिणक निदान | ३९ |
| शतुर्गज्वरकी जडी ... | २३ | वात पित्त ज्वरको चूर्ण बुन्दात् .. | ३९ |
| तिजारीकी जडी ... | २३ | पुन चूर्णबुन्दात् ... | ३९ |
| एकान्तराको योग बुन्दात् ... | २३ | पञ्चमद्रक चूर्ण ... | ३९ |
| अथ विधिः । | | काय चूर्णमतात् .. | ३९ |
| बाकिनीको मद्य ... | २४ | यात पित्तको काय बुन्दात् ... | ३९ |
| तापके गण्डेकमद्य ... | २४ | कफपित्तज्वरका ल० सिद्धसात् ... | ३९ |
| संवाकी विधि ... | २४ | कफपित्तज्वरको चूर्ण बुन्दात् ... | ३९ |
| शीतज्वरका यत्न लक्षण माधवनिदानसे | २५ | कफपित्तज्वरकोकाणासाङ्गमतात् ... | ३९ |
| सन्निपातका चूर्ण कलिकात् ... | २५ | कफ पित्तज्वरको काटाबुन्दात् ... | ३९ |
| कायारिष ... | २५ | कफ पित्तज्वरको चूर्ण ... | ३९ |
| पुन कनकमुन्दरी रस सन्निपातकीलिकात् | २६ | कफ पित्तज्वरको चूर्णकायबुन्दात् ... | ३९ |
| पुन पीपलदि काटा बुन्दात् ... | २६ | सायुधकके लक्षण माधवनिदानात्... | ३९ |
| पुन लघुज्वरकुशवाग्मद्यत् ... | २६ | कफ वायुको चूर्ण बुन्दात् ... | ३९ |
| पुन उदयुल्लसन्निपातकमिषात् ... | २६ | वातपित्तको खैरसादि गोबी चो- विन्ता मणिमतात्... | ३९ |
| अजीर्णके लक्षण ... | २६ | कोलीकको काय बुन्दात् ... | ३९ |

| विषय. | पृष्ठ. | विषय. | पृष्ठ. |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| पिप्पलादि काढा ... | ३३ | जिह्वकके लक्षण व चूर्ण, लेप गोली, | |
| सर्वज्वरके धूपयोगशतात् ... | ३४ | कुरलाकाय ... | ५३ |
| सन्निपातकी उत्पत्ति सन्निपात फलिकात् | ३४ | अभिन्त्याके लक्षण व अजन व काय | ५५ |
| वेद सन्निपातोंके नाम आर्यु और | | त्रिदोषके लक्षण चिकित्सा चूर्ण अजन | |
| उनका साध्या साध्य लक्षण ... | ३५ | गोली, फकी, कायादिसे ... | ५६ |
| सन्निपातको कायादि ... | ३६ | जानहार ज्वरके लक्षण... | ५८ |
| पुनःसधिकको कायादि उपाय ... | ३७ | घनुपवायुके लक्षण व मर्दनरस ... | ५९ |
| अन्तकर्म असाध्य लक्षण ... | ३७ | घनुपवातमृगीवात व चौरासीवातकीगोली, | ६० |
| सदाहके लक्षण व काय व काढा व | | चौरासी वायुको योगराजगुण व काय | ६० |
| लेप व धूप ... | ३८ | मधूराकेलक्षण व घासा व काढा ... | ६० |
| पित्तप्रमको लक्षण काय आदि | | सर्वज्वरको बडो सुदर्शनचूर्ण ... | ६१ |
| उपाय ... | ३८ | (तृतीयाधिकारः) | |
| शीतांगके लक्षण व उपाय गुटिका... | ४० | अतीसारके निदान ... | ६२ |
| शीतांगके पचन व मज्जापादिगो०... | ४१ | वायुके अतीसारके लक्षण ... | ६२ |
| तन्त्रिकके लक्षण नानाप्रकार व अजन | | यातातीसारको चूर्ण काढा ... | ६२ |
| व अद्यग काय ... | ४१ | पित्तातीसारके ल० व गोली चूर्ण फकी | |
| त्रिदोष सन्निपातको अजन ... | ४३ | काय | ६३ |
| हादिरियासन्निपातके लक्षण काढा व | | कफतीसारको फकी काय ... | ६५ |
| गोलीसे... | ४३ | वातपित्तातीसारके लक्षण व काय ... | ६६ |
| अपुष्पसन्निपातके लक्षण और उपाय | | पित्तश्लेष्मातीसारके ल० व काय ... | ६६ |
| काय नाससे उपाय... | ४४ | त्रिदोषातीसारकोचूर्ण ... | ६७ |
| कर्णके लक्षण ... | ४५ | आमातीसारके लक्षण व फकी ... | ६७ |
| उप कायादिसे ... | ४६ | आमनिवाहीकी फकी व अक्केडादि | ६७ |
| कर्णके उपपन्न ... | ४७ | | |

| विषय. | पृष्ठ. | विषय. | पृष्ठ. |
|-------------------------------------|--------|---|--------|
| सूतीके लक्षण ... | ७२ | बतुछर्दिके फंकी चटनी ... | ९३ |
| बादीके उपाय चूर्णमूरण मोदक आदिसे | " | निद्राछर्दिके काडा ... | ९४ |
| अर्याकीशुंभ्यादि गोली लघुमूरण गोली, | | ३ फंकीके फंकी और अन्य उपाय " | " |
| चूर्ण व त्रिफलादिक्षार, बज्यादि घृत | | निद्रोपछर्दिके चिकित्साएलादि चूर्णादिसे | ९५ |
| पिप्पलादि तैल मिलाघाँकी गोली... | ७३ | तृणका उपाय ... | ९६ |
| सूतीववासीर कई प्रयोके मतसे गोली | " | क्षुषाकी फंकी व चूर्ण ... | " |
| रेप आदि उपाय ... | ७५ | मूर्च्छाका लक्षण व फंकीअवलेह ... | ९७ |
| मगन्दरके निदानलक्षण व त्रिफलादि | | मूर्च्छाके काय ... | ९८ |
| क्षार पिप्पलादि गोली ... | ७८ | भद्रविभ्रमके लक्षण व चूर्ण ... | " |
| अजीर्ण होनेके लक्षण ... | ७९ | दादके लक्षण व घासा व अन्यउपाय... | ९९ |
| अजीर्ण निदान व चूर्ण... | " | उन्मादके लक्षण व घासा व त्रिकुट्या- | |
| मूर्च्छा अजीर्णकी फंकी व गोली व | | दि घृत व भजन ... | " |
| अग्निमुत्तचूर्ण बृहदग्निचूर्ण ... | ८० | उन्माद व भूत प्रेतादिकी शूती ... | १०१ |
| कमिरोगकी उत्पत्तिलक्षण व चूर्ण ... | ८२ | अपस्मार मृगीके लक्षण... | " |
| त्रिफलादि चूर्ण ... | " | मृगीके चूर्ण व नास व भजनववाती " | " |
| कृमिके उपाय गुडकर हलुवा ... | ८३ | बन्धुष्टके लक्षण व उपाय ... | १०२ |
| पादुरोगकी उत्पत्ति और उपाय फंकी | | (चतुर्थ्याधिकारः) | |
| अमयादिगुटिका नवरसादि गुटिकादिसे | ८४ | बातकी उत्पत्ति लक्षण .. | १०३ |
| पादुरोग व कमलवायुको अवलेह ... | ८५ | वायुके उपाय फंकी आदिसे ... | १०४ |
| आमवात उपाय ... | " | वायुसे मायादुखे उसका उपाय ... | १०५ |
| कमलत्रायु नास व काडा ... | ८६ | वायुसे अंगहीन पक्षाघातहो उसकाउपाय " | " |
| रक्तपित्तके लक्षण व चटनी व काडा व | | कटि दुखती या वायुमूलहो उसका | |
| पेठापाक... | " | उपाय ... | " |
| राजयक्ष्माका लक्षण व फंकी ... | ८७ | मस्तकभ्रमण शिरसीबाधो उपाय ... | " |
| क्षयीपीतस इवासकासको मल्लाकनान | | अकड वायुको गुटिका ... | १०६ |
| चूर्ण ... | ८८ | उदरमें वायुकीपीडा और वायुको काथ | १०७ |
| झुबीका चूर्ण गोली ... | ८९ | वातरकको काय ... | " |
| हिचकी निदान ... | " | कन्धनवायु व हाथपैरकोपे उमको अवलेह | १०८ |
| हिचकी निदानके चूर्ण ... | ९० | राजन वायुको उपाय ... | १०९ |
| इवातको काप अवलेह... | ९१ | सूक्ष्म वायुको उपाय ... | " |
| स्वभगके निदानलक्षण व बज्यादिचूर्ण | ९२ | वायुगण्डके उपाय ... | " |
| अग्निकी चिकित्सा पिप्पलादि चूर्ण... | ९३ | अमवातके निदान व चूर्ण कासा व | |
| छर्दिका लक्षण ... | ९३ | अमृतादि व विहनादगूगल ... | १११ |

| विषय. | पृष्ठ. | विषय. | पृष्ठ. |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| पेटकी लागको लेप ... | ... १४२ | स्यावरजगम विपका उपाय ... | ... |
| उपदंश फिरगके निदान... | ... १४२ | विच्छूके विपकी चिकित्सा ... | ... |
| उपदंशकी गोलैकायद्रोकीधुनी ... | ... १४३ | शत्राघात चिकित्सा ... | ... १५९ |
| घातकी चिकित्सा लेप ... | ... " | घावके लहू धमनेका उपाय ... | ... |
| घातकोडाकोउपाय ... | ... १४४ | धरनि चिकित्सा ... | ... |
| कीडी नगराकण्डूका उपाय ... | ... " | धन चौवनका ... | ... |
| मण्डमालाकी चिकित्सा ... | ... १४५ | बालकके अतीसारकी चिकित्सा ... | ... १६० |
| दमूल रोगकाहसण उपाय ... | ... १४६ | बालकके रक्तातीसारका उपाय ... | ... |
| मुसुछायाका उपाय ... | ... " | बालककी छर्दिकाउपाय... | ... |
| मुसुछायाकी भौषध और बटी ... | ... " | अडवृद्धिका उपाय ... | ... |
| गल रोगकीगोली ... | ... १४७ | चोटलगीका उपाय ... | ... १६१ |
| नहरवाका उपाय और मन्त्र ... | ... १४८ | नींद आवनेका उपाय ... | ... |
| भजचर्मको तेल लेप ... | ... " | बगलगन्धका लेप ... | ... |
| कण्डू दाफडको तेल ... | ... १४९ | मुखदुर्गंधिका उपाय ... | ... १६२ |
| नासुर चिकित्सा और मलहम ... | ... " | दांतोंकी श्याममिस्सी ... | ... |
| नायु गाउडाउपाय ... | ... १५० | सफेद मिस्सीकी विधि ... | ... १६३ |
| छान रोगका उपाय ... | ... १५१ | छ महीनेका केशकल्प... | ... |
| कानमेंकोईजानवर होय उसका उपाय ... | ... " | केश बटनेका लेप ... | ... १६४ |
| बहरेका उपाय ... | ... " | आगके जलेका उपाय ... | ... |
| बायुसेमाभादुसे उसका उपाय ... | ... " | स्वेदज्वरदाहज्वरकोलाशादितैल ... | ... |
| शिरावर्त लेप ... | ... " | मायारोगपरपङ्कवैदुतैल... | ... १६५ |
| आधाशीशीका उपाय नाम ... | ... १५२ | कल्याणघृत.... | ... |
| (इति पंचमाधिकारः) | | त्रिफलादिघृत ... | ... १६६ |
| पुन-आधाशीशीर्कनास और धत्र ... | ... १५३ | सौभाग्यशुठीपाक ... | ... |
| ब्रूषता बेराका उपाय... | ... " | सुपारीपाक ... | ... १६७ |
| बेत्ररोग उपाय लेप प्रोटकी ... | ... १५४ | असुगन्धपाक ... | ... १६८ |
| ब्रह्मणासबलनायु ... | ... १५५ | बन्द्रहासरस... | ... १६९ |
| आयातिमिरधुन्धनारीकीगोली ... | ... " | घातोंका अधिकार ... | ... १७० |
| फूलकी उपाय ... | ... " | मृगाकमारन-राजमृगांक विधि ... | ... १७१ |
| हीतलाकीफूलनकात्यका उपाय ... | ... " | रूपरसविधि ... | ... १७२ |
| मृनीरोगका उपाय नाम ... | ... १५६ | तमिस्वरके गुण ... | ... |
| कानमारोगकोमन्त्र और विधि ... | ... " | अशुद्धके अवगुण ... | ... |
| कमरवाकोमन्त्र औरविधि... | ... " | बैंगके मारणकी विधि और गुण ... | ... १७३ |
| बर्बिले कुत्तेके विपका उपाय ... | ... १५६ | अध्रककी विधि ... | ... |
| सर्पविष चिकित्सा ... | ... १५८ | | |

| विषय. | पृष्ठ. | विषय. | पृष्ठ. |
|--------------------------------------|---------|---|---------|
| घातव्योदनेका उपाय ... | ... १७४ | वृत्ती और पोदली ... | ... १८७ |
| रससिद्धरुपाशोषनमारण उपाय ... | ... " | योनिपानीछोटे उसका उपाय ... | ... १८८ |
| धर्मवातुक्षयगुण ... | ... १७५ | योनिवही करनेका उपाय ... | ... " |
| पारा भस्मकरण विधि ... | ... १७६ | देहसुगंधकीधूप ... | ... " |
| रसकमूर करणविधि ... | ... " | श्रीप्रावणका उपाय ... | ... १८९ |
| सैंगरफस्ये पारा काडन विधि ... | ... " | गर्भपतन ... | ... " |
| हरताल मारण विधि ... | ... १७७ | योनिशूल उपाय ... | ... " |
| नागतदिव्यविधि ... | ... " | कुचकठोरहोनेका और प्रफुल्लित का उपाय ... | ... " |
| सोनामन्त्रीशोषनविधि ... | ... १७८ | श्रीवेदूध न बतरे उसका उपाय ... | ... " |
| सोचियशोषन विधि ... | ... " | श्रीकाकुचपकजाय उसका उपाय ... | ... १९० |
| रन्धक शोषनविधि ... | ... " | कुचपरकी गांठका इलाज ... | ... " |
| दिल्लान्तिसस्त्र विधि ... | ... १७९ | कुचपरछिद्र और टांकीचिकित्सा ... | ... " |
| दिल्लानीतद्वन्द्वकी परीक्षा ... | ... " | काधोलाईगांठ और बगलकाट ... | ... " |
| दिल्लियाशोषन विधि ... | ... " | श्रीवेफूलगयेका उपाय ... | ... १९१ |
| अनुद्ध मृगंश रूपरसदीराके श्रीगुण ... | ... " | पुष्पदूरकरण उपाय ... | ... " |
| अश्वेअप्ररुके शवगुण ... | ... " | शत्रुनाशन उपाय ... | ... " |
| अनुद्धरन्धक सोनामन्त्री रूपमन्त्री | | गर्भ न रहनेका उपाय ... | ... " |
| हरताल देलिया अजयपाल के | | गर्भजाताहो उसका उपाय ... | ... १९२ |
| धरगुण... .. | ... १८० | गर्भकी मंत्र ... | ... " |

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ

रामविनोद ।



अथ विनोदग्रंथका वचन लिखते हैं ॥ प्रथमहीं गणेशजीकी स्तुति लिखते हैं कैसे गणेश हैं ऋद्धिसिद्धिके देने-हारे हैं गौरीके पुत्र हैं विघ्नके दूर करनेवाले हैं सुखके करनेवाले हैं हर्षधरिके गणेशजीको नमस्कार करूं हूं । पुनः धन्वन्तरिजीकूं व धन्वंतरिके युगल चरणोंकूं नमस्कार है कैसे हैं वैद्य धन्वन्तरिजी, जिनके नामसे तीरोग दूर होय और सकल लोगोंको सब सुखके देनेवाले हैं; फिर अनेक ग्रन्थ करनेवाले पंडितोंसे विनती कर नाना प्रकारके वैद्यक शास्त्रोंको देखकर रामविनोद इस ग्रंथ को अधिक सुगम भाषा करूं हूं यह रामविनोद ग्रंथ सब जीवोंको सुख देनेवाला है ॥

रोगीके देखनेके वास्ते जो पुरुष वैद्यके घर बुलावन जाय तिस पुरुषका ऐसा लक्षण होय ॥ विचक्षण होय पंडित होय, सुन्दर होय, सज्ञान होय, नम्र होय ऐसा पुरुष होय सो रोगीके वास्ते वैद्यकूं बुलाने जाय. वैद्यके आगे आय हाथ जोड़ नमस्कार कर मीठे वचन कह अरज करै वैद्यके आगे श्रीफल रुपया वस्त्र प्रसन्न ह्वैके धरै और यह कहै कि, आप कृपा करिये. वैद्यकूं बुलानेवाला पुरुष खाली हाथ न जाय खुशीह्वै वैद्य अपने घरसे एक

(२) रामविनोद ।

पुरुषके साथ जाय रोगीके घर दोके साथ न जाय
ऐसा भला शकुन होय सो वैद्य रोगीके घरजाय ॥

अथ भलेशकुनों के नाम ।

कुमारी कन्या अष्टवर्षकी होय वैलोंकी जोडी अं-
बारी महावत झूलसमेत हाथी मछलीका जोड़ा दही
रांधा नाजब्राह्मण तिलकसमेत मुखसे आशीर्वाद बोल-
ता निधूम्र अग्नि राका साहूकार मांस वेश्या स्त्री गावती
भरयो कलश स्त्री फूलकी माला पहरे स्त्री पुत्रसंयुक्त
गावती भेरी नौबत नगारा फल असवारी इतने शुभ
शकुन कहे इन शकुनोंमें वैद्य रोगीके घर जाय तो
रोगी व वैद्यको लाभ होय ॥

अथ नाडीआदिकी परीक्षा ।

नाडीपरीक्षा, मुखपरीक्षा, दंतपरीक्षा, वस्त्रपरीक्षा,
नेत्रपरीक्षा, नखपरीक्षा, जीभपरीक्षा, नारुपरीक्षा, मूत्र-
परीक्षा इतनी परीक्षा करिके रोगीका उपचारकरै तिस
परीक्षाके लक्षण कहे हैं ॥

पहिले नाड़ी देखिये पीछे शरीरकी चेष्टा देखिये मुख,
दांत, जीभ, नेत्र, नख, कान, नाक, मूत्र, वस्त्र इनकी परी-
क्षासे विचारकर चतुर वैद्य तीनप्रकारसे रोगीकी परीक्षा
करै सो तीन कौन कौनसी हैं ॥ दर्शन १ स्पर्शन २ प्रश्न ३
दर्शन तो रोगीकी चेष्टा देखिये १ स्पर्शन रोगीकी नाड़ी
दृग्विये २ प्रश्नकग्ना रोगीसे प्रश्नपृष्ठ अहव, ल और कांति
में निश्चयकर माध्यअसाध्य देखिके पीछे इलाज करे ॥

अथ साध्य लक्षण ।

रोगीका सब शरीर शोभायमान होय, देहीमें कांति होय, शोभा ज्योंकी त्यों रहे वह रोगी निश्चय जीवै । उस रोगवालेकूं ग्रन्थोंमें कहा है सुख रूखा तेजसे युक्त जैसा होय तैसारहे रोगीकेदांत उज्ज्वल (सुपेद) अरु ओठ ललाई लिये होयँ मेले न होयँ जिसके नाककी सुगन्धादिकका ज्ञान होय कर्णसे शब्दादिक सुनै ऐसे लक्षण जिसके होयँ सो जीवै जिस रोगीकी जीभ कोमल होय कटि न होयँ जिस रोगीके पैर गरम होयँ ये लक्षण जिसके होयँ सो जीवै । जिसके कपड़े में बुरी वास आवेनहीं सुभाव फिरै नहीं रोगी पुरुषका सुभाव जैसा होय तैसा रहे वह रोगी निश्चयजीवै । जिस रोगीका प्रभातसमय सूत्र पानीसरीखा होय तिस पुरुष कूं मरने का भय नहीं वैद्य पुरुषों ने यह विचार श्रेष्ठ कहाहै ॥ इतने साध्य लक्षण कहे हैं ॥

अथ असाध्य लक्षण ।

देहकी शोभा घटे, देहका वर्ण फिरजाय, रातदिन अचेत रहे, शरीरमें ऐसाराोग होय तौ निश्चयमरे। जिस रोगीका मुख लाल रोलीसरीखा होय, जीभ काली होय कठोर होय बैठजाय विंचलबोले वह रोगी असाध्यहै । जिसका पेशाब धँभेनहीं मूत्र वेरवेर उतरेटपक

टपक आवे वह रोगी ७ दिनके भीतर मरे । वैद्यकशास्त्रमें लिखा है ॥ इति असाध्यलक्षण ।

अथ मूत्रपरीक्षा ।

रोगीके मूत्रको कांच के अथवा कांसी के वासन में लेकर तेलको भिजोयके रुईके फाहासे अथवा तुनकेसे लेकर पेशावमें डालै तेलका टपका पेशाव के नीचे जायवैठे तौ रोगी असाध्य कहिये अथवा टपका पेशावके ऊपररहै डूबेनहीं निस्तरै नहीं तो असाध्यहै तेलके टपकेमें छिद्र पड़े तो अथवा तरवारका आकार होय धनुषका आकार होय अथवा तीन चार कण होजायँ तौ रोगी उतनेदिनमें मरे तरुणतापवालेका पेशाव पीलाहोय पीली धारहोय दीर्घ रोगीका लाल पेशाव होय जिसका पेशावकालाहोय दुर्गंधहोय वह रोगी निश्चयमरे वातज्वरवालेका पेशावचिकनाहोय स्याह होय पित्तज्वरवालेका मूत्र पीलावर्णहोय कफज्वरवालेका पेशाव पानीसरीखा होय वातपित्तज्वरवालेके सिरसों का तेलसरीखा होय अजीर्णज्वरवालेका पेशाव वकरीके पेशावसरीखा होय सन्निपात वालेका पेशाव स्याह होय जिसके बहुत दिन का ज्वर होय तिसका पेशाव केसरकेरंगसमानहोय ज्वर उतरजाय तब पेशाव पानीसरीखाहोय । वैद्य पहिले मूत्र परीक्षाकरे पीछेइलाजकरे इन वस्तुओंकरके वातपित्त कफका कोप होय है अपने अपने राजमें प्रगट होयहै सोवस्तु कहै है गरम वस्तुकर, सोकर, भयकर, भूखकर,

रातके जागनेसे मैथुनकर प्रभातकेसमय स्त्री संगकर इतनी बातों करके वात पित्त कफका कोप होयहै अपने अपने राजमें सब प्रकटहोय हैं॥

अथ वातपित्त कफके महीने ।

आसोज १ कार्तिक २ वैशाख ३ज्येष्ठ ४ इनमहीनों में पित्तका राजहै ॥ चैत्र १ फागुन २ में कफका राज है गुड़ दही शीतल वस्तुसेकफ कोप करैहै ॥ आपाढ़ १ श्रावण २ भादों ३मार्गशिर ४ पौष ५ माघ ६ इन महीनों में वायुका राज है ॥

अथ द्वादश ज्वरोंके नाम ।

अजीर्ण १ आहार २ पित्त ३ खेद ४ वातज्वर ५ दृष्टिज्वर ६ कालज्वर ७ कफज्वर ८ रक्तज्वर ९ एकांतर १० वेला ११ तृतीय १२ ये द्वादश ज्वरोंको कहा ये सर्व ज्वर मलकोपते होय हैं सुज्ञान वेद्य होय सो इनके लक्षणों करके जाने ॥ आत्रेयशास्त्रके मतसे ये लक्षण कहे हैं ॥

प्रथम अजीर्णज्वरके लक्षण ।

पेटमें पीड़ा होय विरेचन होय डकार बहुतहोय यह अजीर्णज्वर के लक्षण कहे हैं ॥

अथ मलज्वरके लक्षण ।

कंठ सूखे दाह बहुत होय प्रलाप होय शरीरविषे पीड़ा

होय भ्रम उपजै मूर्च्छा होय हृदफूटनि होय दाह बहुत होय पेशाव लालहोय मुख कटुकहोय यह लक्षण पित्तज्वरके कहेहैं ॥

अथ खेदज्वर के लक्षण ।

हृदफूटनि होय अंग अंग दूखे नोद बहुत आवै आलस्य बहुत आवे पसेव आवे आँखोंमें पानी बहुत आवे यह खेदज्वरके लक्षण हैं ॥

अथ वातज्वरके लक्षण ।

कम्पनहोय महादाह होय तृषाहोय चित्तभ्रम होय विकलताहोय जीभके ऊपर कटिहोय यह वातज्वर के लक्षण कहे हैं ॥

अथ दृष्टिज्वर का लक्षण ।

वमनहोय आँखें नीली होय शरीर पीलावर्ण होय पेट विपे पीडाहोय मूर्च्छाहोय यह दृष्टिज्वरके लक्षण कहेहैं ।

अथ कालज्वरके लक्षण ।

पसेव बहुत होय देही गलिजाय माथो नाक शीतल होय यह लक्षण कालज्वरके हैं ॥

अथ कफज्वर शीतज्वरका लक्षण ।

अरुचि होय अग्निमद होय मुखपे झाग आवै उबकी बहुत होय ताप बहुतहोय देही शीतलहोय पसेव बहुत होय निद्राहोय यह कफज्वरशीतज्वरके लक्षण कहेहैं ।

अथ कामज्वर का लक्षण ।

शीत लागे कांपणी होय भ्रम होय माथेमें पीड़ा होय कण्ठ सूखै मुख कसैला होय यह लक्षण कामज्वरके हैं ॥

अथ रक्तज्वरके लक्षण ।

अंगविषे पीड़ा ऊर्ध्व होय मुख नाक सेती रुधिर चलै यह रक्ततापके लक्षण कहे । कामज्वर, एकान्तराज्वर, तेजराज्वर इनसब ज्वरोंकी एक जाति है ॥

अथ ज्वरपाक मर्यादा ।

वातज्वर ७ दिन में पके पित्तज्वर १० दिन में पके कफज्वर १२ दिन में पके इतने दिनमें ज्वरका बल घटे वमनसेती कफज्वर जाय कफका नाश होय मीठेतेल के मर्दनसे वायुका नाश होय स्नानसे पित्तका नाश होय ज्वर उपजतेही ३ दिन गरमजल देना नहीं औषध दीजै नहीं स्त्रीसंग करै नहीं ॥

इति श्रीपंडित पद्मरंगशिष्य रामचन्द्रविरचित रामविनोदका,

प्रथमपुरुष लक्षण, शुभ शकुन लक्षण, शरीरचेष्टा,

साध्य असाध्य लक्षण, मूत्रपरीक्षा, पित्त वायु

कफ हेतु उत्पत्ति निदान, दश ज्वर नाम,

ज्वरोंके लक्षण और ज्वरमर्यादा कथन

प्रथम अधिकार ॥ १ ॥

अथ सर्वज्वरनकूं पाचनलिखते हैं वृन्दशास्त्रसे।

सांठि घनियां छोटीकटाई बड़ीकटाई देवदारु यह

सब सममात्रा लैकै चूर्णकरै फंकी गरमपानी से दीजै
दशज्वरका नाशहोय मल द्रवै उतरै ॥

अथ अजीर्णज्वरकी गोली ।

सोंठि पैसाभर मिर्च पैसाभर हरड़की छाल पैसाभर
पीपलामूल पैसाभर सोंचरनोन पैसा भर सेंधानोन
६ भासे यह औपध लैकै चूर्ण कीजै पीछे गोतक्रमें मि-
लाय मिट्टी के पात्रमें चूरहे पै चढ़ाय गाढ़ो होय तब
उतारले गोली १ टंककी बांधिये फिर गोली खाने से
अजीर्णज्वर जाय श्वासकास मिटिजाय ॥

और उपाय वृन्दसे ।

हरड़ै की छाल माशे ६ । सोंचरनोन माशे ६ ।
सोंठि पैसाभरिलवंग माशे ६ मिर्च पीपल हलदी अ-
जवायन पैसा पैसाभर सब औपध बराबर पीस छान
नींबूकारस दूना गुटिकाकर घाले जब डेढ़पाव पानी में
तिहाईरहे तब पीवै तौ अजीर्णज्वरका नाशहोय ॥

पुनः चूर्ण वृन्दसे ।

निसोत सोंठि पीपल हरड़ै यह औपध बराबर ले-
के चूर्ण कीजै दूना नींबूके रस में भिजोवै पीछे गरम
पानी से खाय तौ अजीर्णज्वर का नाशहो ॥

पुनः चूर्ण चिन्तामणिके मतसे ।

आंवले पीपल हरड़ेकीछाल चित्रक सेंधानोन सबसे

आधी लवंग इन औषधोंको कूट छान चूर्ण करै गरम जलसे खाय विषमज्वर जाय अजीर्णज्वर जाय रसकार मिटै कासश्वास जाय पेट शुद्ध रहै ॥

अजीर्णज्वर कूं मर्दन वृन्दसे ।

सारे शरीरमें गरम तेल सरसोंका लेकर मर्दन करै तो अजीर्णज्वरका नाश होय वृन्दके वचनसे ॥

पुनः चूर्ण वाग्भट्टसे ।

सतवां सोंठिकूं सेंकलीजै अथवा हलदीको सेंकलीजै २ टंक प्रमाण वछियाके सूत्रमें पीस गरम कर खाय अजीर्णज्वर जाय सूच्छा मिटै वासी अन्नका दोष मिटै ॥

अथ अंजन वृन्दसे ।

सैंधानोन मिर्च पीपल सिरसकी मींगी हरद यह सब औषध महीन पीस अजामूत्रसे गोली वांधके अंजन कीजै अजीर्णज्वर तत्काल मिटै माथा दुखता अच्छा होय सर्वप्रकारका ज्वर मिटै ॥

पुनः लेप वृन्दसे ।

मोथा कुटकी चिरायता सोंठि पटोलपत्र गिलोय अडूसा पित्तपापड़ा त्रायमाण पुष्करमूल कचूर धमासा कटेलीकी छाल काकड़ासिंगी यह औषध सब बराबर लीजै कूटकर ३ टंक गरमपानी से पेटपर लेप करै तथा

गरमपानीसे खाय तौ अजीर्णज्वर मिटै पेटकी पीड़ा
मिटै यह सिद्धियोग वृन्दने कहाहै ॥

अथ मलज्वरका उपाय भेड ग्रंथसे ।

अमलतास हरडैकी छाल निसोत एलुवा यह सब औ-
पधका काढ़ा करि पीवै मलज्वर मिटै कोठा शुद्ध होय ॥

पुनः फंकी हारीतसे ।

चित्रक हड़की छाल अजवायन दोनोजीरा यह सब
औपध बराबर ले नींबूके रसमें भिगोवै फिर सुखाय
चूर्ण कर खाय तो मलज्वर मिटै ॥

पुनः लेप वृन्दसे ।

पीपल कुटकी चिरायता हड़की छाल ऐलुवा ये
औपध बराबर लीजै पानीसेती पीसकर पेटपर लेप
कीजै मलद्रवै अथवा पेटमे भस्म होय तत्काल ज्वर
जाय मैदाकी वस्तु गोदकी वस्तु खानेको न दीजै पथ्य
मोठकी दाल पीपल हींगकरके युक्त दीजै ॥ इति मल-
ज्वर अजीर्ण ज्वर चिकित्सा ॥

अथ पित्तज्वरचिकित्सा लवंगादिचूर्ण
योगचिंतामणि मतसे ।

लवंग छोटी इलायचीके बीज तमालपत्र कमलगट्टा
तज वंशलोचन नेत्रवाल खस वालछड़ तगर कंकोल
शीतलचीनी कृष्णागुरु केसर चंदन सफेद पुष्कर-

मूल दोनों जीरे त्रिकुटा त्रिफला धनियां कूट भी-
मसेनीकपूर चित्रक वायविडंग निसोत देवदारु काक-
ड़ासिंगी अडूसा अरणी गिलोय अजवायन अजमोद
मुलेठी पित्तपापड़ा पीपलामूल अमलवेत फूलप्रियंगु
मोथा सतावर सारिवा दालचीनी अभ्रक कचूर जाय-
फल तालीसपत्र अतीस यह सब औषध बराबर लीजै
कूटछानकर चूर्ण कीजै ५ माशा प्रभात ५ माशा संध्या-
को उत्तम पानीसेती लीजै पित्तज्वरको दूर करै वीर्य
बँधै बीस प्रमेह जायँ कास श्वास अग्निमन्द जुकाम
छर्दि दाह राजरोग हुचकी राजयक्ष्मापैर थँभना
गला दूखना पांडुरोग स्वरभंग रसवृद्धि ये सब रोग
लवंगादिते जायँ ॥ इति लवंगादि चूर्ण ॥

पुनः गोली वृन्दसे ।

छोटीइलायचीका बीज टंक ४ मुनक्का टंक ४ तमाल-
पत्र टंक ४ तज टंक ४ छोहारा टंक ४ मिथ्री टंक १६
पीपलटंक ८ शहदसे गोली कीजै टंक १ प्रमाण प्रभात
समय गोली एक खाय पित्तज्वर जाय उबकी छर्दि
मूच्छा चित्तभ्रम रक्तपित्त स्वरभेद कास श्वास राजरोग
रक्तविकार आदि रोगोंको यह एलादि गोली दूर करै ॥

वृद्धगुड्यादि क्षीरपाणि शास्त्रसे ।

गिलोय सांठि रक्तचन्दन कुड़ाकी छाल बेलगिरी

अतीसपित्तपापड़ा धनियां नेत्रवाला नागरमोथा चिरायता इन्द्रयव खस यह सब औषध बराबर लीजै पैसा १ भरकी पुड़िया बांधिये अष्टावशेष काढ़ा कीजै पैसा ३० भर पानी चढ़ाइये मट्टीके बर्तनमें पैसा ४ भर पानी रहै तब उतारले रोगीको पिलावे तो पित्तज्वरका नाश होय अतीसार बमन हिचकी इतने रोग जाय तित्त वस्तु ऊपरसे न खाय ॥

पुनः पित्तज्वरको चन्दनादि काथ ।

चन्दन सफेद चन्दन लाल सोठि चिरायता मोथा नेत्रवाला खस पित्तपापड़ा यह सब औषध बराबर लीजै पैसा १ भरकी पुड़िया बांधिये पष्ठांशका काढ़ा कीजै मट्टीकी हांडीमें पैसा ४ भर रहै तब दीजै पित्तज्वर जाय ॥ इति लघुचन्दनादि काथ ॥

पुनः काथ ।

त्रायमाण पित्तपापड़ा चिरायता कुटकी कटेली नेत्रवाला यह सब औषध बराबर लीजै अष्टावशेष काढ़ा कीजे शहत माशे ६ ऊपरसे मिलाय रोगीको पिलावै पित्तज्वर जाय ॥

पुनः वृद्धत्रायमाणादि काथ ।

त्रायमाण इन्द्रयव अडूसा कुटकी गिलोय पटोलपत्र पित्तपापड़ा नीवकी छाल पद्माक भूनिम्ब यह औषध सब बराबर ले पैसा १ भरकी पुड़िया बांधे अष्टावशेष

कर पिलावे पित्तज्वर जाय पथ्य दाल मोठकी दीज
खट्टा मीठा न खाय ॥ इति पित्तज्वरचिकित्सा ॥

अथ खेदज्वरको तेल वृन्दसे ।

तिलोंका तेल लेकर कायफल मिलावै पीसकर
पीछे शरीरमें मर्दनकरे घडी ४ पीछे गरमजलसे स्नान
करै शरीरका खेद मिटै खेदज्वर दूरहोय अच्छे गेहूंका
चूरमा खेदज्वरवालेको पथ्य है ॥ इति खेदज्वर
चिकित्सा ॥

अथ वातज्वरको चूर्ण वृन्दसे ।

- लवंग मिर्च पीपलामूल कुटकी मोथा गिलोय नेत्र-
बाला सोंठि चिरायता गोखुरू कटाई दोनों ये औषध
सब बराबर ले इनका काढ़ा कीजै अष्टावशेष दीजै तो
वातज्वर दूर होय ॥

पुनः काथ वृन्दसे ।

पीपल सौंफ सारिवा मुनक्का साठीकी जड़ यह सब
औषध सममात्राले इनका काढ़ाकरै औटतीवार १पैसा-
भर गुड़गेरदे अष्टावशेष करके पिलावै वातज्वर जाय ॥

अथ वातज्वरकी फंकी ।

सतुवा सोंठि टंकशैकलीजै सेंधानोन माशेर भर
लीजै पीसके चूर्ण करे ताजा पानीसे पीलीजै वातज्वर
दूर होय संधि २ की वात जाय कोठा शुद्ध होय ॥

पुनः वातज्वरको काथ ।

कूट गिलोय त्रायमाण मुनका सारिवा यह सर्व औषध बराबर ले १ सेर पानी ले १ पैसा भर पुड़िया गेरिये गुड़ पैसा १ भर गेरदे आठवां हिस्सा रहे तब उतारले रोगीको पिलावै वातज्वर जाय ॥

पुनः अमरसुन्दरी गोली चरकसे ।

तज तमाल छोटी इलायची त्रिफला त्रिकुटा सार नागकेसर पीपलामूल सँभालूके बीज चित्रक काकड़ा-सिंगी यह औषध ४ चार टंक ले सममात्रा पारा टंक २ आंवलासार टंक २ नागरमोथा टंक ४ बायबिड़ंग टंक ४ इन सब औषधोंसे गुड़ दूना लेकर चनाप्रमाण गोली बांधले गोली १ प्रभात खाय और सन्ध्याको एक खाय वातज्वर जाय ॥ इति वातज्वरकी चिकित्सा ॥

अथ दृष्टिज्वर उपाय ।

सोचरसंधा पुष्करमूल खुरासानी पीपलामूल सतावर चित्रक इहें छोटी इलायची यह सब औषध बराबर ले कूट छान चूर्ण कर २ टंक चूर्ण ताते पानीसे लीजै तो दृष्टिज्वर जाय ॥ इति दृष्टिज्वरचिकित्सा ॥

अथ कफज्वरचिकित्सा खैरसारादिगुटिका योगचिंतामणिके मतसे ।

खैरसार माशे ३ त्रिफला माशे ३ कायफल मासे २

पीपल माशे ३ कूट माशे ३ ये औषध बराबर ले सब कपड़छान कर अदरखके रसमें ७ पुट दे फिर कीकरके रसकी १० पुट दे गोली छोटे वेर प्रमाण बांधिले गोली १ सोनेके समय मुखमें गेर चूसिये कफज्वर जाय पांच प्रकारकी खांसी जाय क्षयी स्वरभंग मिटै ॥ १ ॥

अथ कफज्वरको रस चिंतामणिके मतसे ।

पारा टंक ४ आंवलासार टंक ४ पीसे दोनोंकी कजली करै पीछे आकका दूध पैसा २० भर सेंधानोन पैसा ३, भर सोंचर पैसा ३ भर बिड़नोन पैसा ३ भर कचनोन पैसा २ भर सांभरनोन माशे ६ इन सबको पीस आकके दूधमें पारा गन्धक समेत मिलायके खरल करै पहर १ तिसके पीछे एक मोटा शंख लायकर शंखकापेट खुदाय कर शंखबीच सबदवाई धरै पीछे सुखायदेनी एक कोरी हांडी लायकर पीपल टंक १६ कनेरकी छाल टंक १६ कूट टंक २ वत्सनाग टंक ८ ये चार औषध पीसकर पानी सेती कीचकर शंखके मुखमें गाढ़ीमुद्रादेनी फिर सुखाय शंख हांडीबीच धर हांडी ढकके गाढ़ागाढ़ा कपड़ा मिट्टी लगाय सुखायलेना पीछे गज १ लंबा गज १ चौड़ा गढ़ाकरना पीछे आधगढ़ा उपलोंसे भरना पीछे शंखकी हांडी धरना ऊपर और अरनादेना ऊपर आग लगाना चारपहर रात्रिभर आंचमें रहै शीतलहोय तब हांडी काढ़

लेनी हांडीके बीचसे शंखकाठना पीछेशंख औषधसमेत पीस महीन कर कपडछान करना पीछे नागरपानके रसमें गोली बांधनी चिरमिटी प्रमाण प्रभात १ सन्ध्या १ खानी श्वासकास दूर होय हियाकारोग दूर होय ॥

अथ कफज्वरकोतालीसादिगोलीयोगमतसे ।

तालीसपत्र चाब मिर्च इन तीनों सेती दूनी पीपलामूल सोंठि तिगुनी लीजै गुड़ दूना लेकर मिलावै तज पत्रज इलायची छोटी मिर्च ये चार लीजै यह सब औषध इकट्ठी कर छोटी सुपारी वरावर गोली बांधिये इस गोलीके खायेसे कफज्वर दूर होय ॥

पुनः फंकी वृन्दसे ।

पीपल माशे ९ कटाई माशे ७ यह दोनों पीस चूर्ण करे टंक १ ॥ गरम पानीसे खाय तो कफज्वर दूर होय ॥

पुनः अवलेह ।

पीपल पुष्करमूल कायफल काकड़ासिंगी यह चार औषध वरावर ले चूर्ण करे शहद माशे ६ चूर्ण माशे ३ मिलाकर अवलेह चाटे तो कफज्वर जाय श्वास मिटे ॥

पुनः अवलेह वृन्दसे ।

त्रिफला पटोलपत्र अट्टसा गिलोय कुटकी पीपलामूल यह सब औषधका चूर्ण करे शहद मिलाय चाटे तो कफज्वर जाय श्वास कास मिटे ॥

पुनः चटनी वृन्दसे ।

सोंठि टंक २ मिर्च टंक २ पीपल टंक २ कायफल टंक २
२ भारंगी टंक २ कर्कटशृंगी टंक २ हड़कीछाल टंक २
यह सब औषध बराबर लीजै कपड़छान कर चूर्ण करै
पीछे शहद पैसा १ भर औषध माशे ३ मिलायकर
चाटना श्वासकास कफज्वर जाय भूख बहुत लगै ।

पुनः कफज्वरको नास ।

त्रिकुटा नींबकी छाल नकछिकनी कायफल ये सर्व
औषध सममात्रा चूर्ण कर कपड़छान करके नाकमें
नास दीजै कफज्वर जाय शिरकी पीडा दूर होय ॥

पसेवको उद्धूलन ।

त्रिकुटा हड चिरायता कुटकी कूट कचूर कायफल
लोथ इसबन्द पुष्करमूल यह औषध बराबर लेकर
चूर्ण करै चूर्णको तीन बार छानै पीछे कफवाले पुरु-
षकी छातीमें मर्दन करै कफका पसेव मिटै ज्वर जाय
देह हलकी होय ।

काथ सन्निपात कलिकासे ।

त्रायमाण पुष्करमूल शालिपर्णी कटाई दोनों
गोखरू अरणी बेलगिरी स्योनाक कुंभेरी पृष्टिपर्णी पा-
टल यह सब बराबर ले आठवां हिस्सा बाकी रहै तब
उतारै पीपलका चूर्ण ऊपर गेरदे पीछे मिलावै तो
कफज्वर जाय । इति कफज्वर चिकित्सा ॥

अथ पित्तज्वर सन्निपात चिकित्सा कलिकासे ।

चन्दन नेत्रवाला खस कायफल तज धावेके फूल पद्माकं फूलप्रियंगु यह सब औषध सम मात्रा ले मिश्री १६ गुणी लीजै इस चूर्णमें मिश्री मिलायकर घरे टंक २ ताजे पानीसे नित्य ले दोनों वक्त रक्तज्वर श्वास कास गरमी दूर हो ॥

रक्तपित्तको चूर्ण वृन्दसे ।

त्रिफला मुनक्का अडूसा नेत्रवाला दाड़िमकीछाल ये सब औषध सममात्रा लीजै चूर्ण करै पीछे चूर्ण टंक २ ॥ बकरीके दूधसेती ले दोनों वक्त ती रक्तपित्तज्वर जाय ।

श्रीखंडादि चूर्ण योगचिन्तामणिमतसे ।

चन्दनसफेद मिर्च लवंग तज दाख मुनक्का पीपल सोंठिरक्तचन्दन नेत्रवालासफेदजीरा स्याहजीरा पीपला मूल जायफल पत्रज इलायची छोटी केसर नागकेसर छुहारा हल्दी कमलगट्टा धनियां मुलेठी चीता वंशलोचन गिलोयसत खैरसार यह सब औषध सममात्रा लेकर चूर्ण कीजै इन औषधोंसे १६गुणी मिश्री लीजै चूर्ण टंक २ ताजे पानीसेती लीजै दोनोंवक्त रक्तपित्तज्वर श्वास कंठशोष क्षयज्वर बीस २० प्रमेह अतीसार विपमज्वर दाह भगन्दर अर्श दूर होवे बीज बँधे धातु थँभे देह दुर्बल होय ती पुष्ट होय ॥

अथ अवलेह योगचिंतामणि मतसे ।

मिश्री टंक १६ वंशलोचन टंक ८ पीपल टंक ४
इलायची टंक २ दालचीनी टंक ४ जीरासफेद टंक २
मुलेठी टंक २ चन्दन सफेद टंक ४ यह औषध कपड-
छानकर मिश्री शहद घृत एकत्र कर टंक २ चूर्ण गेरकर
चटनी कीजै रक्तबुखार कासश्वास क्षय हाथ पांवका ज-
लना यह सब रोग जावें और जीभसूखतीहोय तो तुर-
न्त नरम होय, शूल अरुचि नाक व मुखसे रुधिर पडता
होय तो थँभै यह शीतोपलादि इतनेरोगोंको दूरकरे ॥

काथ सन्निपात कलिकासे ।

मल्यागिरि नागरमोथा पित्तपापडा नींबकी छाल
विजयसार महुआ मुलेठी नेत्रवाला रक्तचन्दन यह औ-
षध सममात्रा लीजै एकपैसाभरका काढ़ाकीजै आठवां
हिस्सा उतारि पीछे मिश्री बुरकाय पीवै इस काढ़ेसे
कान मुख नाक गुदा इनमें रुधिर जाता हो तो थँभै ॥

नास योगमतसे ।

सरीयूव दाडिमका फूल इन दोनोंका रस निकाल
चावलके पानीसे नास ले तो नकसीर थँभै ॥ इति
रक्तपित्तज्वरचिकित्सा ॥

अथ एकान्तरज्वर वेलाज्वर तिजारीज्वर

चौथाज्वर सर्वज्वर कूं अरिष्टादि

निवादि चूर्ण चरकशास्त्रसे ।

नींबके पंचांगकी छाल पान फूल फल जडटंक २ सांठि

टंक३ मिरच टंक३पीपल टंक ३ त्रिफला टंक१सौंवर
 टंक ३ सेंधा टंक ३ सांभर टंक ३ सज्जीखार टंक ३
 अजवायन टंक ३ जवाखार टंक३ इनका चूर्ण टंक २
 गरम पानीसेती खाय नित्यज्वर शीतज्वर दाहज्वर
 वेलाज्वर तिजारी;एकांतरा,चतुर्थज्वर सर्वज्वर जायँ ।

पुनः सर्वज्वरको षोडशांगचूर्ण वाग्भट्टसे ।

चिरायता नींबकी छाल कुटकी गिलोय हड्डे ना-
 गरमोथा धमासा त्रायमाण कटाई दोनों काकड़ासिं-
 गी सोंठि पित्तपापड़ा फूलप्रियंगु पटोलपत्र पीपल क-
 चूर ये औषध वरावर लेके कूट छानकर पीछे मासा
 तीन गरम पानीसेती ले दोनों वक्त रूखो खाय पथ्य
 मोठ मृंग वाजरा चावल दीजे सर्वज्वर जायँ बहुत दि-
 नोंका विपमज्वर जाय ।

अथ एकाहिकज्वरकूं रस योगचिंता-
 मणिमतसे ।

पाराटंक १ शोधाआमलासार टंक २ वच्छनाग
 टंक ३ मिरचटंक ३ अभ्रकटंक ३ तामेश्वरटंक ३ हींग
 टंक३ नींबूके रसकी पुट १ दीजे दोपहर खरल करे वहे-
 डाकी छाल पीस ऊपरसे गेरदे रातको शहदसंग खाय
 रत्तीदो तो वेलाज्वर तिजारीज्वर सर्व ज्वर जायँ ॥

अथ ज्वरांकुशचृन्दसे ।

कनेरकी जड़रपैसा भर मैनशिल पैसा १ भर कली

का चूना २ पैसा भर नीलाथोथा २ पैसा भर पानीसे पीस गोली बांधे सुखायकर हांडीवाँच रखे हांडीका मुँह खामदे बड़ी ४ आंच देनी शीतल होय तब काढ़ले मासे ४ भर खांडमें १ रत्ती ज्वरांकुश दोनों मिलायके खाय पथ्य दूध भात वतासे देना नित्य एकांतरा तिजारी चातुर्थिक सर्व ज्वर जायँ यह ज्वरांकुश रुद्रदत्तने पुत्रके वात्से कहा है ॥

अथ पूजापाठ गोली योगचिन्तामणिमतसे ।

पारा शोधाटंक ५ आंवलासार गरुधक टंक ५ सुहागा तेलिया भूना टंक ५ अजयपालकी मींगी शोर्धा टंक ५ ये चार औषध पीसकर गोली छोटी वरप्रमाण बांधे गोली एक पानमें धरकर खाय पथ्य दूधभात मिथी खाय दस्त लगें ३० और उवाकी लगें तो शीतदाह एकांगी बिलाज्वर तिजारी नित्यज्वर दूर होय ॥

एकाहिकज्वर शीतज्वर दाहज्वरको

अंजन वृन्दसे ।

नींबकी गिरी सिरसके बीज धरधूत्रा साबुन सांपकी कांचली मिरच सींग सहासन ये सर्व औषध सममात्रा लेकर पानीसेती गोली कीजे आंखोंमें अंजन कीजे ता सिया दाह एकान्तरा तिजारी सर्वज्वर जायँ ॥

अथ नित्यज्वर एकान्तरज्वरका

ज्वरांकुश वृन्दसारसे ।

कलीचूना टंक १० हरताल बुगदादी टंक १० व

रके रसमें मर्दन कीजै पहर ४ ताई टिकरी कर सुखाय-
कर टिकरी दो सरवोंमें धरदे ऊपर मिट्टी कपड़ाकर
गजपुट कीजै पहर चार आंच देनी शीतल होय तब
काढ़ले खांड पैसा १ भरमें रत्ती २ ज्वरांकुश गरम पा-
नीसेती ले नित्यज्वर एकान्तरा तिजारी सर्वज्वर जाय।

अथ नित्यज्वरको काढा वृन्दसे ।

पटोलपत्र इन्द्रयव यह दोनो बराबर काढा कर
पीवे नित्यज्वर जाय ॥

अथ तिजारीज्वरको काढा वृन्दसे ।

छड़ नागरमोथा सारिवा कुटकी पटोलपत्र यह
औपध बराबर लीजै इनके काढेसे तिजारीज्वर जाय ॥

पुनः तिजारीको काढा चरकसे ।

त्रिफला त्रिकुटा नागरमोथा मुनक्का पटोलपत्र नीब-
की छाल यह औपध सममात्रा लीजै इनका काढा कर
पीवे मिश्री टंक २ ऊपरमेती बुरकायदे तो तिजारी
ज्वर जाय ॥

अथ चतुर्थज्वरको काथ वाग्भट्टसे ।

रक्तचन्दन सांठि चिरायता कुटकी नागरमोथा
गिलोय आंवला यह सब औपध बराबर ले इनका
काढा पीवे तो चतुर्थज्वर जाय ॥

पुनः काथ वृन्दसे ।

अट्टसा इडकी छाल आंवला सांठि देवदारु यह

औषध सममात्राले इनके काढेसे चतुर्थज्वर जाय
वृन्दसखीने कहाहै ॥

अथ चतुर्थज्वरकी जडी ।

बडी कटाईकी जड़ आदित्यवारको सूर्य निकलते
प्रभातके समय लीजै घूप गूगुलकी देकर पुरुषके दाहने
और स्त्रीके बायें हाथमें बांधे तो तिजारी चतुर्थज्वर जाय।

पुनः तिजारीकी जडी ।

दुद्धीकी जड़ आदित्य वारके दिन लीजै प्रभातके
समय अथवा बुधके दिन लीजै गूगुलकी धूनी देकर
गलेमें बांधदे तो तिजारी जाय ॥

अथ एकान्तरकोटोना वृन्दसे ।

अथ मंत्रः—गंगायासुत्तरेकूले अपुत्रोतापसामृतौ ।

ताभ्यांतिलोदकंदद्यान्मुचएकाहिकज्वरः ।

अथ विधिः ।

कालातिल पाकसेर कुयेंका ताजापानी इसमंत्रसेती
नित्यज्वरको और सर्वज्वरको नाम लीजै वाहर जाय तिलों
की ढेरीपास पानी गेरदीजै मुखसे मंत्र कहिये ॥ अमुक
को नित्यज्वर जाय ऐसे कहिके उठि आवै पीछे फिरके
देखै नहीं नित्य शीत दाह एकान्तरा वेला सर्वज्वर जाय ॥

अथ डाकिनीका मंत्र लिखते हैं ।

ओं नमो वातरस्य मुखं चोरं आदित्यसमतेजसम् ।

तस्य स्मरणमात्रेण ज्वरानशयन्ति तत्क्षणात् ॥ १ ॥

कालडाकिनीके ऊपर अथवा लालडाकिनीके ऊपर यह मंत्रलिखे पीछे रोगीके शरीरके सातवार धुआवै शीतज्वर आताहोय तो ढकनीको चूल्हाके भीतरगाडिये ऊपर आगवारिये शीतज्वरजायदाहज्वरहोय तोढकनी लेकर सातवार रोगीके शरीर ऊपर उतारकर पानीमें राखिये औंधाधरिये ऊपर पत्थर धरिये घड़ो सबजलसे भरदीजै दाहज्वरहो तो ३ दिन ढकनीको पानीके घड़ेके भीतर राखिये शीतज्वर होय तो दिन ३ चूल्हेमें या अँगीठीमें राखिये पीछे हनुमानके नामकी मिठाई सवापावकी वाँटै दाहज्वर शीतज्वर जाय ॥

अथ तापकेगंडेका मंत्र ।

ॐ नमः स्वस्ति श्रीलंकामहादुर्गात्महाराज श्रीरावण वामनजी वचनात् विभीषणलिखितं श्रीमर्त्यलोके एकान्तर ज्वर वेलाज्वर नित्यज्वर शीतज्वर दाहज्वर पित्तज्वर कफज्वर तृतीयज्वर चतुर्थज्वर भयज्वर अमुक नगरमें अमुकपांडे अमुकठिकाने अमुकजनके अमुकके शरीरमें रहैहै उस लेखदर्शनेन अग्निमाहिंपड़े भस्म हूँ नहीतो चन्द्रहास खड्गसेती शिर छेदिये राजा रावण की गदा तरे माथे बजेगी ॥ (ॐ ठः ठः स्वाहा) ॥

अथ गंडाकीविधि ।

ढाईपूनी तथा साढ़ेतीन पूनी आदित्यवार के दिन

अथवा मंगलवारको कन्यासे कतवावे डोरी करै पीछे इस मंत्रसे गांठि दीजै ७ एक एकमें तीनतीन बार पढ़िये मंत्र २१ बार पढ़कर गूगल देवे पाछे डोरा पुरुपके दहने हाथ स्त्रीके बायें हाथमें बांधिये मिठाई सवापावकी हनुमान्जीके नाम बांटिये तथा सवासेरका रोट कर अभ्यागत जिमाइये सर्व जातिका ज्वर जाय ॥

शीतज्वरका लक्षण माधवनिदानसे ।

शरीरमें शीत लगे श्वास कास कफ होय मस्तकमें पीड़ा छदी भूख शरीर शीतल होय उबकाई होय । यह लक्षण शीतज्वरके हैं ॥

अथ सन्निपातका चूर्ण कलिकासे ।

बीपलामूल १ टंक पीपल १ टंक चित्रक १ टंक सोंठि १ टंक भारंगी १ टंक चिरायता १६ टंक पुराना गुड़ १५ पैसाभरमें चूर्ण मिलाय पीछे प्रभातसमय खाय शीतांगज्वर जाय ॥

अथ कालारिस ।

पाराटंक १ गन्धक टंक २ वत्सनाग टंक २ पीपललाख टंक १ लवंग टंक २ सुहागा तेलिया टंक २ अकरकरा टंक २ जावित्री टंक २ मिरच टंक २ जायफल टंक २ धतूरेके बीज टंक २ कनेरके पत्तोंके रसमें यह औषध पीसके खरलमें दिन ३ पीछे दिन ९ मर्दन करै पीछे

रत्तीषऔपध पानके रससे तथा अदरखके रसमें रोगी-
को खवावे तौ शीतज्वर दूर होय चौरासी वायु जायँ ॥

कनकसुन्दरी रसःसन्निपातकलिकासे ।

वत्सनाग शोधा त्रिकुटा लवंग अजवायन सुरासानी
अजवायन यह सब बराबर मुहरा भाग १ लीजै धतूरे-
के रसमें प्रहर १ मर्दन करै अदरखके रसमें प्रहर १
पीछे सुखायकर लवियामें रखना चूर्ण रत्ती चार रोगी-
को देना शीतज्वर शीतांग हाथ पांव बांड़ा होगया होय
जबड़ा मिचगया होय तौ तुरंत खुलजाय अचेत चैतन्य
होय हाथपांव शीतल होयँ तौ गरम होयँ कफज्वरसन्निपा-
त दूर हो यह कनकसुन्दरीरस आप महादेवने बताया है ॥

पीपलादि काढा वृन्दसे ।

पीपल पीपलामूल अतीस यवःचित्रक सोंठि पाढ
कुड़ाकी छाल कुटकी चिरायता पीलूकीःजड़ जीरा
सफेद सरसों मिरच धमासा वडी कटाई जवासा
पुष्करमूल अजवायन वायविडंग अजमोद भारंगी
आककी जड़ कायफल हींग काकड़ासिंगी यह सब औ-
पध बराबर लीजै जब कूट काढा कीजै आठवां हिस्सा
आयरहै तव उतारले पीछे रोगीको पिलावे तौ शीतज्वर
आलस सन्निपात जाय ॥

लघुज्वरांकुश वाग्भट्टसे ।

त्रिकुटा चित्रक वत्सनाग पारा शोधा यह औपध ब-

राबर लीजै गोली चनाप्रमाण मिश्रीसेती खाय जिसके ऊपर पानी नहीं पीवै शीतज्वर दूर होय शूल मिटै श्लेष्मज्वरका नाश होय तेरह सन्निपात मिटै कासश्वास मिटै और वायु चौरासी जायँ चित्तभ्रम जाय ॥

उद्धलन सन्निपातकलिकासै ।

मुहरा टंक १ मिर्च ३ पैसाभर कौड़ी की राख ५ पैसाभर कड़वी तोरईके बीज १३ पैसाभर पीपल ७१ सेर अरनाकी राख ७१ सेर ये सब औषध एकत्र करना कूटछान धतूरेके रसकी पुट, देना पीछे धूपमें सुखावना पीछे पीसना देहमें मर्दन करना शीत मिटै देह गरम होय एते रोग दूर होयँ ॥

अथ अजीर्णके लक्षण ।

पहिले दशज्वर कहे वेलाज्वर बहुत दिन रहे जिसमें श्वासकास उपजै उस श्वासकाससे अजीर्णज्वर होय ॥

अथ अजीर्ण ज्वरको गोली वृन्दसे ।

पीपल १० टंक गुड़ ३० टंक मिलायकर खायतौ अजीर्णज्वर जाय ॥

पुनः अजीर्णको चटनी ।

शहद १ तोला पीपल ६ माशे पीस मिलाय ७ दिन खाइये तौ अजीर्णज्वर जातारहै ॥

पुनः काढा वृन्दसे ।

मिलोयका काढा कीजै आठवां हिस्सा आयरहै तव पीपलका चूर्ण बुरकावै पीछे रोगीको पिलावै तौ अजीर्णज्वर जाय ॥

पुनः काथ वृन्दसे ।

बेलगिरी स्योनाक पाढ़ अरणीकी जड़ ये पांच मूलका काढाकरै आठवां हिस्सा आयरहै तव अजीर्णज्वर वालेको पिलावै तो अजीर्णज्वर जाय ॥

पुनः काढा रसरत्नाकरसे ।

सोंठि चाव चित्रक पीपल पीपलामूल ये सब औषध बराबर लीजै इनका काढा कर ऊपरसेती जवाखार ३ माशे बुरकावै पीछे पिलावै अजीर्ण ज्वर जाय ॥

अथ विषमज्वरकी उत्पत्ति लक्षण

माधवनिदानसे ।

जीर्णज्वरसेती उपजै जीर्णके काम करै क्रोध करै स्त्रीप्रसंगसे भयसे गई चीजके शोचसे दलगीरी से हों उसज्वरका नाम विषमज्वर कहिये हैं ॥

विषमज्वर लक्षण कहते हैं ।

हाथ पैर लगजायँ देह सुस्तरहै आलस्यरहै भूख बंद रहे कभी ज्वर रहे कभी शीतल देह होय कभी श्वासकास

होय शूल होय अरुचि होय रुधिर मांस सूखे देह पीली पड़जाय ये लक्षण विपमज्वरके हैं ॥

अथविपमज्वर वर्द्धमानपिप्पली योगमतसे ।

पहिले दिन३ पीपल दूसरे दिन५तीसरे दिन७चौथे दिन ९० पांचवें दिन ९०छठे दिन७ सातवें दिन ५ आठवें दिन३इसतरह पीवे चढ़ती उतरती९००पीपल पीवे तो विपमज्वर श्वास कास अजीर्ण हिचकी गुल्म भगन्दर घृह अर्श कुष्ठ सन्निपात इतने रोग वर्द्धमान पीपलसेती जायँ ॥

अथ हारिद्रकज्वर,कमलवायु,पीलिये-
का लक्षण माधवनिदानसे ।

वातपित्तका कोप होय तव हारिद्रकज्वर होय कण्ठशोष होय देहमें दाह होय शरीर पीला होय आंख पीली होय नख पीले होयँ पेशाव पीला होय तृषा बहुत होय कोठा बंद होय इतने लक्षण हारिद्रकज्वरके कहे हारिद्रक ज्वरवाले को दस्तयोग हैं ॥

अथ हारिद्रकज्वरवालेको काथ योगचि-
न्तामणिमतसे ।

हरड़े नागरमोथा चिरायता अइसा मुनका गिलोय नींब पीपलामूल मुलहठी ये औषध सब बराबर लीजे

सब समान कूटि काढ़ा करै ठंडा होय तब शहदंगेरकर पीवै इस काढ़ेसे हारिद्रक पांडु कमलवायु जाय ॥

अथ काथ वृन्दसे ।

नेत्रबाला पित्तपापड़ा नींबकी छाल नागरमोथा गिलोय धनियां अमलतास साँफ पद्माक कुटकी जवासा रक्तचन्दन शतावर ये सब औषध बराबर लीजै सब औषधके बराबर मुनक्काका काढ़ा करै हारिद्रक-ज्वर जाय दाह गरमी मिटै ॥

अथ आमज्वरका लक्षण माधवनिदानसे ।

आलस्य होय निद्रा होय खांसी और भारीपन होय पेट भारी होय अरुचि होय देह सुस्त होय आम-ज्वरके इतने लक्षण कहे ॥ आमज्वरवालेको लंघन करावै औटा पानी दीजै हलका अन्न दीजै दालिका पानी दीजै कड़वी औषध दीजै शोधन काढ़ा दीजै योगचिन्तामणि चरक वृन्द शास्त्रनेभी कहा ॥

इति श्रीपद्मरंगशिष्यरामचन्द्रविरचित रामविनोदका सर्व पा-
चनकजीर्णाहार पित्तखेद वायुदृष्टि कफ रक्तज्वर एकाहिक
द्वितीयक तृतीयक चातुर्थिक शीतजीर्ण विषमहारिद्रक-
आमज्वर इनके उपाय उद्बलन अंजन अवलेह नाम
मंत्र गंडा टोना कथननाम द्वितीयाधिकार ॥ २ ॥

अथातीसार अधिकार वातपित्तकफनिदान ।

शीतसे गरमसे भारीचीजसे वातपित्तका दोष प्रकट

होयहै लक्षण डकार होय मूर्च्छा होय तृषा बहुत होय।
अथ वातपित्तज्वरको चूर्ण वृन्दसे ।

त्रिकुटा पीपलामूल ये दोनों बराबर लीजै इनसे
दूनी मिथ्री ले ये सब कूट छान चूर्ण करै दो टंक
पानीसेती ले तो वातपित्तज्वर दूर होय ।

पुनः चूर्ण वृन्दसे ।

पीपल एक टंक मिथ्री २ टंक पीसि पानीसेती फांकले
तो वातपित्तज्वर दूर होय ।

पुनः पंचभद्रकचूर्ण ।

पित्तपापडा नागरमोथा चिरायता सोंठ गिलोय
यह सब सममात्रा लेके चूर्ण करै पानीसेती फांके
तो वात पित्तज्वरजाय ॥

काथ शार्ङ्गधरसे ।

मुनक्का गिलोय आंवले कुटकी चिरायता कपूर
यह सब औषध बराबर लीजै यत्र कूटकर अष्टावशेष
काढ़ा करिये पीछे ठंडा करि २ टंक शक्कर गेरके पीवे तो
वातपित्तज्वर दूर होय ।

पुनः वातपित्तको काथ वृन्दसे ।

नागरमोथा नेत्रवाला सोंठ पाढ़ कमलगट्टा चिरा-
यता गिलोय यह बराबर लीजै काढ़ा कर पीवे
वातपित्तज्वर जाय ॥

अथ कफपित्तज्वरका लक्षण सिद्धसारसे ।

महादाह होय तृषा बहुत होय छर्दि (उवाकी) होय
सारे शरीरमें पसेव होय कफपित्तज्वरके लक्षण ये हैं ।

कफपित्तज्वरको चूर्ण वृन्दसे ।

अडूसा पानफूलसमेत १३ माशे कटाई ९ माशे मि-
श्री १ तोला पानीसेती नित्यले तो कफपित्तज्वर जाय ॥

कफपित्तज्वरको काढा शार्ङ्गधरसे ।

सफेद चन्दन नागरमोथा गिलोय कटाईकी जड
कुलींजन अडूसा इन्द्रयव भारंगी जवासा ये सब औषध
बराबर ले काढा करै पीछे पीवै तो पित्तकफज्वर तृषा
कास श्वास अरुचि शूल इतने रोग जाय ॥

पुनः कफपित्तज्वरको काढा वृन्दसे ।

नीब गिलोय धनियां पद्माक रक्तचन्दन ये औषध
बराबर लेकर काढा कीजे पीछे पीवै तो छर्दि देह-
पीडा तृषा जाय ॥

कफपित्तज्वरको चूर्ण ।

कुटकी १ टंक मिश्री ४ टंक पीस गरम पानीसेती
फंकी लीजे तो कफपित्तज्वर दूर होजाय ॥

कफपित्तज्वरको काथ वृन्दसे ।

धनियां इन्द्रयव नीबकी छाल पटोलपत्र पित्तपा-
पडा ये औषध बराबर लीजे इनका काढा करके पीवै
तो पित्तश्लेष्म ज्वर जाय ॥

अथ वायु कफके लक्षण माधवनिदानसे ।

अन्दर बाहर शरीर गरम होय पसेव बहुत आवे
कफ ज्यादा होय इतना लक्षण कफ वायुका कहा ॥

अथ कफ वायुको चूर्ण वृन्दसे ।

पीपल पीपलामूल चव्य चित्रक साँठ ये सब वरा-
वर ले कूट छानकर २ टंक चूर्ण गरमपानीसेती खाय
तो वातकफज्वर जाय ॥

अथ वातपित्तको खैरसारादि गोली
योगचिन्तामणिमतसे ।

खैरसार त्रिकुटा त्रिफला पीपलामूल काकडासिंगी
पुष्करमूल लवंग कायफल इलायची कचूर ये सब औष-
ध वरावर लीजै कूट छान अदरसके रसकी ७ पुट दे
चनाप्रमाण गोली कीजै खाय तो वातश्लेष्मज्वर जा-
य पसवाडेको शूल स्वरभंग गलरोग इतने रोग जायैः।

अथ वायुकफको काथ वृन्दसे ।

कायफलनागरमोथा भारंगी धनियां हड़ काकडासिंगी
साँठ पित्तपापड़ा देवदारु हींग मुलहठीये औषध वरावर
लीजै इनका काथ पीवे तो हिचकी श्वासकासजाय ॥

पुनःपिप्पलादि काढा वृन्दसे ।

पीपल रीठा रासना हींग मुलहठी सँभालूके बीज ना-
गरमोथा हड़ कुडाकी छाल बिधारा एरण्डकी -

न्द्रयव निसोत सफेदजीरा अजवायन मिरच नींबकी
छाल भारंगी सोंठ पीपलामूल ये औषध बराबर लेके
काढ़ा कर पिलावै कफवायु पसेव अंगपीड़ा खांसी
धाँसी शूल पीपलादि काढ़ा इतने रोग दूर करै ॥

अथ सर्वज्वरको धूप योगमतसे ।

नेत्रवाला बालछड़ धतूरेके बीज विनौला मोरपंख
मजीठ गूगुल लहसन सरसों लाख वच कटाई माखी-
को बीट हाथीका दांत हींग मिर्चलाल सांपकी केंचुलि
इसबंध घीसे गोली बांधकर अग्नि ऊपर धूप दीजै
आठों ज्वर जायँ भूत प्रेत राक्षस बैताल सन्निपात
इन्माद चित्तभ्रम इतने रोग जायँ ॥

अथ सन्निपातकी उत्पत्ति सन्निपात-
कलिकासे ।

ह्रस्वी वस्तुसे उष्णवस्तुसे, धातुक्षीणसे बोझ उठायेसे
खेदसे शोचसे इतनी बातोंसे सन्निपात उपजैहै ॥

अथ तेरहों सन्निपातकेनाम सन्निपात
कलिकासे ।

संधिक १ अंतक २ रुग्दाह ३ चित्तभ्रम ४ शीतांग ५
तन्द्रिक ६ कंठकुब्ज ७ कर्णक ८ भ्रमनेत्र ९ रक्तपीवी १०
प्रलापक ११ जिह्वक १२ अभिन्यास १३ तेरह सन्नि-
पातनाम धन्वन्तरिने कहे ॥

अथ सन्निपात आयुर्मर्यादा सन्निपात कलिकासे ।

संधिक मर्यादा ७ दिन तिसभीतर मरै अथवा जीवै
अंतक मर्यादा १० दिन रुग्दाह मर्यादा २० दिन चित्त-
भ्रम मर्यादा ३ दिन शीतांग मर्यादा १५ दिन तन्द्रिक
मर्यादा २५ दिन कण्ठकुब्ज मर्यादा १३ दिन कर्णक
मर्यादा १ महीना भग्ननेत्र मर्यादा ८ दिन रक्तपीवी
मर्यादा १० दिन प्रलापक सन्निपात मर्यादा १४ दिन
जिह्वक मर्यादा १६ दिन अभिन्यास मर्यादा १५ दिन
यह सन्निपातकी मर्यादा कही ।

अथ साध्य असाध्य लक्षण ।

संधिक सन्निपात साध्य कहिये १ तन्द्रिक २ चित्तभ्रम ३
कर्णक ४ जिह्वक ५ कंठकुब्ज ६ पांचों कष्टसाध्य कहिये
रुग्दाह अति कष्टसाध्य कहिये ७ अन्तक ८ रक्तपीवी ९
भग्ननेत्र १० शीतांग ११ प्रलापक १२ अभिन्यास १३
इन तेरहमें एक साध्य अरु पांच कष्टसाध्य रुग्दाह
सातवां अतिकष्टसाध्य है बाकी ६ असाध्य कहे इन
सन्निपातके लक्षण चिकित्सा कहे हैं ॥

प्रथम संधिक लक्षण ।

पेटमें शूल होय वायु होय कफ होय नहीं ताप होय
शरीरकी संधि सब दूखें तो संधिक जाने संधिकवालेको
लंघन करावै सब शरीरमें विपगर्भ तेलका मर्दन कीजे

लंघन पीछे मूंगमोठका पानी दीजै ऊपरसे पीपल जीरा कालानोन बुरकावै ॥

अथ भारंगादि काथ वृन्दसे ।

भारंगी पुष्करमूल रासना सोंठ बेलगिरी अजवायन चिरायता दशमूल ये सब दवाई बराबर ले एकसेर पानी लीजै दवाई छटाक भर लीजै काढा करे जब आठवां हिस्सा पानी आयरहै तब औषधको पीवै संधिक वायुका नाश होय सर्व शरीरका शून्यत्व जाय हाथ पैर अकडजायँ तो खुलजायँ ॥

पुनः संधिक सन्निपातको रासनादि काथ कलिकासे ।

रासना गिलोय त्रिफला विधारा सोंठ शतावर देवदारु यह सब औषध बराबरलेकर काढा करै गूगुल १ टंक गेरुदे १४ दिन ताई संधिक दूर होय पथ्य मोठकी दाल खटाई घृत दीजै नहीं ॥

पुनः काढा वृन्दसे ।

सोंठ गिलोय एरंडकी जड़ हड़ देवदारु रासना इन औषधोंका काढा करै पीछे पिलावै तोसंधिकवायुदूरहोय ॥

पुनः काथ सन्निपातकलिकासे ।

रासना सोंठ गिलोय अडूसा हरडै देवदारु कचूर कुटकीशतावर एरंडकी जड़ यह सब बराबरलेकर काढा करै पीछे पीवै संधिकवायु दूरहो और चौरासीवायु मिटै ॥

पुनः संधिकको धूनी वाग्भट्टसे ।

निंबौलीकी मींगी सँभालू भांगके बीज वच तगर दे-
वदारु पीपलामूल विनौला आकफूली सांपकी कांच-
लीशिरका नाल भेड़की चमड़ी शहदसंयुक्त धूप दे
मालसामाहिं अग्नि राखके भूत प्रेत राक्षस वैताल चुड़ैल
डाकिनी शाकिनी संधिकज्वर ये सब जायँ । इति
संधिकसन्निपातचिकित्सा ।

अथ अंतकसन्निपातका असाध्य लक्षण ।

अंतकसन्निपातवालेको दाह बहुत होय बेचैनी बहुत
होय ज्वर प्रबल होय हिचकी बहुत होय श्वास बहु-
त ले तिस पुरुषकी जीवनकी आश नहीं सब वैद्यवृद्धों-
ने कहा अंतकसन्निपात असाध्य है । जिसके अंतकस-
न्निपात होय तिसकी दवाई किसी ग्रन्थमें नहीं इसकी
दवाई पुण्यदान और गंगाजल है और उपाय नहीं है ।
इति अंतकचिकित्सा ॥

अथ रुग्दाह सन्निपातका लक्षण ।

दाह प्रबल होय अग्नि मन्द होय भ्रम होय खाँसी
बहुत होय शूल होय गला दूखै पीड़ा बहुत होय तृषा
बहुत होय ये रुग्दाहके लक्षण हैं ॥

रुग्दाह सन्निपातको काथ वृंदसे ।

त्रायमाण पुष्करमूल गिलोय सांठ चिरायता पीपल
धमासा रासना पित्तपापड़ा भारंगी मिर्च हड़ देवदारु
बच कटाई ये सब औषध बराबर लीजे इनका ,

प्रभात पीवै रुग्दाह सन्निपात दूर होय तृपा तन्द्रा निद्रा प्रलाप इतने रोग जायँ रातको नींद आवै ॥

रुग्दाहसन्निपातको काढा कलिकासे ।

ब्राह्मी नागरमोथा अजवायन कुटकी मुनक्का नींबकी छाल चिरायता अमलतास कड़वी तोरई नेत्रवाला गोखुरू बेलगिरी स्योनाक पाटल यह सब बराबर लीजै इनका काढा कर प्रभात पीवै तो शरीरकी सर्व व्यथा जायँ रुग्दाह सन्निपात जाय ॥

काथ सिद्धसारसे ।

हड़ पित्तपापड़ा नागरमोथा कुटकी अमलतास मुनक्का यह औषध बराबर लीजै इनका काढा करै सर्व वायु रुग्दाह सन्निपातको दूर करैहै ॥

लेप वृन्दसे ।

समुद्रझाग वेरीपत्र चन्दन सफेद नींबकी लकड़ी यह औषध पानीसे पीस शरीरमें लेप करै तो हाथ पैरकी दाह मिटै ॥

रुग्दाह सन्निपातकी धूप वृन्दसे ।

चन्दन सफेद नागरमोथा अमरनख कपूर गेहूँ इलायचीके बीज लोवानकी धूप रुग्दाहवालेको दीजै महाबलवान् दाह जाय ॥

अथ चित्तभ्रम सन्निपातके लक्षण ।

अंगरमें पीड़ा होय ताप होय उन्माद होय नेत्र

निम्न हो ५ फटी आंख होय अति हास्य करे गीत गावै
नाचै ये लक्षण चित्तभ्रमसन्निपातके वैद्योंने कहे हैं ॥

चित्तभ्रमको काथ वृन्दसे ।

नेत्रवाला इन्द्रवारुणी सोंठ मिर्च पीपल कुटकी वच
हड़ बहेड़ा आमला सुरदारु रासना धमासा जिमीकन्द
हल्दी नागरमोथा त्रायमाण नींबकी छाल कटाई काक-
ड़ासिंगी गिलोय साठीकी जड़इन्द्रयव पाटल ये औषध
बराबर लीजै इनका काढ़ा कर प्रभात सन्ध्या पीवे तो
चित्तभ्रमसन्निपात मूर्च्छा विकलता प्रलाप बकवादादि
सब दूर होजायं जैसे सिंहको देख हाथी दूर भागजाय ॥

पुनः पटोलादिकाथ योगचिंतामणिमतसे ।

पटोलपत्र गिलोय पित्तपापड़ा नागरमोथा धमासा
चिरायता नींबकी छाल बहेड़ाकी छाल आमला अडू-
सा यह सब औषध बराबर लीजै इनका काढ़ा करै
आठवाँ हिस्सा रहै तब पीवना ७ दिनतक पवनमें नहीं
रहना चित्तभ्रम सन्निपात दूर होय ॥

पुनः वृद्धक्षुद्रादिक काथ शार्ङ्गधरसे ।

कटाई नींबकी छाल पटोलपत्र चन्दन नागरमोथा
पित्तपापड़ा कुटकी गिलोय पद्माक बहेड़ा चिरायता
सोंठि इन्द्रयव पुष्करमूल धनियां भारंगी धमासा
यह सब औषध बराबर ले काढ़ा कर प्रभात पीवै
चित्तभ्रम छर्दि दूर होय ॥

पुनःचित्तभ्रमको काढा सन्निपातकलिकासे ।

हड़ पित्तपापडा अमलतास नागरमोथा मुनक्का चि-
रायता कुटकी आमला पाटल यह औषध बराबर लीजै
इनका काढा कर पीवै चित्तभ्रम सन्निपात दूर होय ॥

पुनः तगरादिक्वाथ सन्निपातकलिकासे ।

तगर असगन्ध पित्तपापडा मुनक्का अमलतास
नागरमोथा देवदारु कुटकी ब्राह्मी बालछड़ हड़ यह सब
औषध बराबर ले इनका काढा कर पीनेसे चित्तभ्रम
मूर्छा प्रलाप दूर होय ॥ इति चित्तभ्रम चिकित्सा ॥

अथ शीतांग सन्निपातके लक्षण कलिकासे ।

शीत लगै श्लेष्म होय श्वासकास होय शिथिलताहोय
तृषा नही होय पसेव होय इतने लक्षण शीतांगके कहेहै ॥
अथ शीतांगको चूर्ण योगचिंतामणिके मतसे ।

मोहरा ४ टंक वगर २ टंक मिर्च दक्षिणी ६ टंक फिटकरी
१३ टकेभर ये सब औषध चूर्ण कर ४ रत्ती अदरकके
रससेती लीजै गोली छोटे वेरप्रमाण बांधनी मूर्छा शीत
वात सन्निपात विच्छूबिप उतरे ॥

अथ शीतांगगुटिका रसचिंतामणिके मतसे ।

लवंग जायफल जावित्री अकरकरहाकेशर कस्तूरी
दालचीनी ये सब औषध कूट छान गोली ४ रत्तीप्रमाण
बांधे प्रभात संध्या १ गोली चाय तो शीतांग जाय ॥

पुनःगोली कुर्कटसे ।

पारा १ पैसाभर गन्धक १ पैसाभर इनसे दूना गुड़ ले गोली छोटे वेरप्रमाणकी करिये १ गोली प्रभात ६ संध्याको खाय शीतांग दूर होय मूर्च्छा दूर होय ॥

पाचन गुटिका चरकसे ।

पारा १ टंक गन्धक १ टंक मोहरा १ टंक इनके बराबर पीपल लीजे सब औषधबराबर गुड़ लीजे २ रत्ती प्रमाण गोली करे इसकी गोली खायसे शीतांगजाय कुष्ठ अतीसार कृमि ष्ठीहप्रमेह शूलकफधांसी इतनेरोग जायँ। बड़ी ब्राह्यादिगोली रसचिन्तामणिके मतसे।

ब्राह्मी तज लवंग केसर पीपलामूल पुष्करमूल सोंठि शतावर जायफल जावित्री मिर्च चिरायता शंखाहूली वच इलायची अकरकरहा अजमोद अजवायन चित्रक सोयेका बीज कुर्लीजनसार तमालपत्र अभ्रक तेजवल इन सब औषधोंसे दूने मुनक्का ले सब कूट गोली २ टंककी बांधनी प्रभात संध्या गोली खाय शीतांग श्वास कास चित्तभ्रम उन्माद कुष्ठबंध इतने रोग दूर होयँ ॥ इति शीतांगचिकित्सा ॥

अथ तन्द्रिकके लक्षण ।

प्रथम ताप होय आंखोंसे देखे नहीं निद्रामें लीन होय

मीठा बोले आंख मिची रहे अतीसार होय छर्दि होय श्वास होय तृपा होय जीभ स्याह होय अथवा कठोर होय अथवा काटे होय खाज होय इतने लक्षण तन्द्रिकके कहेहैं॥

तन्द्रिकको अंजन सन्निपातकलिकासे ।

पीपल मैनशिल महीन पीसके तेलसेती अंजन करै तो तन्द्रिक जाय ॥

तन्द्रिकको अष्टादशांग काथ वृन्दसे ।

चिरायता देवदारु सोंठि नागरमोथा धनियां कुटकी इन्द्रयव दशमूल गजपीपल यह औषध सममात्रा लेनी आठवां हिस्सा रहै तब पिलावै इससे तन्द्रिक सन्निपात जाय ॥

पुनःतन्द्रिकको काथ शार्ङ्गधरसे ।

साठीकी जड कनेर कटेली सोंठि काकडासिंगी चिरायता धमासा कुटकी पाढ गिलोय यह औषध बराबर लीजै काढा कर पीवै श्वास कास छर्दि शूल तन्द्रिक इतने रोग जायँ ॥

पुनःकाथ सन्निपातकलिकासे ।

हड़ पुष्करमूल कटेली सोंठि गिलोय भारंगी यह सब औषध बराबर लेनी इनका काढा कर पीवना इससे तन्द्रिक सन्निपात जाय पथ्य मोठकी दाल गर्म देना पवनसे बचना ।

पुनःतन्द्रिक को अंजन वृन्दसे ।

त्रिकुटा कुड़ाकी छाल बराबर लेना नागरमोथाके रसमें पीसे पहर एक पीछे गोली बांधे रती प्रमाणकी गोली एक गऊके पेशावमें घिसके अंजन करै तन्द्रिक दूर होय ॥

पुनः अंजन सन्निपातकलिकासे ।

कूट सिरसके बीज नागरमोथा पीपल वच मिर्च हरद दारुहल्दी यह सब औषध बराबर ले बछियाके पेशावसेती अंजन करना तन्द्रिक सन्निपात जाय ॥

पुनः अंजन वृन्दसे ।

त्रिकुटा सैधवनोन हींग वच कुटकी हड़ इन औषधोंके बराबर सिरसके बीज लेना गोमूत्रमें मर्दन करै पहर एक गोली बांधि छायामें सुखावना चना प्रमाण गोली बांधे गोमूत्रमें घिसकर अंजन करै तन्द्रिक मृगी अचैतन्यता भूत प्रेत ओ परी पराई मिटै ॥

पुनः अंजन ।

पीपल गऊके गोबरके पानीसेती अंजै तन्द्रिक जाय ॥ इति तन्द्रिकसन्निपातकी चिकित्सा ॥

अथ हारिद्रकसन्निपातके लक्षण ।

दाह होय नेत्रपीड़ा होय हड़फूटन होय स्याह जीभ होय इतने हारिद्रकके लक्षण कहे हैं ॥

हारिद्रकको काढा वृन्दसे ।

रक्त चन्दन धनियां नागरमोथा गिलोय कुटकी सों-
ठि मूर्वा नेत्रवाला पित्तपापड़ा बालछड़ साठीकी जड़
खस रास्ना पापाणभेद सफेद चन्दन मुलहठी यह सब
बराबर लीजै इनका काढ़ाकर पीवै तो हारिद्रक जाय ॥

पुनः गोली ।

कुटकी हड़ पीपल अतीस यह चारों बराबर लेके
कटाईके रसमें गोली बांधै बेर प्रमाण खायेसेती
हारिद्रक जाय ॥

अथ कंठकुब्जके लक्षण ।

माथो दुखै देहमें पीड़ा होय कांपै बहुत प्रलाप
होय मूर्च्छा होय नींद नही आवै पसेव बहुत आवै
कंठकुब्जके ये लक्षण कहे हैं ॥

अथ कंठकुब्जको काथ वृन्दसे ।

नागरमोथा पित्तपापड़ा त्रिफला देवदारु सोंठि खस
धमासा पीलूकी छाल नीबकी छाल निसोत चिरायता
पाठ खरेंटी पीपलामूल मुलहठी यह औषध बराबर
लीजै पीछे आठवें हिस्सेका पानी आय रहै तो पीवै
कंठकुब्ज सन्निपात जाय ॥

पुनः काथ सन्निपातकलिकासे ।

त्रिकुटा त्रिकुटी नागरमोथा गजपीपल हड़ हल्दी क-
चिरायता इन्द्रयव पुष्करमूल चित्रक भारंगी वहेडा

आमला यह सब औषध बराबर ले काढ़ा करि रोगीको प्रभात समय पिलावै इस काढ़ेसे कंठकुब्ज दूर होय ॥

पुनः काथ हारीतसे ।

काकड़ासिंगी कुड़ाकी छाल कचूर हड़ नागरमोथा पुष्करमूल पीपल कायफल बहेड़ा आंवला देवदारु सोंठि चव्य कुटकी हल्दी मिर्च कटाई अडूसा भारंगी यह सब औषध बराबर लैके काढ़ा करना प्रभात समय पीवै चौरासी वायुको दूर करै पथ्य मोंठकी दाल ॥

कंठकुब्जको नास वृन्दसे ।

कुटकी तोरईके बीज त्रिकुटा पानीसेती घिस ३ वार नास देनी अंग चैतन्य होय मूर्च्छा मिटै ॥

अथ कर्णकके लक्षण ।

बकै बहुत कानमें पीड़ा होय मोह बहुत होय श्वास होय शून्यदेही रहै कानमें गांठकी बाधा होय, ग्रीवाविषे पीडा होय ये कर्णक सन्निपातके लक्षण कहे हैं कानविषे गांठ होय तिसके ऊपर जोंक लगावै कानकी पीड़ा मिटै ॥

कर्णकका उपाय ।

गायका घी गरम करके कर्णक सन्निपातवालेको पिलावै तो कर्णक सन्निपात मिटै यह इलाज वृन्द ऋषीश्वरने बताया है ॥

कर्णकको लेप योगचिंतामणिके मतसे ।

दात्यूणी चीता तज गुड़ यह औषध आकके दूध-
में पीस लेप करै इस लेपसे कर्णक ग्रंथि जाय कर्णकी
गांठें तुरत मिटैं ॥

पुनः कर्णकको लेप वृन्दसे ।

हल्दी इन्द्रवारुणी सेंधानोन दारुहल्दी आकके दूध-
में चारों औषधोंको पीसकर कर्णग्रंथिके ऊपर लेप
कीजै कानकी गांठ जाय ॥

कर्णकको काथ ।

कायफल नागरमोथा यव पीपल कुटकी भारंगी
इन्द्रयव धनियां रेवासन सोंठि पुष्करमूल सफेद जीरा
पाढ़ कचूर दारुहल्दी हड़ देवदारु काकड़ासिंगी चिरा-
यता यह औषध वरावर ले इनका काढ़ा कीजै काढ़ेके
बीच हींग अदरकके रसका प्रतिवास दीजै तुरत प्यावै
कानकी गांठ अच्छी होय कानको पीड़ा कफ वातज्वर
माथा गलेकी शूल गांठको दूर करै ।

अथ कर्णकको रासनादिकाथ वृन्दसे ।

रासना पाढ़ कटेली धनियां पीपल वच पुष्करमूल
कुटकी भारंगीशतावर काकड़ासिंगी यह औषधवरावर
लेना इनका काढ़ा करना आठवां हिस्सा पानी आय रहै

तब रोगीको पिलावै गलेकी और माथेकी पीड़ा दूर होय जैसे भगवत्कथा पापको खोवै ॥

कर्णकका उपाय वृन्दसे ।

वासी पानी प्रभातके समय नाकसे पीवै तो इतने रोग जायँ कर्णकसन्निपात पीनस नाकमें वास आवै सो दूर होय आंख निर्मल हो ज्योति बहुत होय ॥

कर्णकमें मुख शुद्ध करनेको

उपाय वृन्दसे ।

पीपल सेंधानोन पीसि ७ वार दांतमें मर्दन करै तो मुखदुर्गंध जाय ॥

कर्णकमें पथ्यापथ्य ।

रातिको भोजन दिनको सोवना स्त्रीसंगति वैंगन पेठा लहसुन कन्द सब मांस सूखासाग कर्णकमें इतनी वस्तु नहीं खाय और इतनी वस्तु खाय अदर सोया कोहला तोरईइतनी चीजपथ्य हैं ॥ इति कर्णकसन्निपातचिकित्सा

अथ भग्ननेत्रके लक्षण ।

ज्वर होय प्रलाप होय अचेत होय भग्नदंष्ट्र होय भ्रम होय मोह होय देह कम्पै सोजा कंठपीड़ा गलपीड़ा आंख फटी रहै यह लक्षण भग्ननेत्र सन्निपातके हैं ॥

भग्ननेत्रका अवलेह वृन्दसे ।

सोनामक्खी चिरायता पीपल यह तीन औषध

सम मात्रा लेना टंक २ चूर्ण शहदमें मिलायकर चाटना भग्नदंष्ट्र सन्निपात जाय ॥

भग्ननेत्रको अंजन ।

पीपल मिर्च मैनशिल यह औषध महीन पीस पानीसेती अंजन करै भग्ननेत्रसे अचेत होय सो सचेत होय भूत प्रेत चुड़ैल बाधा जाय ॥

पुनःअंजन योगचिन्तामणिके मतसे ।

मिर्च पीपल बच महुआ सेंधा यह सब औषध पीस अंजन करै भग्ननेत्र सन्निपात दूर होय ॥

भग्ननेत्रको नास ।

बच मिर्च समुद्रफेन पीपल असगन्ध यह औषध बराबर पीस नास देना अचेतन पुरुष चैतन्य होय यह सिद्ध योग कहाहै ॥

भग्ननेत्रको काढा शार्ङ्गधरसे ।

त्रिफला नागरमोथा कुटकी कटाई नीबके पत्ते हल्दी दारुहल्दी पटोलपत्र यह सब औषध बराबर लेना इनके काढ़ेसे भग्ननेत्र दूर होय ॥ इति भग्ननेत्रकी चिकित्सा ॥

अथ रक्तष्ठीवीका लक्षण माधवनिदानसे ।

नाकसेती रुधिर चलै छर्दि होय तृपा होय पेटमें शूल होय अतीसार होय अरुचि होय प्रलाप होय हिचकी होय

जीभ काली होय मोह होय भ्रम होय श्वास होय रक्त-
ष्ठीवी के ये लक्षण कहें ॥

रक्तष्ठीवीको चूर्ण शार्ङ्गधरसे ।

नेत्रवाला सफेद चन्दन पद्माक खस प्रियंगु छोटीइ-
लायची दालचीनी धावेके फूल यह सब औषध बराबर
लेनी औषधोंसे सोलहगुनी मिथी लीजै इन औषधोंको
कूट छान चूर्ण करै टंक २ चूर्ण ताजा पानीसेती लीजै
रक्तष्ठीवी जाय ज्वर उतरै लोहू गिरता थँभै ॥

नास चरकसे ।

पापाणभेद गायके घीमें पीसकर प्रभातके समय
नास ले लोहू नाकसे और मुखसे थँभै ॥

रक्तष्ठीवीका अवलेह ।

बहेड़ाका रस शहदमें मिलाकर पिलावै मुख नाक
से लोहू थँभै यह सिद्धयोगमें कहाहै ॥

चूर्ण वैद्यवल्लभसे ।

इन्द्रवारुणीकी जड १२ टंक पोस्तकी जड १२ टंक
यह औषध दोनों कूट छान चूर्ण करना गायके दूधसे
टंक २ चूर्ण प्रभातको देना मुखका लोहू थँभै ॥

पुनः चूर्ण वैद्यवल्लभसे ।

फिटकरी फुलाई टंक ४ विलायती अनारकी छाल टं-
क ४ यह दोनों महीन पीसके चूर्ण करना माशा २ चूर्ण

ताजा पानीसेती खाय तो असाध्य रक्तष्ठीवी जाय छर्दि थँभै रुधिर अवश्य थँभै ॥

पुनः नास वैद्यमनोरमासे ।

इस चूर्णको चावळके पानीसे घिसकर प्रभात नास दे तौ लोहूका प्रवाह थँभै जैसे तलावका जल पालासे थँभै तैसे इस चूर्णसे मुख नाकका लोहू थँभजाय ॥

लेप मनोरमासे ।

बीजाबोल एलुवा गुजराती नींबूके रससेती पीस मुख नाकपै लेप करै लोहू थँभै ॥

वृद्धमंजिष्ठादि योग चिन्तामणिसे ।

मजीठ नींबकी छाल चन्दन नागरमोथा अडूसा त्रायमाण हल्दी दारुहल्दी धमासा पाढ़ चिरायता गिलोय वायविडंग त्रिफला निसोत कुटकी इन्द्रवारुणी वच पित्तपापड़ा खैरसार बकायन कुड़ाकी छाल निगन्ध वावची पटोलपत्र अतीस यह सब औपध बराबर ले इनका काढ़ा करै आठवां हिस्सा पानी रहै तब पीवै इससे रक्तष्ठीवीका नाश होय खाज मण्डल व्यौची गलित कोढ़ गजचर्म हाथ पैर गलगये होयँ अच्छे हों लोहूविकार सब जाय ॥

रक्तष्ठीवीको काथ सन्निपातकलिकासे ।

पित्तपापड़ा कुटकी धमासा अडूसा बहुफली जवासा चिरायता यहसब औपध बराबर, लेनी इनकाकादाक

मिथ्री टंक १ बुरकाइये यह काढ़ा प्रभातको दीजै रक्त-
 ष्ठीवी रुधिरविकार रहै नहीं यह इलाज अपने पुत्रके
 वास्ते किया ॥ इति रक्तष्ठीवी चिकित्सा ॥

अथ प्रलापसन्निपातके लक्षण ।

शरीर कांपै प्रलाप होय अन्दर बाहर दाह होय गलेमें
 पीड़ा बहुत होय बहकी बातें करै जैसे भूतलगेके लक्ष-
 ण होय तैसे प्रलापक सन्निपातके लक्षण कहेहैं ॥

प्रलापको जायफलादिचर्ण शाङ्गधरसे ।

जायफल जावित्री लवंग तज छोटी इलायची वाय-
 विङ्ग चोवचीनी अजमोद चिरायता नागकेसर वहेड़े-
 की छाल त्रिकुटा अजवायन खैरसार पीपलामूल अम्रक
 पोस्तसार चौर यह सब औषध वरावर ले कूट छान
 टंक २ प्रभात समय टंक १ संध्याको खाय इससे
 प्रलापक सन्निपात अरुचि संताप जाय ॥

सिंहशार्दूलगोली चरकस ।

हींग टंक १ वच टंक १ खुरासानी टंक १ वायविडम्ब
 टंक ३ सेंधा टंक ३ जीरा सफेद टंक ५ सोंठि टंक ५ मिर्च
 टंक ६ पीपल टंक ७ कूट टंक ८ हड़ टंक १० भारंगी
 टंक ११ चिरायता टंक १२ अजमोद टंक १२ इन औष-
 धोंसे गुड दूनाले सुपारीप्रमाण गोली बांधे १ प्रभात खाय
 १ संध्याको खाय चौरासी वायु प्रलापसन्निपात अर्थ
 भगंदर शाकिनीदोष भूत प्रेत राक्षस वेताल पिशाच मू-

च्छा अजीर्ण अहार फोड़ा फुन्सी मंत्र यंत्र टोना टामण
मूठ पेटपीड़ा अफरा जंगमविष विच्छूका विष हडकिया
कुत्ताका विष अफीम आक विष इत्यादि रोग दूर होयें
जैसे सिंहसे हिरना तैसे इस गोलीसे सब रोग दूर होयें
यह औषध धन्वन्तरिने अपने पुत्रको बताई ॥

पुनः गोली रसचिन्तामणि मतसे ।

पारा आँवलासार गन्धक हरताल त्रिकुटा कुटकी
सुहागा त्रिफला यह सब औषध बराबर लीजै भंगराके
रसमें गोली करै चनाप्रमाण १ प्रभात १ संध्याको
खाय चौरासी वायु जाय ॥

अंजन सन्निपातकलिकासे ।

त्रिकुटा त्रिफला मालकांगनी संधानोन सरसों
कुटकी बचये औषध बराबर लेकर बकरीके पेशाब-
सेती गोली बांधिये चनाप्रमाण छायामें सुखाय अंजन
करै प्रलाप उन्माद चित्तभ्रम बकवाद गहैल डाकिनी
शाकिनी दोष तेरह सन्निपात रतौधी बेलज्वर तिजारी
मृगीआदि रोग जाय ॥

काथ सन्निपातकलिकासे ।

तगर तमालपत्र इन्द्रवारुणी असगन्ध निसोत
अमलतास ब्राह्मी शंखाहुलीकी जड हड नागरमोथा
पित्तपापडा मूर्वा दाख यह सब बराबर ले इनके
इसे प्रलाप जाय ॥

पुनः काथ शार्ङ्गधरसे ।

नेत्रवाला सोंठि नागरमोथा शालिपर्णी पृष्टिपर्णी
कटाई दोनों गोखुरू वेलगिरी अरणी स्योनाक कुंभेर
पाढल अडूसा पित्तपापड़ा चंदन मलयागिरि यह सब
औपधका काड़ा करै आठवां हिस्सा रहे तव पीवै प्र-
लाप अंग पीडा वायुपीडा जाय ॥

चूर्ण सन्निपातकलिकासे ।

त्रिकुटा कचूर चिरायता यह औपधकूट छान टंकरे
गरम पानीसेती दीजै प्रलाप जाय महादेवका वचन है ॥
इति प्रलापचिकित्सा ॥

अथ जिह्वकसन्निपातके लक्षण ।

गलेमें तालुवेमें जीभ जायलगे कंठ कठोर हो रात
दिन नींद आवै नहीं श्वासकास ज्वर होय बोला न
जाय कानोंसे सुने नहीं आंखोंसे दीखे नहीं ये जिह्वकके
लक्षण कहे ।

जिह्वकको चूर्ण चृन्दसे ।

कुटकी पित्तपापड़ा त्रिकुटा गिलोय यह सममात्रा
लेके चूर्ण करै घृतसेती टंकरेनित्य खाय जिह्वक दूर होय

पुनः चूर्ण चृन्दसे ।

चमेलीके पत्ते वेलगिरी जीरा यह दवाई लीजै टंकरे
गरम पानीसे जिह्वक जाय ॥

नः लेप वृन्दसे ।

संधानोन कूट यह दोनों बराबर लीज विजौरेके रसमें मर्दन करे अथवा अदरकके रसमें जीभपै लेप करै जीभ नरम होय जिह्वक सन्निपात दूर होय जीभके काटे मिटै ॥

पुनः लेप ।

पीपल मिर्च चिरायता संधा यह सब औषध समात्रा लीजै अदरकके रसमें जीभपर लेप करै जीभ नरम होय जिह्वक मिटै ॥

पुनः लेप रत्नाकरसे ।

त्रिकुटा तुलसीके बीज अकरकरा इंद्रयव ये औषध बराबर लेके कूट छान कर विजौरेके रससेती जीभपर लेप करै जीभ कोमल होय जिह्वक सन्निपात जाय ॥

गोली वृन्दसे ।

त्रिकुटा केसर लवंग खैरसार इन औषधोंको पीस कपड़छान कर गोली बेरप्रमाण बांधै मुखमें राखै जिह्वक सन्निपात जाय ॥

कुरला वृन्दसे ।

सोंठि चाव चीता चमेलीके पत्ते इलायची नींबके पत्ते आंषलासार गंधक विजयसार तिलोंका तेल नेत्रवाला यह सब औषध बराबर लेके काढ़ा करै आठवां दिस्सा उतारकर ठंढा होय तब कुरला करै दिन ७ प्रभात और संध्याको जीभ कोमल हो जिह्वक दूर होय ॥

पुष्करमूलादिकाश्च रसरत्नाकरसे ।

पुष्करमूल काकड़ासिंगी कुटकी रासना त्रिकुटा चिरायता नागरमोथा ब्राह्मी कटाई देवदारु हड़ शतावारि भारंगी गिलोय अडूसा भांगरा यह सब सममात्रा लेकर इनका काथ करै पीछे पीवै श्वास कास दूर होय नोंद आवै जीभ कोमल होय कटि जीभके मिटै ॥

पुनः काथ सन्निपातकलिकासे ।

देवदारु कुड़ाकी छाल नींवके पत्ते हड़ वहेड़ा पटोलपत्र सोंठि पुष्करमूल नागरमोथा हल्दी काकड़ासिंभी गिलोय यह सब सममात्रा लैके काढा कीजै प्रभात पीजै इस काढेसे जिह्वक सन्निपात दूर होय अंगपीडा जाय यह उपाय अश्विनीकुमारने बताया है। इति जिह्वक चिकित्सा ॥

अथ अभिन्याससन्निपातके लक्षण ।

दाह बहुत होय मोह बहुत हो शरीर अकड़ जाय श्वास होय चेष्टा न करे जिसकी दृष्टि रूपको देखै नहीं गंधको रसको जानै नहीं शिर धुनाकरे आहारको जानै नहीं अच्छे मुखसे बोलै नहीं संदिग्ध वचन कहे यह लक्षण अभिन्यासके कहेहैं ॥

अभिन्यासको अंजन ।

सिरसके बीज मिर्च इन दोनोंको बकरेके मूत्रमें पीसकर अंजन करे तौ शरीरकी संज्ञा होय ॥

काथ सन्निपातकलिकास ।

साठीकी जड़ नागरमोथा दोनों कटाई यह चार औषध बराबर लीजै इनका काढ़ा करै काढ़ेमें गोमूत्र टंक ३ मिलाइके पीछे पिलावै अभिन्यास दूर होय ॥ इति अभिन्यास चिकित्सा ॥

अथ त्रिदोषके लक्षण माधवनिदानसे ।

तन्द्रा होय कफ होय कंठशोष होय निद्रा होय जीभ कठोर होय अचैतन्य होय अरुचि होय पिंडी पसवाड़ेमें शूल होय माथा दूखै सब शरीर शून्य होय पसेव बहुत होय शरीरमें सोजा होय घड़ीमें दाह घड़ीमें सरदी होय आँखोंमें पानी आवै कभी आँख मूंदे कभी खोले यह असाध्य है । इसपर इलाज थोड़ा चलै वैद्य समझके हाथ गरे ॥

त्रिदोषकी चिकित्सा सन्निपातकलिकासे ।

त्रिदोषवालेको लंघन करावै और गरमपानी पिलावे कपड़ेका परदा रखिये पवन लगने दे नहीं ॥

त्रिदोषको चूर्ण ।

पीपल चिरायता पीस चूर्ण करै अद्रकके रसमें दीजै इससे त्रिदोष मिटै देही चैतन्य होय ॥

अंजन वृन्दसे ।

जियापोताकी मीगी जिसकी बराबर मिर्च तुलसीके पत्तेके रसमें मर्दन करै पीछे अंजन करै त्रिदोष-सन्निपात जाय ॥

पुनः उपाय वृन्दसे ।

लौंग टंक ३ हाहूवेर टंक १२ गरमपानीसेती चूर्ण करःपिलावे त्रिदोष दूर होय ॥

त्रिदोषकी गोली योगचिन्तामणिसे ।

पारा पैसा १ भर गन्धक आमलासार पैसा २ भर सोंठि पैसा १ मिर्च पैसा १ पीपल पैसा १ विडनोन पैसा १ कचनोन पैसा १ मोहरा पैसा १ भर लवंग पैसा १ भर यह औषध इकट्ठी करे पारा गंधककी कजली करे अद्रकके रसकी ७ पुट दे नागरपानके रसकी ७ पुट दे गोली १ छोटे वेरप्रमाण बांधे त्रिदोषवालेको गोली १ तुलसीके पत्तेके रससेती खिलावे तो त्रिदोष सन्निपात जाय ॥

फंकी ।

लौंग पीपल चिरायता जीरा सफेद यह चार औषध पीस फंकी गरमजलसे ले तो त्रिदोष सन्निपात जाय ॥

त्रिदोषको काथ सन्निपातकलिकासे ।

शालिपर्णी पृष्टिपर्णी गोखुरूअरणी बेलगिरी कटेली दोनों स्योनाक पाटल यह औषध बराबर लीजै इनका काढ़ाकरे आठवां हिस्सा पानी आचरहे तब ऊपरसे टंक १ पीपल बुरकाय पिलावे त्रिदोषज्वर श्वास कास चित्त-भ्रम पसेव मस्तकशूल अरुचि गलग्रह इतने रोग जायँ ॥

पुनः काथ रसचिंतामणिके मतसे ।

सोंठि कटाई गिलोय यह तीनों औषध बराबर लीजै इनका काढ़ा करै ऊपर पीपल बुरकायके पिलावै तो त्रिदोषज्वर जाय श्वास कास अरुचि शूल इतने रोग जाय यह इलाज वृन्दऋषीश्वरने बताया रामविनोदने प्रकट किया ॥ इति त्रिदोषकी चिकित्सा ॥

अथ ज्वरजानहारके लक्षण वैद्यमनोत्सवसे ।

शिर हलका होय पसीना होय शरीरमें खाजा होय मुखमें फुन्सी होयँ छीकें आवैं भूख लगे ये लक्षण होयँ तो ज्वर गया जानै ॥ और ज्वरवाले पुरुषको इतनी वस्तु खानेदे नहीं तेल घी दही खाटी वस्तु मदिरा मांस बैंगन मैदाकी वस्तु सिंघाड़े उड़द दूध सिखरन चना धानकी खील घेर जंभीरी चूरमा और खेद करै नहीं रास्ता चलै नहीं स्त्रीकी संगति करै नहीं क्रोध करै नहीं जबतक शरीरमें बल होय नहीं तबतक एती वस्तु न करै ॥

अथ धनुषवायुके लक्षण ।

जिस पुरुषके तप होय मुख खवेकी तरफ फिर जाय अंग २ में पीड़ा होय सन्धि सन्धिमें पीड़ा होय तो यह लक्षण धनुषवायुके हैं ।

अथ धनुषवायुको मर्दन रसरत्नाकरसे ।

आकका दूध अफीम मीठातेल यह तीनों इफट्टा कर शरीरमें मर्दन करे ९ बार धनुषवायु जातारहै ॥

अथ धनुषवात मृगीवात चौरासीवातकी
गोली क्षीरपाणिसे ।

लहसुन १ सेर दूध सेर २५ गायका तथा भैंसका
लहसुनको महीन पीस दूधमें मिलाय पीछे कड़ाहीमें
डाल चूल्हेपर चढ़ाइये पीछे गुड़की पात करै पातमें
घृत पाव सेर दीजै ऊपरसे त्रिकुटा ३ छटाक पातमें
बुरकावै खोवा करै गोली टंक ३ की बांधे एक प्रभात
एक शामको खाइये धनुषवात मृगीवात चौरासी वायु
दूर होय अंग पीडा जाय देह पुष्ट होय बल बहुत होय ॥
अथ चौरासीवातको योगराजगूगुल वृन्दसे ।

पीपल पीपलामूल चंव्याचित्रक सोंठि इन्द्रियव हींग
भारंगी संभालूके बीज अतीस कुटकी मूर्वा सरसों वच
जीरा दोनों गजपीपल टंक टंक भर लीजै सार टंक २०
लेना इम औषधोंसे दुगुना गूगुल गरै गोमूत्रमें पकायके
पीछे और औषध कूट छान मिलाय दीजै टंक ४ प्रमाण
गोली बांधे प्रभातके पहर गोली १ दीजै योगराजगूगुलके
खायेसे धनुषवायु जाय मृगी जाय चौरासी वायु जाय ॥

अथ धनुषवायु मृगीवायु को काथ योग-
चिंतामणिमतसे ।

लहसुन पीपल पीपलामूल कुचला सोंठि भारंगी
पुष्करमूल चिरायता कल्लोजी यह सब सममात्रा

लीजै अष्टावशेष काढ़ा करै त्रिकुटा पीस प्रतिवास दीजै
पिलानेसे तेरह सन्निपात मिटै वायु चौरासी जाय यह
योग प्रसिद्ध है ॥

अथ मधूराके लक्षण योगचिन्तामणि मतसे ।

ताप होय दाह होय भ्रम होय चित्त ठिकाने नहीं रहै
वचन विकल होय अतीसार तृषा होय नींद आवै
नहीं लाल मुख होय मुखसे लोहू गिरै दांत काले होय
जीभ काली होय कंठ दुखै पित्तका प्रकोप होय यह
लक्षण मधूराके हैं ॥

मधूराको घासा वृन्दसे ।

तुलसीके पत्र नारियलकी डाढ़ी खस कछुआकी
खोपरी इलायची छोटी यह सब औषध बराबर कूट
छान गोबरके रसमें विस पिलावै मधूरा जाय ॥

पुनः मधूराको घासा ।

जीरा सुई माखी गोबरके रससेती पीवै मधूरा
तत्काल जाय ॥

तथा ।

सफेद चन्दन जीरा सांभरका सींग पानीसेती
विसके घूटी दीजै मधूरा जाय ॥

पुनः मधूराको घासा ।

चन्दन सफेद नागरमोथा पित्तपापड़ा नेत्रवाला

सोंठि चिरायता खस यह औपध बरावर लीजै काढ़ा
करि पिलावे मधूरा पित्तज्वर जाय ॥

मधूराको काढा योगचिन्तामणिके मतसे ।

कुंभेर छोटी दाख सफेदचंदन नेत्रवाला सफेदजीरा
स्याहजीरा नागरमोथा पित्तपापड़ा मुलेठी यह सब
औपध बरावर लेनी इनका काढ़ा आठवें हिस्सेका देना
शहद गरेके मधूरा दाह मूच्छा वमनइत्यादि रोग जाय ॥

अथ सर्वज्वरको वडो सुदर्शनचूर्ण मनोरमासे ।

त्रिकुटा त्रिफला देवदारु भारंगी हल्दी दारुहल्दी
पुष्करमूल हाऊवेर कटाई छोटी बड़ी दोनों साठीकी ज-
ड़ पीपलामूल अजमोद गिलोय वच धनियां पद्माख
त्रायमाण तमालपत्र मूर्वा तज जायफल नागरमोथा
शालिपर्णी पृष्ठिपर्णी इन्द्रयव कुडाकी छाल मुलेठी नींब
पटोलपत्र वंशलोचन वायविडंग अतीस तगर नेत्रवा-
ला खस मोरशिखा कमलगट्टा धमासा जवासा जीबक
ऋषभक मेदा महामेदा ऋद्धि वृद्धि काकोली क्षीरका-
कोली लवंग गिलोयसत अभ्रक यह सब सममात्रा
लेना इन सबसे आधा चिरायता लेना सब कूट छान
चूर्ण करना ३माशा ज्वरवाले पुरुषको देना ठंडे पानी-
सेती सब ज्वर दाह तृषा भ्रम श्वास कास विषमज्वर
अजीर्णज्वर हृदयके रोग कमलवायु पांडुरोग हलदरोग

वमन कमरझूल सर्वव्याधि मिटै जैसे सुदर्शनसे दैत्यों-
का नाश होय तैसे सुदर्शनचूर्णसे रोगोंका नाश होय ॥
इति श्रीपद्मरंगशिष्य रामचन्द्रविरचित रामविनोदका वायु पित्त
कफ ज्वर निदान उपाय वायु पित्त कफ लक्षण तेरह सन्निपात-
स्थिति साध्य लक्षण तेरह सन्निपातकी औषध उपाय काथ-
गोली चूर्ण अंजन अवलेह उद्भूलन लेप प्रमुखादि सर्व प्रदो-
पका उपाय धनुषवायुका अपचार चौरासी वायुको काथ
मधूरा उपाय वृद्धसुदर्शन चूर्ण क० नाम तृ० अ० समाप्त ।

अथ चतुर्थ अधिकार अतीसार निदान ।

अजीर्णसे रसविकारसे रूखेसे मदपानसे शीतल
वस्तुसे चिकनी वस्तुसे मिथ्या हारसे शोकसे बहुत
खेदसे अतीसार होय है ॥

अथ वातातीसारके लक्षण ।

उदरबंध अफरा लोहू दस्तकी राह जाय नींद न आवै
आम जाय कुरकुरीसे ये वायुअतीसारके लक्षण हैं ॥

वातातीसारको चूर्ण भेड़ग्रंथसे ।

त्रिफला नामरमोथा अतीस कुड़ाकी छाल पाढ़
संया हींग यह औषध वरावर लेनी कूट गरम पानी-
सेती फंकी ले इस चूर्णसे वातातीसार आमविकार
पेटकी पीड़ा जाय ॥

पुनः चूर्ण विन्दुसारग्रंथसे ।

काला नोन हरे हींग अतीस इन्द्रियव सोडि

यह सब औषध सममात्रा ले कूट छान चूर्ण करना इस चूर्णसे आमशूल अतीसार संग्रहणी जाय ॥

पुनःचूर्ण ।

कुटकी चीता पीपलामूल खुरासानी इन्द्रियव बच पाह सोंठि हरे यह सब औषध सममात्रा ले कूट चूर्ण करे कांजीके पानीके साथ लीजै टंक २ आमशूल अतीसार अफरा दूर होय ॥

पुनःचूर्ण हारीतसे ।

अरंडकी जड गोखरू वेलगिरी मुलेठी हरे इन्द्रियव ये सब औषध बराबर ले कूट छान गरम जलसेती पिये तो आमशूल अफरा जाय ॥

तथा काढा हारीतसे ।

नागरमोथा पित्तपापडा नेत्रवाला बच अतीस सोंठि यह सब औषध सममात्रा ले काढा कर प्रभात पीवै तृपा ज्वर अतीसार जाय ॥

पुनः चूर्ण वृन्दसे ।

- पीपलामूल पीपल यव गन्धीपल वेलगिरी सोंठि राल शिलाजीत चित्रक यह सब औषध ले कूट छा- मकर चूर्ण करे पीछे टंक २ गरमपानीसे खाय तो आमतीसार वातातीसार जाय ॥

अथ पित्तातीसारके लक्षण ।

पीला नीला रुधिर हरयालिया होय तृपा मूर्च्छा

दाह होय पेटमें गरमी होय अन्न पचै नहीं ये लक्षण पित्तातीसारके कहे हैं ।

पित्तातीसारकी गोली वृन्दसे ।

इंद्रयव बेलगिरी धावेके फूल लोध मोचरस नागरमोथा यह सब औषध सममात्रा लीजै कूटकर गुड़में मिलाय गोली बांधै १ गोली प्रभातको १ सन्ध्याको खाय नदीके प्रवाह सरीखा अतीसार जाय ॥

तथा लघुगंगाधर चूर्ण वृन्दसे ।

जामुनकी गुठली कचूर अनारदाना बेलगिरी सिंघाडेके पसे नेत्रवाला नागरमोथा सोंठि यह सब औषध सममात्रा ले चूर्ण करै टंक २ शीतल जलसे पीवै अतीसार गरमी सब दूर होय ॥

तथा वृद्धगंगाधर चूर्ण वैद्यमनोत्सवसे ।

कुटकी नागरमोथा इंद्रयव लोध सोंठि पाठ धावेके फूल मुलेठी जामुनकी गुठली त्रिफला आमकी गुठली बेलगिरी अतीस यह सब औषध बराबर लीजै कूट छान चूर्ण करै टंक २ चावलके पानीके साथ पीवै रुधिरप्रवाह मिटै सबप्रकारका अतीसार जाय ॥

अन्य उपचार चरकसे ।

इंद्रयव बेलगिरी अतीस धावेके फूल रसोत सोंठि

मुलेठी यह सब औषध पीस कूट छानकर चूर्ण करै
साठीचावलके पानीसेती लीजै पेटके रोग जायँ सब
प्रकारका अतीसार जाय ॥

तथा फंकी चरकसे ।

सोंचरनोन विड़नोन वेलगिरी मंजीठ धावेके फूल
कटाई अनारदाना यह सब औषध कूट चूर्ण करिये
चावलके पानीसेती फंकी लीजै अतीसार दूर होय ॥

तथा काथ वृन्दसे ।

इंद्रयव नागरमोथा अतीस सोंठि कायफल ये सब
औषध सममात्रा ले काढा पीवै तो पित्तातीसार जाय ॥

पुनः काथ वाग्भट्टसे ।

तिन्तडीक अनारदाना वेलगिरी मजीठ यह सब
सममात्रा ले चूर्ण करै २ टंक चूर्ण फाँके चावलके पानी-
सेती तो पित्तातीसार दूर होय यह वृन्दऋषीश्वरने
बताया ॥ इति पित्तातीसार चिकित्सा ॥

अथ कफातीसारकी फंकी वृन्दसारसे ।

काला नोन सेंधानोन हींग हरेँ वच अतीस यह
सब सममात्रा ले चूर्ण करै २ टंक चूर्ण गर्मपानीसे लेइ
तो कफातीसार जाय ॥

पुनः फंकी क्षीरपाणिशास्त्रसे ।

त्रिकुटा पादा वच कुटकी कूट यह सममात्रा औषध

कूटि कपड़छान करै गरम पानीसे २ टंक लेइ कफा-
तीसार जाय ॥

तथा काथ क्षीरपाणिशास्त्रसे ।

इन्द्रयव बेलगिरी सोठ अतीस इन औषधोको
धावेके फूलसे दुगुना गुड़ इनका काढ़ा करै इस काढ़ेसे
कफातीसार जाय ॥ इति कफातीसारचिकित्सा ॥

अथ वातपित्तातीसारके लक्षण ।

लोहूका फेन पीला होय उदरमें दुर्गंधि होय इन
दोनो लक्षणोको वातपित्तातीसार कहे ॥

वातपित्तातीसारको काथ वृन्दसे ।

नागरमोथा अतीस कायफल हरै कुड़ाकी छाल
इन्द्रयव अनारकी छाल ये सब औषध बराबर लीजै
इनका काढ़ा करै चावलके पानीसे पीवै तौ वातपित्ता-
तीसार जाय ॥ इति चिकित्सा ॥

अथ पित्तश्लेष्मातीसारके लक्षण वृन्दसे ।

आम सफेद होय नीली होय लाल होय पेट भारी
होय इन लक्षणोंसे कफ वृत्त अतीसारके लक्षण कहे ॥

पित्तश्लेष्मातीसारकी फंकी वृन्दसे ।

सोठि इन्द्रयव नागरमोथा अतीस दारुहल्दी यह सब
औषध सममात्रा लीजै काढामाहिं शहद गोरि पीछे
पिलाने तौ पित्तश्लेष्मातीसार दूरहोय ॥ इति पित्त-

वातश्लेष्मातीसारको काथ वृन्दसे ।

बैलगिरी इन्द्रयव पाड़ा हींग हेंर यह सममात्रा ले इनका काड़ा करि पीवै वातश्लेष्मातीसार दूरि होय ॥ इति वातश्लेष्मातीसार चिकित्सा ॥

त्रिदोषातीसारको चूर्ण योगचिन्तामणिसे ।

बैलगिरी अनारदाना धावेकेफूल पीपल अजमोद इन सबके सम मिश्री यह चूर्ण गरमपानीसेती लीजै ३ टंक त्रिदोषातीसार दूरि होय ॥ इति त्रिदोषाधिकार चिकित्सा ।

अथ आमातीसारके लक्षण ।

कमर दूखे पेट भारी होय यहलक्षण आमातीसारके हैं ॥

आमातीसारकी फंकी वृन्दसे ।

नेत्रबाला नागरमोथा धनियां सांठि बैलगिरी अतीस चावलके माड़सेती यह चूर्ण लीजै शीतल जलसे फंकी लीजै आमातीसार जाय ॥

आमनिवाहीकी फंकी सिद्धसारसे ।

पाड़ा अजमोद सांठि मजीठ इन्द्रयव धनियां यह सब औषध वरावर लीजै इनका चूर्ण करे शीतल जलसेती फंकी फांके आमातीसार जाय ॥

आमनिवाहीको अवलेह वृन्दसे ।

त्रिकुटा पीसकर शहदमें मिलाकर चाटै आमातीसार दूर होय ॥

आमनिवाहीको उपाय वृन्दसे ।

बी मीठा तेल शहद मिश्री सोवेके बीज सोंठि ये सब औषध बराबर लीजै सब मिलाय चाटै आमनिवाही दूरि होय ॥

सर्वातीसार व आमको काथ वृन्दसे ।

सोंठि मोथा अतीस गिलोय कुटकी चिरायता ये सब औषध बराबर ले काढ़ा करै प्रभात पीवै आम सब प्रकारका जाय ॥

ज्वरातीसारको नागरादि काथ

वैद्यमनोत्सवसे ।

सोंठि अतीस मोथा चिरायता गिलोय कुड़ाकी छाल ये सब औषध सममात्रा ले काढ़ा कर पीवै तौ ज्वरातीसार जाय ॥

आमातीसार व ज्वरातीसारको

काथ योगसतसे ।

कुड़ाकी छाल अतीस बेलगिरी मोथा ये औषध सममात्रा ले काढ़ाकर रोगीको पिलावे आमवात लोहू बहुत दिनोंका पड़ताहोय तौ थंभजाय सर्वातीसारजाय अथ विड्वन्धको अहिफेनादिगोला चरकसे ।

अफीम२टंक लवंग १टंक जायफल जावित्री मोचरस मिंगरफ बड़की कोंपल केसर यह सब औषध १पैसेभर

लैके पोस्तके पानीसे चना प्रमाण गोली बांधै मिश्री चावलके पानीसेती १ गोली लीजै सब अतीसार जाय ॥

अथ संग्रहणी रोगकी उत्पत्ति माधवनिदानसे।

कड़वेसेती तीक्ष्ण सेकमें लेनेसे सूखेसे शीतलसे बहुत दिनोंके अतीसारके होनेसे संग्रहणी पैदा होय ॥

अथ संग्रहणीरोगके लक्षण वृन्दसे ।

उरद भारी रहे कंठ सुश्क होय भूख तृषा एक घड़ी सही न जाय छाती दूखै हृदय भारी रहे ऊपरसे सब वस्तुका मन चले खाय बहुत ये लक्षण संग्रहणीके हैं ॥

संग्रहणीको चूर्ण वृन्दसे ।

धनिया मोथा नेत्रवाला अतीस सांठि खस यह औषध बराबर लीजै इनका काढ़ा कीजै अथवा चूर्ण करे इस चूर्णसेती नाज पचिजाय संग्रहणी जाय ॥

संग्रहणीपर चित्रकादि गोली ।

चित्रक पीपलामूल सज्जीखार जवाखार सांठि मिर्च पीपल संधानोन हींग चाव अजमोद वच यह औषध सममात्रा लीजै दाड़िमके रससेती गोली १ टंक प्रमाण बांधे संध्या प्रभात १ गोली खाय ॥

संग्रहणीको नागरादिचूर्ण वृन्दसे ।

सांठि नागरमोथा अतीस कुड़ाकी छाल कुटकी पाढा बेलगिरी धावेके फूल रसोत यह सब औषध

बराबर लेना कूट छान चूर्ण करना चावलके पानीसेती
२ टंक ले संग्रहणी पेटके रोग सब दूरि होयँ ॥

संग्रहणीकी फंकी वृन्दसे ।

त्रिकुटा नागरमोथा चिरायता इन्दयव कुटकी यह
सब औषध बराबर ले कूट छान चूर्ण करना गुड़के
शर्वतसेती यह चूर्ण २ टंक लेना संग्रहणी गोला व पेटके
सब रोग जायँ ॥

अथ संग्रहणीको काथ योगसतसे ।

नागरमोथा सोंठि अतीस गिलोय ये चार औषध
बराबर लीजै इनका काढा करि पिलावै आमबन्ध
संग्रहणी सब विकार अतीसारके मिटै ॥

संग्रहणीको मरिचादिघृत वृन्दसे ।

मिर्च पीपल पीपलामूल गजपीपल सोंचर हींग
वायविंडग अजवाथन समुद्रफेन जवाखार चाब कचूर
वच भिलावा विड़लोन चीता दशमूल ८ टंक औषध
कूटकर पानीमें भिजोयदीजै चार पहरताई पीछे औष-
धोंका रस काढि लीजै पीछे घीमें मिलाय पकावै जब
परिपक्व होय तब उतारिले चिकने वासनमें रखना
अच्छा मुहूर्त्त देख ७ टंक नित्य खाय संग्रहणी श्वास
कास जायँ ॥

संग्रहणीको सोंठिघृत वृन्दसे ।

सोंठि ८ टंक दशमूल ३ टंक पानीमें भिजोवै पहर

चार पीछे काढ़ले घृत डेढ़पावमिलावै मंद अग्निसे पकावे पीछे उबारिले उस घीको खाय तो संग्रहणी शूल अफरा पेटके सब रोग जायँ वृन्दऋषिने यह कहा है ॥

संग्रहणीको कल्याणगुड़ श्रेष्ठ ।

आवँलेका रस डेढ़सेर लीजै गुड़ पुरानो दोसेर लीजै आवँलेके जलमाहिं गेरदीजै तेल १२पैसा भर गेरदे पीछे मंद अग्नि देके पकायदे चासनी करि नीचे लिखी औषध मिलाय नीचे उतारिलीजै । गंधक जीरा सफेद चित्रक त्रिकुटा गजपीपरी हाहूवेर अजवाइन त्रिफला सैधानोन बायबिडंग धनियाँ चाव ये औषध २ टंक लेना पीस छानकर गुड़के रसमें मिलाइये गाढ़ा होय तव सुपारी प्रमाण नित्य खाइये द्रष्ट संग्रहणी उदरके सब रोग जायँ, अरुचि कंठशोष अर्श स्वरभंग भगन्दर शूल गोला इस कल्याण गुड़से इतने रोग जायँ ॥ इति संग्रहणीचिकित्सा ॥

अथ अर्शरोगकी उत्पत्ति ।

मीठेसे शीतलवस्तुसे चिकनीवस्तुसे खारीसे तीक्ष्ण वस्तुसे शोकसे व्यायामसे वायुसे चावलसे गरमवस्तुसे कफविकारसे क्रोधसे दिनके सोवनेसे इतनी वस्तुसे अर्श उपजे अर्श दो प्रकारका एक खूनी और दूसरा वादी ॥

वादीका लक्षण ।

हाथपैरगुदा मुख वृषण इतनी जगह शूल द्वीय पस-

लीमें शूल हो खाजु पीड़ा बहुत होय गुदा भारी बहुत होय अशरोग असाध्य है ॥

खूनीके लक्षण ।

तृपा अरुचि गुदामें शूल रुधिर चलै देह दुर्बल होय अतीसार होय खाजु बहुत होय गुदाके बीच मस्सा होय ये लक्षण खूनीके हैं ॥

- बादीववासीरका चूर्ण क्षीरपाणिसे ।

सोंठि त्रिकुटा चित्रक पीपरि पीपलामूल धनियां पाढ़ा गोखुरू बेलगिरी गजपीपरि अजवायन ये सब औषध ४ पल लीजै चांगेरीके रसमें काढा करै अंश हृदयरोग पांडुरोग एते जाय ॥

अशरोगको काकापनमोदक चूर्ण क्षीरपाणिसे ।

त्रिफला ५पैसा भर चाव चित्रक तालीशपत्र नागकेशर इलायची छोटी १टंक खस १टंक इनको कूट छान चूर्ण करै गुड पैसा २५ भर लीजै ये औषध पीसि गुडमें मिलायदीजै पीछे गोली १ पैसाभरकी वांधै प्रभातके पहर गोली १ खाय पट्टप्रकारका अंश जाय अरुचि पांडुरोग विपमज्वर हियारोग कृमिरोग गलेकी पीडा जाय मूत्रकृच्छ्र जाय भगन्दरादिरोग जाय ॥

अर्शरोगपर सूरणको मोदक वृन्दसे ।

जिमीकन्द चूर्ण १६ पैसाभर चित्रक ८ पैसाभर
मिर्च पैसाभर त्रिफला १पैसाभर पीपलतालीसपत्र पोह-
करमूल कसेला यह औषध दो २ पैसाभर लीजे इन
औषधोंसे गुड दूना लीजे गोली १ पैसाभरकी बांधे
प्रहरके प्रहर गोली एक खाय छःप्रकारका अर्श जाय
संग्रहणी श्लीपद् शूल वात पित्त कफरोग कंष श्वास
कास प्लीहा प्रमेह हुचकी इतने रोग जायँ वीर्य बढ़े
यह सूरणवटी गोली कही है ।

अर्शरोगको गुठ्यादिचूर्ण ।

सोंठि १ टंक मिरच २टंक पीपल ३ टंक तज ४टंक
इलायचीबीज ५ टंक तेजपत्र ६ टंक नागकेशर ७ टंक
यह सब औषध चढ़ती चढ़ती लीजे कूट छान चूर्ण
करे दिन चढते १ पैसा भर प्रभात लीजे अर्श अरुचि
गोला प्लीहा मंदाग्नि श्वास कंठरोग हृदयरोग इतने
रोग चूर्णसे जायँ ॥

अर्शरोगको लघुसूरण गोली वृन्दसे ।

सूरण १६ टंक मिर्च ८टंक सोंठि ८टंक गुड ३२टंक
यह औषध कूट पीस गुडमें मिलाय नींबूप्रमाण गोली
करे १ गोली प्रभात खाय ववासीर भगन्दर शूल
इतने रोग जायँ ॥

कल्याणचूर्ण वृन्दसे ।

त्रिफला चित्रक भिलावां दात्यूणी ये चार औषध

सममात्रलेनी इन औषधोंसे दूना सेंधानोन बराबर ची-
ता कायफल यह औषध हांडीबीच गोरिके हांडीका मुख
खामदीजै नीचे मंदाग्नि दीजै जब सब परिपक्व होय
पीछे शीतल होय तब मुद्रा खोलनी प्रभातसमय ३ टंक
खाइये इस कल्याण चूर्णसे दुष्टअर्श भगन्दर जायँ ॥

त्रिफलादिक्षार वृन्दसे ।

सोंठि १ टंक मिर्च २ टंक पीपल ३ टंक तज ५ टंक
चाय २ ॥ टंक बेलगिरी १ टंक नागरमोथा ३ टंक हींग
२ टंक मुलेठी ५ टंक जवाखार ५ टंक कुडाकी छाल २ टंक
पीपलामूल २ टंक राल २ टंक नींबूकी छाल २ टंक अ-
जमोद ४ टंक सार ५ टंक पांचो नोन ५ टंक यह औष-
ध बीमें मकरोय पीछे तेलमें मकरोवै पीछे कोरी हांडीमें
सब दवाई धरिये हांडीका मुंह बांधदीजै चूल्हेके ऊपर
हांडीको चढ़ाय नीचे अग्नि दीजै पहर १ स्वांग शीतल
हुए उतारले यह त्रिफलादिक्षार ३ टंक गौके घृतमें
पिलावै दुष्ट अर्श दूरि होय छः प्रकारका पांडु संग्रहणी
ग्रीहा मूत्रकृच्छ्र श्वासकास सुजाक शोष अतीसार प्रमेह
स्थावर जंगम विष त्रिफलादिकसे इतने रोग दूरि होयँ ॥

अर्शरोगको चव्यादिघृत वृन्दसे ।

यव त्रिकुटा पीपलामूल पाड़ा जवाखार तुम्बर विड़-
नोन सेंधानोन अजवाइन चित्रककायफल बेलगिरी यह

औषध सममात्रा ले कूट छान चूर्ण कीजै डेढ़पाव घृतमें
दवाई पकावै पीछे २ टंक लीजै चव्यादि घृतसे अर्श जाय।

अर्शको पिप्पल्यादि तेल वृन्दसे ।

पीपरि मुलेठी वेलगिरी वच धतूरेके बीज पोहकरमू-
ल कूट वड़ी कटाई कचूर चित्रक देवदारु यह सब
औषध सममात्रा लैकै पीसै चूर्ण करै इन औषधोंसे
छोड़ा मीठातेल मँगाय पकावे वह तेल अर्शवालेको ३
टंक दीजै अर्शरोग जाय ॥

अर्शको भिलावाकी गोली वृन्दसे ।

भिलावा दो हजार मन पानीके माहिं भिगोवै पीछे
दलिकै पकावै जब चौथाई आइरहै तब उतारि छानिले
तिस रसमें गुड़ ५५ गेरै फिर नीचे अग्नि दै पकावै पकि-
जायतब कढ़ाईको नीचे उतारिये पीछे ऊपरसे ये मिला-
इये त्रिकुटा हँर आँवला नागरमोथा सेंधानोन नाग-
केशर एकएक टंक सब औषध लीजै महीन कूट छानकर
चूर्ण कर मिश्रीको षात्रमाहिं वालिये पीछे चूर्ण मिला-
यकै वरतनमाहिं गेरिये पीछे २ टंक प्रभातसमय खाय
इसके खायेसे वायुगोला कुष्ठ भगंदर पांडुरोग संग्रहणी
कृमि ष्ठीहा अतीसार कमलवायु पेटरोग जायँ ॥

खूनीववासीरकी इलाज वृन्दसे ।

माखन घृत स्याह तिल नित्य प्रभात ८ दिन
खाय तौ रक्तववासीर दूरि होय ॥

अन्य उपाय वृन्दसे ।

मजीठ चन्दन सफेद तिल मोचरस पित्तपापड़ा यह
औषध सममात्रा ले कूट छान चूर्ण करै बकरीके दूधसे
तीन टंक खाय तो दुष्ट ववासीर दूरि होय लोहू पड़-
ता रह जाय ॥

अन्य उपाय भावप्रकाशसे ।

सूरणका चूर्ण दो टंक दहीमें मिलायकर नित्य
खाय रक्तववासीर जाय ॥

अन्य उपाय वैद्यमनोत्सवसे ।

नागकेशर एक टंक मिथी एक टंक माखन घृत
दो टंक मिलायकर खाय तौ रक्तार्श दूरि होय ॥

गोली वृन्दसे ।

जवाखार संभलखार सुहागा नौसादर नीलाथोथा
फिटकरी यह सब औषध सममात्रा लेकर नींबूके
रसमें एक पहर खरल करे चनाप्रमाण गोली
वांधि १ सन्ध्या १ प्रभात खाय खट्टे वियालका
परहेज राखै रक्तववासीर दूरि होय ॥

पुनः गोली ।

लहसुन सज्जी हींग निवोलीगिरी यह सममात्रा पांच पांच टंक ले वीस टंक गुड़ लीजै औषध गुड मिलाके तीन टंककी गोली बांधे प्रभात सन्ध्या एक गोली खाय इस गोलीसे छः प्रकारका अर्श जाय पेटका शूल मिटा ॥

अन्य उपाय वृन्दसे ।

गोभीकी तरकारी घीमें छाँकी गेहूँकी रोटीके साथ खाय तो छः प्रकारका अर्श जाय ॥

अन्य उपाय वृन्दसे ।

कीकरकी फली कच्ची छायामें सुखाय पीसि कपड़छान कर घेलाभरि चूर्ण फांकिले छः प्रकारकी ववासीर जाय ॥

अन्य उपाय वैद्यवल्लभसे ।

सूरणका चूर्ण १६ टंक गुड़ ८ टंक नित्य खाय अर्श रोग जाय ॥

लेप सिद्धसारसे ।

चोखी गुजराती फिटकरी संभलसार शोरा नीला-थोथा हीराकसीस कलीका चूना नौसादर यह सब औषध सममात्रा ले कपड़छान कर चूर्ण करना मनुष्यके पेशावसे पीसि सारी गुदापै ३ दिन लेप करे अर्श जड़मूलसे जाय ॥

अन्य उपाय वृन्दसे ।

हल्दी थूहरके दूधमें पीसि लगावै तो अर्श जाय ॥ इति खुनीववासीर चिकित्सा ॥

अथ भगंदर निदानलक्षण वृन्दसे ।

ऊकडू बैठनेसे विपमासनसे लोहूविकारसे त्रिदोषसे गुरु शास्त्रके शापसे इतनी बातोंसे भगन्दर उत्पत्ति होय है गुदाकी सीधन बीच छिद्र होय देह दुर्बल होय पेट अफरा रहै खाया पिया न पचै दाह जलन बहुत होय कास हो इतने लक्षण भगंदरके हैं ॥

भगंदरको त्रिफलादिक्षार योगचिन्तामणिसे ।

हड़छाल १६ टंक वहेराकी छाल १६ टंक आंवला १६ टंक पीपरि १६ टंक गूगल ८० टंक दूधमें शोधिकै गेरिये पीछे कूटकर ६ टंक नित्य खाय तौ भगंदर जाय मुल्म शोष तुरन्त जाय ॥

अन्य उपाय वृन्दसे ।

नागकेशर १ टंक पोस्ताकी गिरी १ टंक इन दोनोंका रस काड़िकै पिलावै तौ भगंदर तुरन्त जाय ॥

पिप्पल्यादिगोली योगचिन्तामणिसे ।

पीपरि पीपलामूल झींग सोंठि चित्रक वायविडंग इन्द्रयव जायफल भारंगीचाय वच गजपीपरि अजमोद जीरा दोनों सरसों कुटकी गूगल अतीस सँभालूके बीज यद् औषध मममात्रा ले चूर्ण करे इन औषधोंसे दुगुना

त्रिफला मिलाय गोमूत्रमें शुद्ध करै पीछे दवाई मिलाय कढ़ाईमें गेरदे पीछे मन्दाग्निसेती पकाइये जब थोड़ा-सा पकै तब ऊपरसे शहद गेरे जब पकजाय तब उतारले पीछे कोरी हांडीमें रखदे २ टंक प्रभात खाय तौ भगंदर दूरि होजाय अर्श पांडुरोग वातगुल्म खाजु लोहू विकार कोढ़ इतने रोग जायं ॥ इति भगन्दरचिकित्सा ॥

अथ ज्वराधिकार में कथित अजीर्णके

पुनः सामान्य कारण ।

आहारसे अजीर्ण होय और नहीं होय लोभ करिकै बहुत खाय और अगलाअन्न पचा न होय तिस ऊपर भोजन फेरि करै रातको पानी न पीवै प्यासा सोरहै इन बातोंसे अजीर्ण होय ॥

अजीर्णके लक्षण माधवनिदानसे ।

वमन होय तृषा होय शूल होय भ्रम होय अतीसार होय मूर्च्छा होय उवाकी होय दाह होय कांपनी होय नोंद थोड़ी आवै श्वास होय पेट भारी बहुत होय खट्टी डकार आवै अजीर्ण इस भांति कहा है ॥

अजीर्णको चूर्ण योगचिन्तामणिमतसे ।

हड़की छाल पीपरि सोंचरनोन बच हींग यह औषध सम मात्रा लेकर चूर्ण कर २ टंक गरम पानीसेती ले अजीर्ण मूर्च्छा दूरि होय ॥

अथ मूच्छा अजीर्णकी फंकी योगमतसे ।

हींग १ टंक वच २ टंक बिड़नोन ३ टंक सोंठि ४ टंक जीरा ५ टंक हड़ ६ टंक पोहकरमूल ७ टंक कूट ८ टंक इन औपधोंको कूट छान चूर्ण करै प्रभात संध्या गरम पानीसे लीजै अजीर्ण मूच्छा वायुगोला दूरि होय ॥

अजीर्णकी गोली योगचिन्तामणिसे ।

लवंग मिच हड़की छाल पीपारि पीपलामूल अनार-दाना अजवाइन तितड़ीक सज्जीखार जवाखार टंक-णखार सोंचर सेंधा सांभर चित्रक धनियां जीरा दो-नों सोंठि यह सब औपध सममात्रा लेकर कपड़छान करे पीछे विजौराके रसमें १ टंकप्रमाण गोली बांधै प्रभात गोली १ खाइये अजीर्ण मिटै ॥

अजीर्णको अग्निमुख चूर्ण वृन्दसे ।

हींग वच पीपारि सोंठि अजवाइन चित्रक कूट यह औपध चटती मात्रा ले कूट छान चूर्ण करै चूर्ण गरम पानीसेती पीवे चार प्रकारका अजीर्ण घृहा वंधकोए खाजु श्वास गोला शूल मंदाग्नि- इस अग्निमुख चूर्णसेती एते रोग जायें ॥

वृहदाग्निमुख चूर्ण वृन्दसे ।

सज्जीखार जवाखार चित्रक पाढा करंजुआ कालानोन भारंगी कपेला हींग कचूर इलायची तमालपत्र पोदकरमूल दारुहल्दी निसोत

चत्र मोथा इन्द्रयव डांसर आँवला हड़ चोभचीनी
 अनारदाना इमलीके चियां त्रिकुटा तिल अमलबेत
 देवदारु अजवायन अजमोद भिलावा रासना अम-
 लतास हाहूवेरु अतीस सहँजनेकी फली पलाश पाप-
 डा कालीजीरी तालमखाना लोथ राल लोहकी कीटी
 गोमूत्रमें पीसै ३ दिनताई अदरखके रसमें पीसै ३
 दिन विजौरेके रसमें पीसै ३ दिन पुट ९ देनी यह चूर्ण
 सुखाय गरम पानीसेती २ टंक प्रभात समय लेना
 अजीर्ण मंदाग्नि अष्टीला पथरी प्लीहा वायुगोला वमन
 उवाकी इतने रोग मिटें मन्इच्छा भोजन करै खाया
 पिया सब पचै ॥

अन्य चिकित्सा ।

पीपरि धनियां पीपलामूल डांसरिया जीरे चारों वा-
 येबिड़ंग सेंधानोन तालीसपत्र गजकेशर यह सब दो
 पल ले सूरण मिर्च सोंठि ये औषध एक एक पल लीजै
 तंज पत्रज इलायची छोटी ८ टंक लीजै अनारदाना
 पेसा १० भर लीजै अमलबेत २ पल औषध मिलाय
 कूट छान चूर्ण करिये नित्य २ टंक फांकिये गरम पा-
 नीसेती अथवा गोमूत्रसेती अथवा कांजीसेती वायु-
 गोला प्लीहा कफ वायु श्वास शूल अपची अजीर्ण
 मंदाग्नि अर्श भगन्दर संग्रहणी सोफ कृमि वन्धकोष्ठ
 इतने रोग जायँ ॥ इति अजीर्णचिकित्सा ॥

अथ कृमिउत्पत्ति कारण ।

मीठे गुड़से चावलसे मैदाकी वस्तुसे गुड़ खांडसे बे-
रसे सिंघाडेसे इतनी वातोंसे कृमि पेटमें पड़े हैं ॥

पेटमें कृमिके लक्षण माधवनिदानसे ।

ताप होय शूल होय छर्दि होय उबाकी होय खाली
अतीसार होय चित्तभ्रम होय भोजनकी इच्छा नहीं
होय छाती बहुत दूखै भूखा रहा न जाय इतने
लक्षण कृमिके हैं ॥

कृमिरोगपर चूर्ण वृन्दसे ।

वायविङ्ग सेंधानोन जवाखार कसेला हड़की छाल
यह औपध सममात्रा लेकर कपड़छान चूर्ण करै गाय-
की छांछसे २ टंक चूर्ण खाय तौ सब कृमि जायँ ॥

अन्य चूर्ण योगचिन्तामणिसे ।

वच अजमोद पलाशपापड़ा हींग कसेला निसोतये
सब औपध सममात्रा ले चूर्ण करै यह चूर्ण २टंक गो-
मूत्रसेती५दिन पीवे पटके कृमि दस्तमें निकल जायँ ॥

पुनः त्रिफलादिचूर्ण वृन्दसे ।

त्रिफला दात्युणी निसोत कुचिला यह औपध सम
मात्रा ले चूर्ण करै गरम पानीसे पीवे कृमि पेटके जायँ ॥

कृमिउपाय राजमार्तण्डसे ।

गुड़का हलुवा पेटभर संध्याको खाय प्रभातके
पहर इतनी वस्तु मिलायकर पीवैकसेला ६ पैसाभर
दही १ सेर मिलाकर निरनो खाय कृमिरोग मिटै घृत
खिचडी खाय यह सिद्ध योग पंडितोंने कहाहै ॥
इति कृमिरोग चिकित्सा ॥

अथ पांडुरोगोत्पत्तिनिदान माधवनिदानसे ।

माटी खाय दिनमें बहुत सोवै अति तीक्ष्ण वस्तु खाय
परिश्रमसे मदिरा पेशाव दस्तके रोकनेसे इतनी
बातोंसे पांडुरोग उपजै बड़े वैद्योंने यह बात कहीहै ॥

पांडुरोगके लक्षण माधवनिदानसे ।

तृषा होय दाह होय भ्रम होय छर्दि होय अरुचि होय
मुख नाक नेत्र नख जिह्वा ये पांच अंग पीले होयँ क्षय
होय नेत्र पीला हो पांडुरोगके ये लक्षण हैं ॥

पांडुरोगका उपाय योगमतसे ।

त्रिकुटा तज मारी लोहकी कीटी बेरकी गुठली मिर्च
चूमी सोनाभाखी यह औषध सममात्रा ले कूट चूर्ण कर
शहदमें गोली ४ टंककी बांधनी प्रभात गोली १ खानी
ऊपर गऊकी छांछ पीवनी पांडुरोग दाह उदरकी व्यथा
इतने रोग दूरि होयँ ॥

पांडुरोगकी फंकी शार्ङ्गधरसे ।

साठीकी जड़ हड़की छाल गिलोय दारुहल्दी यह औषध सममात्रा ले चूर्ण करै चूर्ण २ टंक गोमूत्रमें मिलाय पीवै गोमूत्रमें गूगुल माशे ३ बुरकावना पांडुरोग सोफोदर चर्मरोग इस चूर्णसे इतने रोग जायँ ॥

पांडुपर अभयादिगुटिका सिद्धिसारसे ।

हरडै पीपलामूल सोठि मिर्च तज तमालपत्र बाय-विडंग आंवले नागरमोथा ये सब औषध बराबर लीजै दन्ती २। टंक निसोत २ पल मिश्री १६ टंक यह औषध पीसि छान चूर्ण कीजै शहदमें मिलाय गोली टंक ३ की बांधै गोली १ प्रभातसमय खाय ऊपर शी तल पानी पीवना इस अभयादिगोलीसे पांडुरोग सो-फोदर दाह कोढ़ भगन्दर मूत्रकृच्छ्र शिरःशूल मृगीरोग कृमिरोग इत्यादिक रोग जायँ विरेचन लागे, पेटके सब रोग जायँ ॥

पांडुरपर नवरसादिगुटिका रसचिन्तामणिसे ।

त्रिफला चित्रक नागरमोथा वायविडंग सोठि मिर्च पीपल यह औषध सममात्रा लेके चूर्ण करना शहदमें गोली बांधै गायके पेशावसे पीवना अथवा छांछके साथ पीवना अथवा शहदमें अवलेह करके खाय इस नवरससे

पांडुरोग सोफ हृदयके रोग भगंदर श्वास कास कोढ़ अर्श संग्रहणी मंदाग्नि शूल कृमि पेटकी पीड़ा इतने रोग जातेरहें ॥

वृद्धिनवरसादिगोली योगचिन्तामणिसे ।

त्रिफला वायविडंग त्रिकुटा तज तमालपत्र वंशलोचन तवाखीर मो नागकेशर सोनामक्खी छोटी इलायची सालममिथ्री यह सब औषध वरावर ले पीसि छानि चूर्ण करै शहदमें मिलाय टंक ३ की गोली बांधिये इस वृद्धिनवरससे सोफ पांडु प्रमेह कमलवायु गोला श्वास कास रोग जायँ ॥

पांडुरोगकमलवायुकी चटनी सिद्धसारसे ।

हड़का चूर्ण गुड़साथ चाटे दिन ७ ताई कमलवायु दूरि होय ।

आमवातका उपाय वृन्दसे ।

त्रिफला मोथा मिर्च देवदारु कुटकी वायविडंग यह सब औषध वरावर लीजै कूटि छानि चूर्ण कीजै गिलोयके रसमें गोली टंक १ की करै प्रभात संध्या को गोली खाय तो कमलवायु जाय ॥

अन्य उपाय वृन्दसे ।

गधाके मँगनेका रस तोला २ गौकी छाँ सेर मिलाय दिन ७ पीवै तौ कमलवायु जाय ॥

पुनः उपाय वृन्दसे ।

कुटकी टंक २ मिश्री टंक ३ ये दोनों मिलाय गर्म पानीसेती या ठंडेसे लीजै दिन ७ तौ कमलवायु जाय ॥

कमलवायुको नास ।

तूवीकी गिरी हरी तौर कुटकी इनकी नास दे तो कमलवायु जाय ॥

कमलवायुको काढा वृन्दसे ।

दारुहल्दी नींबकी छाल इनका काढा कीजै पीछे शहद मिलायकर पीवै दिन सात तौ कमलवायु जाय ॥ इति पांडुकमलवायुचिकित्सा ॥

अथ रक्तपित्तके लक्षण माधवनिदानसे ।

'देह दुर्बल होय व नित्यप्रति देह क्षीण होय श्वास कास होय मंदाग्नि होय वृषा बहुत होय भ्रूख नहीं लगै रक्तविकार होय इतने लक्षण रक्तपित्तके कहे हैं ॥

रक्तपित्तकी चटनी वृन्दसे ।

तालीसपत्रको महीन पीसिकर शहदमें चाटे दिन २१ तौ क्षयी रक्तपित्त जाय ॥

रक्तपित्तपर चूर्ण वैद्यवल्लभसे ।

शतावारि विलायती गोलुखू इन दोनोंको पीसि सूक्ष्म चूर्ण कर बकरीके दूधसे १४ दिन पीये तौ रक्तपित्तका नाश होय ॥

रक्तपित्तको काढा टोडरानन्दसे ।

हड्डै अडूसा मुनक्का इनको बराबर लेकर काढा करे शहद मिश्री मिलायकर पीवै तौ रक्तछर्दि जाय मर्मा जलन मिटै ॥

रक्तपित्तको पेठापाक योगमतसे ।

पेठा बड़ा पक्का लाइये पीछे, ऊपरसे छीलिये बीचके बीज सब दूर करिये बाकीके खंड २ अंगुल दोके टुकडे करिये टुकडोंके बीच चाकूसे छेद करिये पीछे भूनिये भूनते २ जब शहतके रंग होजायँ तब थालीबीच उतारिये पीछे जितना पेठा होय तिस बराबर खांड चोखीकी चासनी करै चासनी पकजाय तब कडाहीको नीचे उतारै पीछे उस चासनीमें इतनी वस्तु और मिलावै सोंठि पल १ सफेद जीरा १ पल मिर्च १ पल इलायची १ पल तज १ पल धनियां १ पल तेजपत्र १ पल यह औषध पीसकर रक्खै चासनीमें भूना पेठा मिलाइये पीछे कौंचासे सब एक करै पीछे मिश्री युक्त कर सब दवाई मिलायदीजै पीछे उतारलीजै पीछे कोरे बर्तनमें रखदे तब ३ पैसाभर नित्य खाय रक्तपित्त ज्वर तृषा क्षयी बवेसी श्वास मुख नाकसेती लोहू गिरता होय इतने रोग-जायँ देहीकी गर्मी मिटै वीर्यवधै ॥ इति रक्तपित्तकी चिकित्सा ॥

अथ राजयक्ष्माका लक्षण माधवनिदानसे ।

अंगमें ज्वर सदा रहै सोफ होय रक्त पित्त

होय कफका कोप होय पांडुवर्ण होय देह दुर्बल होय
देह कपै इतने लक्षण राजयक्ष्माके हैं ॥

राजयक्ष्माकी फंकी चूर्णसे ।

असंगंध शालिपर्णी पृष्ठिपर्णी कटाई दोनों गोखुरु
बेलगिरी अडूसा पुष्करमूल अफीम यह औषध पीस
कर बकरीके दूधमें फंकी लीजै टंक ३ भरदिन २१ले
राजयक्ष्मा जाय ॥

**क्षयी पीनस श्वास कासपर भस्मा-
कचूर्ण चूर्णसे ।**

इंद्रायणके फल ५ घीकुवॉरका पाठाथोहरकी ल-
कडी ३॥ हाथ बेंगनमारु १ कटाईके फल ५० पांचो
नोन आधसेर अजवायन आधसेर यह सब औषध
कूट सुखायकर अच्छी लीली हांडीमें रखे तिस हांडी-
के मुहपर मालसा धरना मिट्टीसे खाम देनी सुखाय
गज डेढ़का गढ़ा खोदना गढ़में अरना भरदेनी बीचमें
हांडी रखना ऊपर और अरना रख पीछे अग्नि देनी
शीतल होय जब काढ़ना हांडीमेंसे काढ़ पीस लेना
चूर्ण टंक २ ठंढे पानीके साथ खाना दिन ३२ तो श्वास
संग्रहणी वायुगोला अफरा शूल अजीर्ण अरुचि जलो-
दर कफोदर वातोदर सोफोदर कठोदर इतने रोग
भस्माकचूर्णसे जाये ॥

क्षयीरोगको चूर्ण चरकसे ।

वच १२ टंक खुरासानी अजवायन १२ टंक नाशपाल

३० टंक अजवायन १० टंक इन सब औषधोंका चूर्ण करे
 आकके फूल ४० टंक मिर्च २ टंक सोंठि १ टंक लवंग
 १ टंक पीपल २ टंक यह ऊपरकी औषध जुदी जुदी कूट
 सुखाय ऊपरकी औषध हांडीमें गेरदे मुद्रा दे गजपुटमें दे
 भस्म करना पीछे शीतल हो तब काढ़ना हांडीको पीछे
 नीचेकी दवाई मिलायके पीस दे कपड़छान कर गर्म पा-
 नीसे यह चूर्ण डेढ़ टंक लीजे तो क्षयी श्वास कफ
 खांसी घृहा वायुगोला इतने रोग जायँ यह चूर्ण चरक
 ऋषिने मनुष्योंके उपकारके वास्ते बताया ॥

क्षयीका उपाय वृन्दसे ।

मिथ्री पीपल मुनक्का यह तीनों मिलायकर गोली
 टंककी बांधिये प्रभात संध्याको एक गोली खाय तो
 क्षयी श्वास कफ खांसी जाय वायु सर्व जायँ ॥ इति
 श्वासकासस्वरभंगचिकित्सा ॥

अथ हिक्काश्वासनिदान वृन्दसे ।

वायु कफसे हुचकी होयँ सो पांच प्रकारकी हैं हुच-
 की रोग बहुत कठोर है जो हुचकीका इलाज पुरुष न
 करे तो धर्मराजके घरमें वास होय डूंडीमेंसे हुचकी
 वारम्बार उठे तिनका उपाय करे ॥

हुचकीका उपाय सिद्धिसारसे ।

पीपल मुलेठी मिथ्री यह तीनों औषध शहदके संग
 चाटे पांच प्रकारकी हुचकी तत्काल जायँ ॥

पुनः हुचकीका उपाय ।

पीपल आंवला सोंठि यह तीनों बराबर लेकर चूर्ण कर तीन बेर दिनमें चाटै या चार बेर तो हुचकी सब दूरि होय मदिराके पीवनेसे हुचकी जाय तमाखूके पीवनेसे, खड़िया शहद चाटै तो हुचकी दूरि होय गेरू शहद चाटै तो हुचकी दूरि होय हल्दी पीस तमाखूकी भांति हुक्केमें पीवै तो हुचकी जाय उड़दका चूर्ण हुक्केमें पीवै तो हुचकी जाय कोरा कागज पानीमें मथकर पीवै तौ भी हुचकी जाय ॥

हुचकीका उपाय शार्ङ्गधरसे ।

उड़दका चूर्ण हल्दी पीसि चिलममें भरि पीवै तो पांच प्रकारकी हुचकी जायँ स्त्रीका दूध माखीका बीट दोनों मिलाय नास दे तो हुचकी जाय ॥

हुचका श्वासको चूर्ण योगचिन्तामणिसे ।

काकड़ासिंगी सोंठि मिर्च पीपल हड़ वहेड़ा आवँला भारंगी कटाई पुष्करमूल सेंधव सांभर बिडनोन यह सब औषध कूट छान चूर्ण करै पीछे चूर्ण २ टंक गरम पानीसेती दीजै हुचकी ऊर्द्धश्वास क्षयी खांसी पीनस इतने रोग जायँ ॥

श्वासको काथ वाग्भट्टसे ।

कुलथी सोंठि कटाई अडूसा यह औषध वरावर ले
इनका काड़ा करै पुष्करमूलका चूर्ण बुरककर पीवै
श्वास कास हुचकी जायँ ॥

श्वासको अवलेह वृन्दसे ।

मुनका हडै पीपल धमासा काकड़ासंगी वहेड़ा यह
औषध सममात्रा लेके २ टंक चूर्ण गर्म पानीसेती अ-
थवा शहदमें चाटे तो हुचकी दुष्ट श्वास दूरि होय ॥

श्वासकासका अवलेह वैद्यवल्लभसे ।

त्रिकुटा काकड़ासंगी भारंगी अकरकरा तेजवल
कायफल लवंग यह औषध सममात्रा ले शहदमें प्रभात
समय चाटे तो श्वास कास कफ हुचकी पीनस जायँ
॥ इति हुचकी श्वास कास चिकित्सा ॥

अथ स्वरभंगलक्षण विंदुसारसे ।

ऊंचे स्वरसे वोलै नहीं मंदरेवोले अल्पस्वरसे नीठ
नीठ वोलै कफ कण्ठविषे आयरहे देह दुर्बल होय वल
क्षीण होय आलस्य बहुत होय ॥

स्वरभंगको चव्यादि चूर्ण शार्ङ्गधरसे ।

यव चित्रक त्रिकुटा अमलवेत तितडीक सफेद जीरा
वंशलोचन तालीसपत्र यह औषध सममात्राले कूटछान
चूर्ण करै तज तेजपत्र छोटी इलायची यह सब औषध

(९२) रामविनोद ।

दोदो टंक लीजे सबसे दूना गुड लीजे गोली सुपारी-
प्रमाण बांधै इस गोलीके खायेसे स्वरभंग श्वास पीनस
इतने रोग जाय ॥

स्वरभंगका उपाय वृन्दसे ।

पीपल बहेडा सेंधवनोन यह औषध सममात्रा ले कूट
छान चूर्ण करै २ टंक चूर्ण शीतल जलसे १४ दिन ले
तो स्वरभंग अच्छा होय ॥

अन्य उपाय ।

हल्दी पीपल मिर्च सेंधवनोन सबके बराबर गुड
इनको जलके साथ ले तो स्वरभंग जाय ॥

अन्य उपाय मनोरमासे ।

अभया दूधके साथ पीवै तो स्वरभंग जाय आंवलेका
चूर्ण ३ टंक गोदुग्धमें पीवै तो भी स्वरभंग जाय ॥
इति स्वरभंगचिकित्सा ॥

अथ अरुचिके लक्षण ।

तृषा होय दाह होय सोफ होय कफ होय भोजनकी
इच्छा नहीं होय शूल होय इतने अरुचिके लक्षण हैं ॥

अरुचिको चूर्ण राजमार्तण्डसे ।

त्रिकुटा त्रिफला हल्दी यह औषध बराबर ले चूर्ण
करै शहदसंग २ टंक चूर्ण मिलाय खाय अरुचि
दूर होय ॥

अन्य चूर्ण राजमार्तण्डसे ।

मिर्च कलौंजी अनारदाना सोचरनोन जीरामुनका

डांसरा गुड़में तथा शहदमें मिलाय ३ टंक खाय तो अरुचि दूरि होय ॥

पिप्पल्यादि चूर्ण राजमार्तण्डसे ।

पीपरि १०० मिर्च २०० मिश्री १६ टंक इनका चूर्ण करै २ टंक प्रभात के प्रहर खाइये अरुचि दूरि होय ॥ इति अरुचिचिकित्सा ॥

अथ छर्दिका कारण माधवनिदानसे ।

दुष्ट भोजनसे वासी खायसे उद्वेगसे भयसे अजीर्णसे कृमिसे तीनप्रकारकी छर्दि कही अथवा वात पित्त कफ द्विदोष त्रिदोषसे पांच कारण कहे ॥

अथ लक्षण माधवनिदानसे ।

मूर्छा तृषा श्वास छाती दूखै तलुवेमें पीडा भ्रम खेद मुख सूखै कफ होय डकारें होयँ इतने लक्षण । वायुकी कफकी छर्दिका नीला वर्ण व पीला होय और पित्त कफ होय छर्दिका के लक्षण इतने कहे हैं ॥

वातछर्दिकी फंकी राजमार्तण्डसे ।

त्रिकुटा दूब यह दोनों पीसि पीवे वातछर्दि दूरि होय । विड़नोन सोंचरनोन सांभरनोन पानीसे फांके वातछर्दि दूरि होय ॥

अन्य उपाय ।

घृत ३ टंक सेंधानोन १ टंक तीनदिन ताई पीवै
वातकी छर्दि दूरि होय ॥ इति वातछर्दिकी चिकित्सा ॥

अथ पित्तछर्दिकी चिकित्सा
राजमार्तण्डसे ।

सफेद चन्दन १ टंक इमिलीका रस यह दोनों इकट्ठे
कर शहदसे चाटै पित्तकी छर्दि दूरि होय ॥

अन्य उपाय ।

हड़की छाल शहदसे चाटै पित्तछर्दि दूरि होय यह उ-
त्तम इलाज अत्रिऋपिने परोपकारके वास्ते बताया है ॥

पित्तछर्दिको काढा शार्ङ्गधरसे ।

त्रिफला नींबकी छाल पटोलपत्र गिलोय यह सब
औषध सममात्रा ले काढा करै शहद गेरकर पीवै पित्त
वमन ज्वर खांसी श्वास छर्दि तृष्णा इतने रोग जायँ
पित्तपापड़ेका काथ करके पीवै तो पित्तछर्दि दूरि
होय ॥ इति पित्तछर्दिचिकित्सा ॥

अथ कफछर्दिकी फंकी वृन्दसे ।

पीपारि सरसों नींबकी छाल धनियाँ सेंधानोन मैन्फ-
ल यह सब औषध सममात्रा लेकर चूर्ण करै गरम पानी
सेतीरटंक तीनदिन ताई फाँकै तो कफछर्दि दूरि होय ॥

अन्य उपाय विदुसारसे ।

त्रिफला सोंठि वायविडंग सोनामक्खी इन औषधों-
का चूर्ण शहदमें मिलायकर चाटै कफछर्दि दूरि होय ॥

अन्य उपाय वृन्दसे ।

धमासा पीसि शहदमें चाटे कफछर्दि जाय ॥ इति
कफछर्दि चिकित्सा ॥

अथ त्रिदोषछर्दिकी चिकित्सा योग-
चिन्तामणिसे ।

पीपरि मिर्च धानकी खील इलायची इन सत्र औष-
धोंको कूटि चूर्ण कर शहदमें चाटै तो त्रिदोषछर्दि जाय ॥

अन्य उपाय सिद्धसारसे ।

हड़ त्रिकुटा धनियां जीरा सफेद जीरा स्याह इनका
चूर्ण शहदमें चाटै त्रिदोष छर्दि जाय ॥

अन्य उपाय सिद्धसारसे ।

गिलोय हड़ मिर्च पीपरि ये चारों औषध चूर्ण कर
शहदमें चाटै त्रिदोषछर्दि जाय ॥

अथ त्रिदोषछर्दिको एलादि
चूर्ण शार्ङ्गधरसे ।

इलायची लवंग नागकेसरि वेरकी मोंगी धानकी
खील नागरमोथा आमका वौर अगर तगर सफेद
चन्दन पीपरि मिथ्री इन औषधोंका चूर्ण करिके
शहदमें चाटै त्रिदोषछर्दि जाय ॥

अथ तृषाका उपाय योगमतसे ।

बड़की जड़ इलायची बड़ी कूट मिश्री मुलेठी चावलकी खील कमलगट्टा ये औषध सममात्रा ले शहदसंग गोली बांधै मुखमें रखै तृषा दूरि होय ॥

अन्य उपाय वृन्दसे ।

मुलेठी दाख छोटी इलायचीके बीज यह दवाई शहदमें मिलाय चाटै तो तृषा दूरि होय ॥

अन्य उपाय वैद्यजीवनसे ।

जामुनकी गुठली आमकी गुठली इन दोनोको उवाल कर शहद गेरि पीवै तृषा दूरि होय ॥ इति तृषाचिकित्सा ॥

अथ क्षुधाचिकित्सा वृन्दसे ।

सौंफ बायविडंग सेंधानोन मिर्च यह सब सममात्रा लेके कूट चूर्ण करे ३ टंक गरम पानीके साथ फंकी लेवै तो भूख बहुत लगे मंदाग्नि जगे ॥

क्षुधाकी फंकी ।

हड़की छाल बायविडंग सोंचरनोन चित्रक सोंठि पीपरि अनारदाना अजमोद नागरमोथा अमलवेत विड़नोन जीरा दोनों अजवायन धनियां ये औषध सममात्रा ले कूट छान चूर्ण २ टंक फंकी ठण्डे पानीसे ले तो क्षुधा बहुत लगे भोजन भस्म हो ॥

क्षुधाको वड़वानल चूर्ण योगसतसे ।

सोंठि पीपरि इड़ बायविडंग चीता करंजुवेके पत्ते
बहेडा तज तेजपत्र इलायची जीरा सफेद जीरा काला
अजमोद अजवायन डासर विड़नीन सोंचरनीन
अनारदाना ये औषध वरावर लेकर दूनी मिश्री गेरि
चूर्ण करै ३ टंक प्रभात फंकी लीजै भूख बहुत लगे
खाया पिया भस्म होय ॥

अथ मूर्च्छाका लक्षण माधवनिदानसे ।

छातीमें पीड़ा हो बहुत जँभाई आवै वदन गिरापड़े
चेतनाकरके रहित होय एक पासमें पीड़ा होय नेत्र मूंदे
रहै कानोंसे सुनाई न पडे जीभसे बोला न जाय ॥

मूर्च्छाका निदान माधवनिदानसे ।

बलहीन होय बहुत दोष उपजै दुष्ट आहारसे विरुद्ध
आहारसे चिन्तासे शोचसे वायुविकारसे शीतलवस्तुसे
छः प्रकारकी मूर्च्छा उपजैहै ॥

मूर्च्छाकी फंकी वृन्दसे ।

मिर्च खस नागकेसरि वेलगिरी यह औषध कूट
छान चूर्ण करै शीतल पानीसे यह चूर्ण २ टंक फाँके
तौ भूखे लगे अपस्मार मृगी दूरि होय ॥

मूर्च्छाको अवलेह वृन्दसे ।

मुनका आँवला सोंठि ये तीनों सममात्रा ले चूर्ण
करै शहदके साथ चाटे मूर्च्छा मिटे ॥

मूर्च्छाको काथ विन्दुसारसे ।

सोंठि पीपलामूल गिलोय पुष्करमूल मुनक्का ये सब औषध बराबर ले इनका काढ़ा करै इससे सचेत होय मूर्च्छा मिटै ॥ इति मूर्च्छानिदानचिकित्सा ॥

अथ मदविभ्रमके लक्षण माधवनिदानसे ।

हुचकी आवे दाह होय शिर कँपै शूल होय श्वास होय चित्त विकल होय नौद आवे तृषा होय मूर्च्छा होय ये लक्षण मदभ्रमके हैं ॥

मदविभ्रमको चूर्ण वृन्दसे ।

सोंचरनोन जीरा सफेद जीरा काला अमलबेत डांसरिया तज इलायची छोटी मिर्च ये सब औषध सममात्रा ले इन सब औषधोंकी अर्द्धभाग मिश्री लीजै प्रभातको २ टंक खाय मदविभ्रम विकलता धांस जाय यह चूर्ण वृन्दऋषीश्वरने बनाया है ॥

मदविभ्रमका उपाय सिद्धसारसे ।

चाव सोंचर हींग सोंठि अजवायन यह औषध सममात्रा ले चूर्ण करना शीतल जलसे फांकना मद-विभ्रम रोग जाय ॥

अन्य उपाय वैद्यवल्लभसे ।

मुनक्का दाख पेडुकीका पंख दाड़िमके पत्ते मिश्री ये दवाई पीन शहदमें चाटे मदविभ्रम जाय ॥ इति मदविभ्रमचिकित्सा ॥

अथ दाहके लक्षण माधवनिदान से ।

बाहर अन्दर दाह बहुत होय उदर गरम होय मूर्च्छा होय तृषा होय ये लक्षण दाहके होतेहैं ॥

दाहको घासा वृन्दसे ।

नेत्रवाला पद्माक चन्दन नागकेसर मोथा खस पानीसे विसकर पिलायदे दाह पीड़ा मिटे ॥

दाहका अन्य उपाय वृन्दसे ।

सफेद चन्दन पीपल मिथ्रीमिलाय चूर्ण करैर टंक प्रभातके समय ठंडे पानीके साथ खाय तो दाह गरम मिटे ॥ इति दाहचिकित्सा ॥

अथ उन्मादका निदान माधव निदानसे ।

वायुसे गुरुशापसे ब्राह्मणके शापसे विशेष भांगके पीनेसे मदिरापानसे द्रव्यके गयेसे संग्रामसे विरुद्ध भोजनसे भूतप्रेतादि दोषसे इतनी बातों करके उन्माद उपजेहे ॥

उन्मादके लक्षण ।

मति विचल होय जीभसे वृथा वचन बोले हृदयगून्य होय बहुत हँसे अपनी इच्छा चले कभी गीत गावे व नाचै व रोवै व जीभ काढ़े वांकी आंखें करि देखें उन्माद बहुत होय भूतप्रेतके वचन बोले हेलाहेल करे शिथिल होय लाज बहुत करे उन्मादका यह लक्षण -

उन्मादको घासा योगसतसे ।

हड़ सरसों बहेड़ा आंवला सिरसके बीज करंजुवेके पत्ते देवदारु मालकांगनी हल्दी दारुहल्दी त्रिकुटा मजीठ निसोत होंग असालिया यह औषध सममात्रा ले पीस छान बकरीके पेशाबसेती घिस पीवै तो भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी उन्माद कमान टुमन टामन मंत्र यंत्र तंत्र दोष छायादिक रोग जायँ ॥

उन्मादको त्रिकुटादिघृत वृन्दसे ।

त्रिकुटा केसर केल कन्द सजी देवदारु पीपलामूल खस हल्दी दारुहल्दी कपूर काकरासिंगी सांठीकी जड़ कुटकी मेनफल हड़ अतीस इलायची तगर चाव जामुनकी गुठली यह औषध सममात्रा ले चूर्ण करै चूर्ण १ पैसाभर गोमूत्र १ पैसाभर गोघृत ८ माशे मिलाय उन्मादवालेको पिलाना उन्माद भूत प्रेत अरुचि अपस्मार मृगी पिशाच मेद सब दोष जायँ ॥

उन्मादको अंजन वृन्दसे ।

त्रिकुटा होंग सेंधव वच कूट सिरसके बीज सफेद सरसों गोमूत्रसेती चनाप्रमाण गोली बांधे आंखोंमें अंजन कीजै अपस्मार उन्माद चोंथिया ज्वर प्रलाप इस अंजनसे जायँ ॥

उन्माद भूत प्रेतकी धूनी वृन्दसे ।

गूगल पीपलामूल इम्वन्द नीले वल्लभे वांधि धूनी
दीजे उन्माद भूत प्रेत इतने दोष जायँ ॥

अथ मृगीके लक्षण माधवनिदानसे ।

हृदय गला जीभ शून्य होय मूर्च्छा होय पसेव
होय नोंद न आवे मति विसरे कम्प होय तृपा होय
मुखमें झाग आवे आंखें फेरे मृगीके इतने लक्षण कहेहैं ॥

मृगीको चूर्ण वृन्दसे ।

शालिपर्णी पृष्टिपर्णी वडी कटाई गोखुरू वेलगिरी
अरणी स्योनाक कुंभेरी पाडल कटाई छोटी यह सब
आपध सममात्रा ले चूर्ण करना शहदमें चाटना अथवा
काढा कर पीवना मृगी जाय ॥

मृगीकानस्य आनन्दमालासे ।

इन्द्रायणफल २ पकेहुए कुटकी १ तोला चिरायता
१ तोला इन तीनोंको कृटि कपड़ेमें गेरि रस काढ़े पीछे
कांचके शीशामें राखे पुरुषको तथा स्त्रीको मृगी आवे
जब शीशेमेंसे फोहा कर नाकमें निचोडे ऐसे २३ दिन
तथा ४१ तथा ५१ दिन जब मृगी आवे तब नास दे
तो मृगी भूत प्रेत उन्माद डाकिनी शाकिनी योगिनी
छायादूषण दामन राक्षसज्वर जाय ॥

मृगीको अंजन वृन्दसे ।

हीग मुलहठी मोथा वच मिर्च सिरसके बीज यह सब औषध बराबर ले कूट छान चूर्ण करै बकरीके पेशावमें पीसि गोली करै आंखोंमें अंजन करै मृगी व उन्माद जाय ॥

मृगीरोगकी बाती वृन्दसे ।

त्रिकुटाकी वछियाके पेशावसे गोली करै पीछे अंजन करै अपस्मार सर्पविष इतने रोग जायँ ॥ इति मृगीरोगचिकित्सा ॥

अथ बंधकुष्ठके लक्षण ।

वायु कोठेमें होय उदरबंध जलकी शंका मिटै नहीं कोठा पूरा झड़ै नहीं अन्नका अफरा होय खाया पिया पचै नहीं ऐसे लक्षण मिलें तो बंधकुष्ठ कहिये ॥

बंधकुष्ठमोदक योगचिन्तामणिसे ।

हड़की छाल १६ टंक वहेड़ेकी छाल १६ टंक आंवलाकी छाल १६ टंक भिलावां ६४ टंक चावची ८० टंक वायविडंग ४ पल सार १। पल निसोत ४ पल गूगुल १ पल शिलाजीत १६ टंक पुष्करमूल ४ टंक चित्रक ८ टंक इन्द्रायण १ टंक मिर्च १ टंक पीपरि १॥ टंक नागरमोथा १॥ टंक छोटी इलायची १। टंक नागशेशर १। टंक तज १। टंक पत्रज १। टंक ये औषध पीसि सूक्ष्म

चूर्ण करिये सवसे दूनी चीनी (खांड) लीजै तिसकी चासनी करै चासनी पकिजाय तव दवाईका चूर्ण मिलादे १ पैसाभरका लड्ड बांधे १ लड्ड प्रभात खाय १ संध्याको खाय तो बंधकुष्ठ घृहीहा वायुगोला भगन्दर जीभ तालुवा कंठरोग दूर होयँ महा गुण करताहै ॥

इति श्रीपद्मरंगशिष्य रामचन्द्रविरचित रामविनोदका अतीसार-निदान लक्षण चिकित्सा १ वात पित्त कफ आमातीसार संग्रहणीरोग निदान लक्षण चिकित्सा २ अर्शरोग निदान लक्षण उपाय ३ अजीर्णलक्षण उपाय ४ कृमिलक्षण उपाय ५ पांडुरोग निदान लक्षण उपाय ६ रक्तपित्तका लक्षण ७ रक्तछर्दि ८ मुख नासिकासे रक्त गिरता होय तिसका उपाय ९ राजयक्ष्माका उपाय १० कास श्वासका लक्षण उपाय ११ स्वरभंग लक्षण उपाय १२ अरुचिका उपाय १३ छर्दिलक्षण उपाय १४ घात पित्त कफ छर्दिका उपाय १५ तृपालक्षण उपाय १६ दाह उपाय १७ उन्मादनिदान लक्षण १८ मूर्छा-निदान लक्षण १९ मृगी लक्षण उपाय २० बन्धकुष्ठ चिकित्सा २१ कथन चतुर्थ अधिकार समाप्त ।

अथ पांचवां अधिकार वातकी उत्पत्ति ।

शीतल वस्तुसे रूखे हलके अन्नसे विषम आसनसे दण्ड करनेसे परिश्रमसे खेदसे क्षीणबलसे क्षीणधातुसे

(१०४) रामविनोद ।

वातल वस्तुसे वातल अन्नसे शीतसे वर्षासे इतने कारणोंसे वात उपजैहै ॥

वायुके लक्षण चरकसे ।

माथेमें पीडा होय नाक आंखि दांत जीभ हृदय गला ढूँडी गोड़ कटि संधि उदर पसुली पीठ जंघा पोता इतनी जगह पीड़ा होय यह भेद वायुके हैं ॥ २

सब वायुके उपाय चृन्दसे ।

तेलका मर्दन करावे सर्वांगमें पोटली आदिकसे सेंक करावे नास दीजै स्वेद और विरेचन करावे सब प्रकारकी वायु जायँ ॥

वायुकी फंकी चृन्दसे ।

असगन्ध नेत्रवाला दशमूल सोंठि यह सब दवाईश् टंक लीजै अथवा दो टंक चूर्ण गरम पानीसे नित्य लीजै सब वायु जायँ ॥

अन्य उपाय ।

अजमोद रास्ना वहेड़ा यह सममात्रा लेके चूर्ण करे गरम पानीसे फाँके सब वादी दूरि होय ॥

वातकी फंकी चृन्दसे ।

सफेद जीरा त्रिकुटा सोंचरनोन यह औषध बराबर लीजै चूर्ण करे १ टंक एकवक्त दीजै चौरासी वायु व सब अंगकी पीड़ा मिटै ॥

वातकृत शिरदर्दकी औषध वृन्दसे ।

हल्दी स्याह कूट अजमोद सोंठि मुलेठी सेंधानोन
मिर्च यह सब औषध सममात्रा लेकर घृतसेती अवलेह
करे प्रभातसमय २१ दिनतक खाय तो माथाकी
पीड़ा मिटे ॥

वातसे अंगहीनता व पक्षाघातका उपाय वृन्दसे ।

दशमूल सोंठि नेत्रवाला रास्ना गिलोय इन औष-
धोंका चूर्ण करे धीके साथ चाटै तो सब वायु जायँ
शूल कमरकी मिटे ॥

कटिशूलका उपाय वृन्दसे ।

एरंडकी गिरी ८ टंक भेंसके दूधमें गेरि खीर पकावै
मीछे बूरा घृत युक्त करि ७ दिन खाय कमरशूल संधिरे
की वायु जाय मस्तकरोग जायःपुष्टि होय ॥

मस्तकभ्रमं-व वायुका उपाय वृन्दसे ।

मूसली स्याह ४ पैसाभर असगन्ध ४ पैसेभर सतुआ
सोंठि ४ पैसाभर मेदालकडी ४ पैसाभर पीपल २

पैसाभर खांड १ सेर घृत १ सेर गरमकर कोरी हांडीके बीचमें गेरिकर हांडी मुखबन्दकर नाजके कोठामें ७ दिन गाड़राखै इसके खायसे मस्तकभ्रम मिटै कमरकी चोट मिटै ४ पैसाभर प्रभात खाना चाहिये ॥

पुनः शिरदर्दका उपाय वंगसेनसे ।

लवंग धमासा चिरायता मिर्च यह सब औषध सम- मात्रा लीजै एक माशाकी गोली करै १ गोली गर्म पानीसे लीजै शिरदर्द व भ्रम मिटै ॥

अकडवायुका उपाय वृन्दसे ।

त्रिकुटा वायविडंग जायफल जावित्री लवंग अकर- करा सुपेद जीरा चिरायता तज तेजपत्र छोटी इला- यची भारंगी कवाबचीनी नागकेसर यह औषध सम- मात्रा ले पुराने गुड़में मिलाय १ टंककी गोली बांधिये गर्म पानीसेती १ गोली लीजै १ संध्याको खाय तो पेटशूल संधानवायु दूरि होय ॥

अकडवायुको गुटिका शार्ङ्गधरसे ।

नागौरीअसगन्ध २ पैसाभर दूध २ सेर दूधमें पकाय दानेदार खोया करै २ सेर चीनी (खांड) लीजै जिसमें खोवा मिलायदे पीपल २ पैसाभर

बायविडंगरपैसाभर जीरा २ टंक चित्रक२टंक तज२
 टंक तेजपत्र २ टंक नागकेसरि३टंक इलायची २ टंक
 जावित्री २ टंक जायफल ३ टंक दालचीनी ३टंक यह
 सब औषध कूट छान कर खोवेमें मिला २ पैसाभरकी
 गोली बांधिये प्रभात १गोली संध्याको १गोली खाय यह
 गोली प्रसूतवाली स्त्रीको दीजै महागुण करै कटिशूल
 संधिशूल वायुकी पीड़ा सब मिटै ॥

उदरविषे वायु पीडाका उपाय चरकसे ।

नींबकी छाल ७ दिन घिस घिस पीवै तो पेटकी
 पीडा पांसुलीकी पीड़ा कटिकी पीड़ा सब मिटै ॥

ऊर्ध्ववायुका उपाय मनोरमासे ।

तगरका मूल छांछसेती घिस घिस २१ दिन पीवै
 तो ऊर्ध्ववायुकी पीड़ा जाय देहमें सुख होय ॥

वायुको काथ लोलिवराजसे ।

असगन्ध शतावरि रास्ना रेवासनके फूल इन
 चार औषधोंका काढ़ा करै अरंडका तेल मिलायकर
 पीवै वायु संधानकी पीड़ा जाय ॥

वातरक्तको काथ योगसतसे ।

अडूसा गिलोय किरमाला तीनोंको बराबर
 ले काढ करै पीछे अरंडका तेल मिलाय पीवै तो
 सब वायु दूरि होय ॥

कंपवायुका उपाय वृन्दसे ।

पारा २ टंक हरताल बुगदादी ४ टंक मैन्शिल ३ टंक तज १२ टंक तेजपात १२ टंक छोटी इलायची १२ । टंक नागकेसरि १२ टंक सब औषधोंके बराबर सोनामक्खी ले यह सब औषध कूट छान आकके दूधसेती बहुत महीन पीसै एक कपड़ा बहुत वारीक सफेद लैके यह औषध कपड़ेमें लेप करै पीछे उस कपड़ेकी बत्ती करै फिर पांच पैसाभर कडुवे तेलमें बत्ती भिगोकर बत्तीके शिरपर लोहेका तार बांधदे तारको कपड़ेमें बांधिदीजै पीछे नीचे पीतलका अथवा तांबेका बर्तन धरिये उस कपड़ेकी बत्तीको अग्निमें लगायके ज्यों ज्यों बत्ती जले त्यों त्यों बत्तीमेंसे तेल टपकै जब बत्ती सब जलचुकै तब बत्तीका तेल शीशीमें धरै पीछे गायके दूधमें तेलको मिलाय मर्दनकरै तथा एक रत्ती तेल गायके दूधमें खाइये वायुकी वस्तुको न खाय तो मस्तक हाथ पेट आदिसब शरीरका कंप जाय ॥

कंपवायुको अवलेह ।

हल्दी हींग सोंठि वच अजवाइन मिर्च पुष्करमूल सोये-

केबीज अजमोदा ये सब औषध पीस छानकर २ टंक गोघृतमें २ टंक चूर्ण मिलाय अवलेह कर चाटे तो कम्पनवायु दूर होय ॥

पुनः कंपवायुको अवलेह वृन्दसे ।

लहसुन १ सेर पुरानी खांड १ सेर गायका घृत आधसेर तीनों वस्तुको मिट्टीकी श्रेष्ठ हांडीमें रखे मुंहपर ढकनी दे गहूँके भीतर हांडी ७ दिन रखे आठवेंदिन काढ़ने पीछे २ पैसाभर प्रभातको नित्य एकमर्हानैतक खाय तो कंपनवायु जाय सब तरहका वातरोग दूर होय ॥

रांधन वायुका उपाय वृन्दसे ।

भूसली स्याह पीपरी असगन्ध सोठि सिंहाड़ा गोंद बेलगिरी मिथी यह औषध १ पैसाभर लीजै इन औषधोंको कूट चूर्ण करे २ पैसाभर चूर्ण पैसाभर गायकै घृतसे मिलाय अवलेह कर खाय रोग जाय ॥

संधान वायुका उपाय आत्रेयसे ।

आंवले २ पैसाभर पानीमें भिगोय राखे पीछे प्रभात समय रस काढ़कर पीवै १४ दिनतक मूंगकी दाल रोटी खाय सन्धानवायु कब्जवायु रुधिर विकार इतने रोग जाय ॥

ग्रंथि वायुका उपाय मनोरमासे ।

हल्दी सोंठि पीपरी सरजरस अरंडका तेल गरम

करके गांठिके ऊपर ७ दिन लगावै गांठि दूरिहोय ॥
इति वायुचिकित्सा ॥

अथ वारतक्तनिदान वृन्दसे ।

शरीर विषे आलस्य होय शरीर विकल रहै चित्त उदास रहै गोड़ा सांथल पेट गला हाथ पैर इतनी जगह शून्यता होय मंडल चकत्ता होय इतने लक्षण मिले तो वातरक्त का दोष जानिये ॥

वातरक्तको चूर्ण वृन्दसे ।

गूगुल गिलोयका सत २ टंक दोनोंके चूर्णको १ महीना ताई फंकी लीजै अलोना भोजन करै नोन हींग तेल यह नहीं खाना वातरक्त दूरि होजाय ॥

अन्य उपाय वातरक्तका वैद्यविनोदसे ।

गिलोय धनियां सांठि अरंडकी छाल यह औषध कूटकर पुडिया ६ टंककी बांधै एक पुडिया प्रभात एक संध्या को गरमपानीसे १ मासताई खाय वातरक्तका नाश होय ॥

वातरक्तका काढा वैद्य मनोत्सवसे ।

त्रिफला नींबू मजीठ कुटकी वच इन्द्रायण दारुहर्दी यह सब औषध सममात्रा ले काथ करना वातरक्तवाले पुरुषको १४ दिनतक पिलावे तो वातरक्त जाय ॥

वातरक्तको चूर्ण वृन्दसे ।

मुलेठी सारिवा राल जामुनकी छाल इन औष-
धोंका चूर्ण करिये अरण्डके तेलसों पीवै वातरक्त
दूर होय ॥

वातरक्तको उपाय योगसतसे ।

शतावारि देवदारु गिलोय अरंडोली अरंडकी छाल
साठीकी जड़ पीपर असगन्ध पीपलामूल सोंठि चिरा-
यता कुर्लोजन यह औषध एक २ पल लीजै पीछे ३
टंक गोघृतसे खाय वातरक्त जाय ॥

वातरक्तको अमृतादिगुगुल चरकसे ।

गिलोय ५६ टंक गुगुल १२८ टंक त्रिफला २०० टंक
इनका महीन चूर्ण करिके इन औषधोंसे तिगुना पानी
लीजै लोहेकी कड़ाहीमें रख नीचे आंच दीजै चौथे हि-
स्सेका काढ़ा आय रहै तब कड़ाही चूल्हेसे उतारि पा-
नीको छान लीजै पीछे उसमें दात्यूणी त्रिकुटा त्रिफला
वायबिडंग तज गिलोय निसोत यह औषध चारि
चारि टंक ले चूर्णकर कड़ाहीमें मिलायदे तब कड़ाही
उतारि कोरे बरतनमें रखदे ३ टंक औषध नित्य
खाय तो वातरक्त दुष्टव्रण प्रमेह भगन्दर आमवात
सोफ इतने रोग जायँ ॥

वातरक्तको सिंहनादगूगुल योग- चिन्तामणिसे ।

त्रिफला बायबिडंग शिलाजीत रास्ना चित्रक सोठि शनावरि दात्यूणी पीपलामूल देवदारु गूगुल गिलोय दारुहल्दी साठिकी जड बड़ी इलायची गजपीपल यह सब औषध एक एक पल लीजै इन सब औषधोंके बराबर गूगुल लीजै सबको कूट छानकर २०सेर पानीमें चार प्रहर भिजोयराखै पीछे कड़ाहीमेंगेरि चढ़ाइदे जब ढाई सेर पानी रहै तब उतारि छानके खाय तो वातरक्त पित्त कोढ़ पांडु सोफोदर नाभिदर्द इतने रोग मिटै ॥

शून्यवहरी व मंडल व कोढरोगोंका स्वर्ण- क्षीर रस योगचिन्तामणिसे ।

चोप ८० टंक दोदो पैसेभरके टुकडे कर छाछमें १ घडी उवाल गरम पानीसे धोय फिर दूधमें १ घडी ओटावे पीछे गरम पानीसे धोवै चौकेकी लकड़ियोंको धूपमें सुखाय ३२टंक लीजे मिर्च और चौकेकी लकड़ी दोनों पीसि काजलसा महीन चूर्ण करिये पारेकी राख १६ टंक मिलायकर अथवा सिंदूररस मिलायदे ताजे जलसेती १ टंक चूर्ण ४९ दिनतक प्रभातको लीजे पथ्य चावल मोठकी दाल दे तो शून्यवहरी मंडल तथा कोढरोग जाय ॥

गलितकोठकी गोली वृन्दसे ।

वायविडंग १६ टंक हडोंकी छाल ३६ टंक आंवले २० टंक निसोत ४८ टंक यह सब औषध कूट छानकर दूने गुड़में मिलाय सुपारीप्रमाण गोली करे गरम पानीसे खाय तो गलितकुष्ठ दूर होय ॥

सफेदकोठको लेप सिद्धसागरसे ।

अच्छी मलंगी ३ टंक पवांडवीज ९ टंक वकुची ९ टंक इनका चूर्ण कर ताजे पानीसे यह चूर्ण ३ टंक दीजे मंडलके ऊपर पवांडजड़ घिस लेप करे दूध चावल खीर खांडके भोजन दीजे होंग नोन खटाई इतनी वस्तु १४ दिनतक नहीं दे सफेदकुष्ठ जाय ॥

चांठाका उपाय सारसंग्रहसे ।

हडोंकी छाल हल्दी यह दोनों बराबर ले भांगरेके रसमें रगड़ चांठाके ऊपर लेप करे लसोढ़ेके पत्ते भांगरेके रसमें पीसकर ऊपर ७ दिनतक बांधिये सफेदकोठ दूर हो ॥

सफेद कोठका उपाय सारसंग्रहसे ।

आककी जड़ छांछियागन्धक हरताल कुटकी हल्दी यह सब औषध सममात्रा ले गोमूत्रमें पीसकर ७ दिन लेप करे चांठा जाय ॥

सफेद चांठा का उपाय अमृतसागरसे ।

नौसादर चिरमठी पलाशपापडा ये औषध टंकटंक

लीजै अफीम ४ टंक इन औषधोंको नींबकी छालके रसमें पीस गौली बांधे ७ दिन चांठाके ऊपर लेप करै तथा १० दिन अलोना खाय सफेद चांठा दाद चकंदा जाय ॥

सफेद चांठाका लेप वृन्दसे ।

मिलावां २४ एक सेर भैसके दूधमें उवाले जब खद-वदाय तब सोठि मिर्च पीपरी हड़ वहेड़ा आंवला एक २ टंक महीन पीसकर मिलाकर गरम गरम ४ वार लेप करै सफेद खाल उतर पड़े देह मिले सब चांठा तुरंत मिटै ॥

सफेद कोठको चूर्ण वृन्दसे ।

वावची चित्रक भंगरा असगन्ध मिलावां यह औषध सममात्रा ले कूट छानकर चूर्ण करै प्रभात समय १ टंक चूर्ण ठंडे पानीसेती लीजै १ पहर धूपमें बैठे २७ दिन-तक औषधका सेवन करै जब सफेद चांठा लाल होजाय तब जानिये कि अच्छा भया ॥

गलितकोठ शून्यवहरीपर हरताल

योगचिन्तामणिस ।

बुगदादी हरताल १६ टंक चूर्ण कर कांजीके जलमें ४ पहर राखिये पीछे हरतालके चूर्णकी पोटली बांधकर ढोलकयंत्र कर पेटेके रस २ सेरमें आटावनी नीचे तेज अग्नि देकर पेटेका रस सब जलादे पीछे मीठे तेलमें ढो-
कारि आटावना फिर त्रिफलेके रसमें १ पहर

औटावना फिर गोमूत्रमें १ पहर औटावना यह हरताल निर्विष हुए पीछे ढांककी राख लाइये हांडीके बीच हरतालकी टिकिया धरिये ऊपर ढांककी राख और दीजै हांडीके ऊपर ढाँकनी दीजिये हांडीके मुंहमें कपडा मिट्टीकी खाम दीजै पीछे धूपमें सुखाय चार पहरकी आंच देकर इसभांति हरताल कमाइ पीछे हरताल कच्चे पक्केकी परीक्षा लीजै लोहा खूब गरम कर चावल २ बराबर हरतालमें धरिये धुआं नहीं निकलै तौ पक्का और धुआं निकलै तौ कच्चा रहा यदि ऐसा होय तौ फिर ढांककी राखमें गरम करे खूब शुद्ध होय तव १ रत्ती हरताल ४ माशे खांडमें ५६ दिन तक देना पथ्य चनेकी रोटी नोन तेल घृत इन वस्तुओंका परहेज रक्खै तौ शून्यवहरी गलित कोठ रुधिरविकार वीमचीदाद इतने रोग जायँ ॥

गलितकोठकी अन्य विधि

योगचिन्तामणिसे ।

हरताल बुगदादी ३ पेसाभर कांजीकी पुट ३ देके धूपमें सुखाइये और १ पुट जँभीरीकी देनी पहर एक पीछे बकरीके दूधसेती हरतालकी टिकिया वांधिये सुखाइये पीछे हांडीके बीच ढांककी राख बिछाय हरतालकी टिकिया धरिये ऊपरसे राख और बिछाइये

पीछे हांडीके मुखपै कपड़ा ले गाढ़ी मुद्रा दे धूपमें सुखाय पीछे अरने उपलेकी गजपुटमें आंच दीजै शीतल होय तत्र काढ़ले लोहा गरम करे चावलभर हरताल गरम लोहेपर गेरदे जो धुआं नहीं निकलै तौ शुद्ध है और धुआं निकलै तौ अशुद्ध है यदि अशुद्धहो तो फिर ढाककी राखमें शुद्ध करिये ४९ दिन तक सेवन करै पथ्य चावल चना मोठ खानेको दीजै खारा खट्टा नहीं दीजै सब कोठ दूरि होयँ शरीर सोनेकासा होय जो कदाचित् हरताल गरमी करै तौ मिश्रीका शर्बत पिलाइये रुधिरविकार रहने न पावै ॥

खाजुकोठको लेप वैद्यमनोरमासे ।

पलासपापड़ा पीसके नीबूके रससेती लेप करनेसे खुजलीकी हानि होय ॥

पुनः खुजलीकोठको लेप मनोरमासे ।

पवांडवीज ३ पैसाभर मेहँदी ३ पैसाभर कडुवा तेल सात पैसाभर आकका दूध ४ पैसाभर गोमूत्र सेरभर सत्र चीजें मिलाय ७ दिनतक दूधमें रखदे शरीरमें मर्दन करे खाजुकोठ दाद जायँ ॥ यह सिद्धयोगकहाहे ॥

ऊस्तम्भके लक्षण साधवनिदानसे ।

रोम खड़े रहें मुखमें उवाकी रहें जांघ पैरमें शूल होय

कंठ विषे कफ होय ऊरुस्तम्भके इतने लक्षण कहे हैं ॥

अथ ऊरुस्तम्भको काथ वृन्दसे ।

पीपरि सोंठि गुग्गल शिलाजीत गोमूत्रमें यह दवा-
ई पीस पिलावै अथवा दशमूलका काढ़ा पिलावै
ऊरुस्तम्भ दूरि होय ॥

अथ ऊरुस्तम्भको अवलेह वृन्दसे ।

त्रिफला कुटकी चाव पीपलामूल इनका चूर्ण सम
मात्रा ले शहदमें चाटे ऊरुस्तम्भ रोग दूरि होय ॥

ऊरुस्तम्भको चूर्ण वैद्यमनोरमासे ।

भिलावा दशमूल देवदारु सोंठि हड़ गिलोय यह
सब औषध वरावर ले चूर्ण कर ताजे पानीसे पि-
लाइये ऊरुस्तम्भ रोग जाय ॥

पुनः ऊरुस्तम्भको चूर्ण शार्ङ्गधरसे ।

पीपरि शहद संग चाटै ऊरुस्तम्भ जाय अथवा
गुड़में मिलाय पीपरि खाय ऊरुस्तम्भ जाय इति ऊरु-
स्तम्भचिकित्सा ॥

अथ आमवातके लक्षण माधवनिदानसे ।

दुष्ट भोजनसे मन्दाग्निसे चिकने भोजनसे बहुत
भोजनसे चलनेसे वायु विकारसे मैदाकी वस्तुसे
आमवात उपजै ॥

पुनः लक्षण ।

हाथ पैर मस्तक गोड़ इतनी जगह सूजन होय दाह होय शूल होय पसेव होय छर्दि होय भ्रम होय इतने लक्षण आमवातके कहे हैं ॥

अथ आमवातको चूर्ण वृन्दसे ।

हड़का चूर्ण २ टंक अरंड तेलमें नित्य दीजै ७ दिन तक आमवात दूरि होय ॥

पुनः पंचकोल चूर्ण वृन्दसे ।

सतुवासोंठि कांजीके साथ प्रभात पिलाइये आमवात जाय ॥

पुनःपंचकोल चूर्ण वृन्दसे ।

पीपरि पीपलामूल चाव चित्रक सोंठि इनको सममात्रा ले चूर्ण करिये गरम पानीसे दे आमवात दूरि होय ॥

अथ आमवातको व कोठ व कुब्जको व पंगुको रसोतपिंड वृन्दसे ।

लहसुनकी गिरी १६पल काला तिल ८पल ये दोनों गौकी छाछमें पीसिये चार पहर भिगोय रखिये पीछे चूर्ण धूपमें सुखाय इतनी वस्तु और मिलाइये त्रिकुटा चाव चित्रक धनियां अजमोद इलायची गजपीपरि पीपलामूल तज जीरा डांसरा इतने औषध एक एक पल लीजै मिथी ८ पल लीजै इन सबको पीस

चूर्ण कर पिलाइये एरंड तेलके साथ दीजै अथवा मदिरासे अथवा गरम पानीसे दीजै गुदाकी पीडा योनिपीडा हृदयके रोग संधानपीडा आमवात कोढ़ रसोत पिंड इतने रोगजायँ ॥

अथ आमवातको चूर्ण वृन्दसे ।

हडै सोंठि अजवायन इनका चूर्ण गौतकमें पीवना आमवात दूरि होय ॥

आमवातपर काथ ।

गिलोयका रस एरंडकी छाल देवदारु अमलतास चित्रक इनका काढ़ा दिनमें ३ वार दे तो आमवात कटिपीडा पसुरीकी पीडा इतने रोग जायँ ॥ इति आमवायुचिकित्सा ॥

अथ शूलनिदान माधवनिदानसे ।

स्त्री संगतिसे बहुत पानीपीनेसे रातके जागनेसे सूखा अन्न खानेसे शीतसे शोकसे वीर्यके बँधेसे पेशाबके बँधेसे वायुके विशेषसे मोहके होनेसे धातुकी क्षीणतासे ॥

आमशूल व वायुशूलका लक्षण ।

कफ वायुके दोषसे अंग विषे शूल उठे श्वास कास होय मूच्छा होय उवाकी होय बहुत तृषा होय ॥

शूलका उपाय वृन्दसे ।

सोंठि १। पैसाभर कालानोन १। पैसाभर हींग ३। माशे इनका चूर्ण गरम पानीसे दीजै वायुशूल मिटै ॥

(१२०) रामविनोद ।

अथ वायुशूलकी फंकी वृन्दसे ।

त्रिकुटा सेंधानोन हींग सोंचरनोन अनारदाना
यह वरावर ले चूर्ण करै शूलवायुवाले को दीजै
शूलपीड़ा तुरंत जाय ॥

शूलको काठा शार्ङ्गधरसे ।

त्रिकुटा हींग अरंडजड़ कटाइ दोनों गोखुरू साठी-
की जड़ इनका काथ कीजै पीछे पिलावै शूल मिटै ॥

शूलको चूर्ण टोडरानन्दसे ।

अरंडजड़सेंधानोन विड़नोन कचनोन पोहकरमूल
हींग यवाखार वायविडंग अजवाइन ये औषध सममा-
त्रा लीजै इनसे तिगुणी निसोत लीजै चूर्ण करै तथा ३
टंक एरंडके तेल संग लीजै अथवा गरम पानीसे लीजै
शूल वायुगोला घृहा इतने रोग जाय ॥

वायुशूलको काथ वृन्दसे ।

हींग सोंठि अरंडजड़ सोंचरनोन ये चार औषध
सममात्रा ले इनका काठा करै वायुशूल इस काठसे
तुरंत जाय ॥ इति वायुशूलचिकित्सा ॥

अथ पित्तशूलचिकित्सा ।

त्रिफला कूट अमलतास सुरेठी इनका चूर्ण शहद-
के साथ चाटे तौ पित्तशूल दूरि होय ॥

पित्तशूलपर काथ ।

प्रभात नमय आंवलेका रस व मिथी पीवे
शूल जाय ॥

अथ कफशूलचिकित्सा वृन्दसे ।

संधानोन विड़नोन सोंचरनोन पीपलामूल चाव सों-
ठि चित्रक हींग यह औपध सममात्रा ले चूर्ण करै गरम
पानीसे चूर्णरटक खाय कफशूल उवाकी तुरंत मिटै ॥

त्रिदोषको चूर्ण वृन्दसे ।

हींग अरंडकी छाल पोहकरमूल इनका चूर्ण गरम
पानीसे दीजे त्रिदोषशूल जाय ॥

सर्व शूलको चूर्ण ।

सोंठि अरंडकी छाल पोहकरमूल यह औपध सम मा-
त्रा ले चूर्ण करेदमाशे गरमपानीसे ले हियाकी शूल क-
टिशूल पसवाड़ेकी शूल गुल्म एती शूल दूरि होय ॥

सर्व शूलको लेप योगचिंतामणिसे ।

धतूरेका फल कुडाकी छाल कांजीके पानीसेती
गरम कर नाभिपर लेप करे पेटकी शूल मिटै ॥

शूलको अन्य लेप वैद्यमनोत्सवसे ।

सोंठि हींग पोहकरमूल सांवरका तींग यह औपध
गोमूत्रमें पीसि पेटपै लेपकरै पेटका शूल दूर होय ॥

अन्य लेप योगचिंतामणिसे ।

गुजराती एलुवा हल्दी फिटकरी सुहागा विपखपरा
खपरिया नवसादर अरंडके बीज यह औपधें कूट पीस
पानीमें गरम कर पेटपै लेप करै सब शूल नाश होय ॥

अथ वायुगोलाको निदान माधवनिदानसे ।

दुष्ट वायुमें दुष्ट आहारमें गोला पांच जगह होय है गांठ हृदय नाभि पांसुली कटिमें दाहिनी तरफ इतनी जगह वेदना होय ॥

वायुगोलाका लक्षण माधवनिदानसे ।

ताप होय तृषा होय शूल होय कफ होय अरुचि होय दाह होय ये लक्षण वायुगोलाके कहे हैं ॥

वायुगोलाको चूर्ण वृन्दसे ।

चित्रक हींग हड़ सेंधानोन अमलवेत यवाखार अजवाइन यह सममात्रा ले चूर्ण करैरटंक प्रभातके समय गरम पानीसे दीजै ७ दिनतक तो वायुगोला शूल तुरंत जाय ॥

वायुगोलाकी गुटिका वृन्दसे ।

साठीकी जड़ पोहकरमूल दात्यूणी चित्रक कटेली निसोत सांठि वच यह औषध एक एक पल लीजै अमलवेत अजवाइन यवाखार जीरा धनियां मिर्च पीपरि हड़ इतनी औषधें दोरपल लीजै यह सब पीसि छान चूर्ण कर नींबूके रसकी पुट दे गोली रटंककी बांधिये प्रभात संध्या ३गोली गोमूत्रसे खाय दूध घृत ऊपरसे पिलावे तो सन्निपात जाय रक्तगुल्म स्त्रीके होय ॥ गरम पानीसे देना ॥

हिंवादि चूर्ण योगचिन्तामणिसे ।

भूनी हींग चाब सुहागा यवाखार अमलवेत त्रिकु-
टा सोंचरनोन डांसरा सेंधानोन अनारदाना हाहूवेर
पीपलामूल अजवायन समुद्रफेन सफेदजीरा साठीकी
जड पाड़ा हड़ पुष्करमूल जवासा यह औषधें सम
मात्रा लेकर कपडछान करै विजौराके रसकी पुट दीजै
गरम पानीसे यह चूर्ण २ टंक लीजै गुल्म अर्श
संग्रहणीका दोष मिटै ॥ इतिवायुगोला चिकित्सा ॥

अथ हृदयरोगनिदान माधवनिदानसे ।

जिस पुरुषके अग्नि अवल होय और पचै नहीं
अपक रस रहै वायु कफसे पेट बंध होय उसके हृदय-
रोग उपजै ॥

हृदयरोगका लक्षण वृन्दसे ।

तृषा होय दाह होय भ्रम होय शोकहोय अरुचि होय
देह भारीहोय छाती हिया भारी होय, ये लक्षण हैं ॥

हृदयरोगको अवलेह वृन्दसे ।

पुष्करमूल २ टंक चूर्ण कर शहदमें मिलाय ९ दिन
चाटै हृदय रोग जाय ॥

चूर्ण मनोरमासे ।

सोंठि चित्रक इन दोनोंको चूर्ण करै गरम पानीसेती
२ टंक दीजै ७ दिनतक हृदयरोग तुरंत दूरि होय

हिंशुपंचककी गोली चूंदसे ।

होंग पीपरि नोन अनारदाना सोंठि यह सब औषध सममात्रा ले चूर्ण कर नीबूके रसमें पीस गोली छोटे त्रै प्रमाण बांधै प्रभातके पहर १ गोली गरम पानीसे खाय हृदयरोग श्वास कास दूरि होय ॥ इति हृदयरोग चिकित्सा ॥

अथ मूत्रकृच्छ्रको निदान माधवनिदानसे ।

व्यायामसे तीक्ष्ण वस्तुसे रूखे अन्नसे मदिरासे मच्छीके मांससे अजीर्णसे मलविकारसे मैदाकी चीजसे नाटकसे खेदसे इनसे मूत्रकृच्छ्रकी उत्पत्ति होयहै ॥

मूत्रकृच्छ्रके लक्षण माधवनिदानसे ।

वात पित्त कोष करे पेटके ऊपर भार होय पेशावका मार्ग बहुत दुखता होय इन्द्रिशूल होय गुदाका द्वार बंद होय ॥

मूत्रकृच्छ्रका उपाय चूंदसे ।

जिस पुरुषके मूत्रकृच्छ्र होय या मूत्र टपक टपक कष्टसे आता होय उस पुरुषको मिथीका शर्बत पिलाइये और शोरेको नाभिमें भरदे मूत्रकृच्छ्र छूटे ॥

अन्य उपाय वाग्भट्टसे ।

गुड़ हल्दी दोनों बराबर लीजै कांजीसेती पीवे तो मूत्र तुरन्त छूटे ॥

अन्य उपाय ।

शोरा २ टंक यवाखार २ टंक गोमूत्रसे पीवे ३ दिन मूत्रबंध छूटे ॥

अन्य उपाय वृन्दसे ।

पेठेकी गिरीगौका दूध मिश्री यह तीनोंको मिलाकर पीवे मूत्रशंका दूर होय ।

अन्य उपाय वेद्यवल्लभसे ।

वायविडंगका चूर्ण कर शहदमें मिलाय चाटे दिनमें ३ वार मूत्रधारा छूटे ॥

मूत्रबंधको लेप वेद्यवल्लभसे ।

भीमसेनी कपूर २ रत्ती पानीसेती पीसि बत्ती करे इन्दीके छिद्रमें वाती रखिये पेशाब तुरन्त छूटे ॥

अन्य उपाय हितोपदेशसे ।

देसूके फूल उवाल सुहाता डंडीके नीचे बांधे मूत्रबंध छूटे ॥

तथा अन्य उपाय हितोपदेशसे ।

विनालेझी मींगी २ टंक गौके दूधमें पीसि पीवे ताँ मूत्रबंध छूटे ॥

अन्य उपाय योगसतसे ।

इलायची पापाणभेद शिलाजीत पीपरि यह औषध बराबर ले चूर्ण करे यह चूर्ण चावलके धोवनसे पीवे वा गुड़के पागमें मिलाय चाटे मूत्रकुच्छ्र दूर होय

अन्य उपाय योगसतसे ।

हड़की छाल गोखुरु किरमाला पापाणभेद अडूसा धमासा यह सब औषध सममात्रा ले इनका काढ़ा करै शहद मिलाय पीवै अथवा मिश्री मिलाय पीवै तौ मूत्रबंध तुरन्त छुटै ॥ इति मूत्रबंधचिकित्सा ॥

वारम्बार मूत्रआवै तिसका उपाय हितोपदेशसे ।

मिश्री ३२ टक सोंठि २ पलको चूर्णकर चार बार फंफी लीजै मूत्ररोग मिटै ॥

अन्य उपाय ।

सोहेके बीज ४ पल मैदालकड़ी ४ पल मिश्री ४ पल गोद ३ पल घृतसे ४ पलके लडू बांधि खायेसे मूत्ररोग दूरि होय ॥

मूत्राघातका उपाय वृन्दसे ।

त्रिफलाके काथमे मिश्री मिलाय पिलावै मूत्रबन्ध तुरन्त मिटै ॥

अन्य उपाय ।

गोखुरु आँवला इनका काथ करे गुड़ गोरिकै पीवै तौ मूत्रकृच्छ्र मिटै ॥

पथरीयुक्त मूत्रकृच्छ्रका उपाय वृन्दसे ।

अरनी सोठि सहजन गोखुरु पापाणभेद अमल-

तास वरनेकी छाल इन औषधोंका काढ़ा करै ऊपर नोन बुरकाय पि लावै मूत्रकृच्छ्र पथरी मिट इन्द्रीकी चसक जाय ॥

अन्य उपाय वृन्दसे ।

वरनेकी छालका काढ़ा करै गुड़के साथ पीवै वायु पथरी जाय ॥

अन्य उपाय वृन्दसे ।

कुटकी हड़ नागरमोथा पटोलपत्र केलाकन्द अडूसा चन्दन दाख यवाखार इम औषधोंसे दूनी मिश्री लीजै चूर्ण करिये पीछे दो टंक ठंडे पानीसे लीजै मूत्रबन्ध पथरी जाय ॥

अन्य उपाय देवदत्तसे ।

पित्तपापड़ा १६ टंक गायकी छांछसे १४ दिन पीवै इस औषधिसे पथरी निकल पड़े ॥

अन्य उपाय वृन्दसे ।

एरंडकी जड़ ३ टंक २दिन घृतसे पान करै पथरी जाय ॥

अन्य उपाय हितोपदेशसे ।

मूली धूपमें सुखाय पीवै मूत्रकृच्छ्र पथरी जाय ॥

अन्य पथरीका उपाय ।

देवदारु सोंचरनोन तिलोंका खार सतुआसोंठि

इनका चूर्ण कर दूधसे ३० दिन पीवै पथरी जाय ॥
इति पथरीचिकित्सा ॥

अथ प्रमेहनिदान माधवनिदानसे ।

मदिरासे मांससे कफके विकारसे क्लेशसे उष्णतासे
पित्तके क्षीण होनेसे मज्जासे रस आदिकसे बीस
प्रमेह उपजैहैं ॥

बीसों प्रमेहोंके लक्षण माधवनिदानसे ।

दांत जिस पुरुषके भैले रहै हाथ पैरमें जलन रहै
देह सुस्त और आलस्य आवै धातु तुरंत खलास होय
बंधेज थोड़ा होय तृपा थोड़ी होय इतनी बातें
प्रमेहकी कही हैं ॥

बीसों प्रमेहोंके उपजनेका कारण ।

बहुत बैठनेसे बहुत सोनेसे दाहसे मेहके पानीसे
रससे अन्नसे गुडसे पकवानसे मैदाकी वस्तुसे
इतनी बातोंसे प्रमेह उपजै ॥

बीस प्रमेहोंमें दश प्रमेह कफके साध्य हैं, छः प्रमेह
पित्तके कष्टसाध्य है, चार प्रमेह वायुके असाध्य हैं उन
बीसों प्रमेहोंके जुदे जुदे लक्षण कहते हैं ॥

उदकप्रमेहके लक्षण ।

पेशाव निर्मल होय बहुत होय सफेद होय पेशावमें
दुर्गंध नहीं होय पानीसरीखा पेशाव होय उसे उदक-
प्रमेह कहें ॥ १ ॥

इक्षुप्रमेहके लक्षण ।

ईखसा मीठा पेशाव होय. सो इक्षुप्रमेह है ॥ २ ॥

सार्द्रप्रमेहके लक्षण ।

कपड़ा पेशावसे भरा रहै वा धातुसे भरा रहै धोतीमें शरदी रहा करै तिसको सार्द्रप्रमेह कहिये ॥ ३ ॥

सुराप्रमेहका लक्षण ।

सुरा सरीखा पेशाव ऊपरसेती निर्मल नीचे गोलासा जावैठे तिसको सुराप्रमेह कहिये ॥ ४ ॥

पिष्टप्रमेहका लक्षण ।

पिष्ट प्रमेहसे छेदमें कांटा होय आटाके रंग सरीखा सफेदसा पेशाव होय सो पिष्टप्रमेह कहिये ॥ ५ ॥

शुक्रप्रमेहका लक्षण ।

धातुसरीखा रंग पेशावका हो तिसको शुक्रप्रमेह कहिये ॥ ६ ॥

सिकताप्रमेहका लक्षण ।

पेशावकी राह तनक २ रुधिर निकले व धातु निकले तिसके तई सिकताप्रमेह कहिये ॥ ७ ॥

शीतप्रमेहका लक्षण ।

शीत प्रमेहवाले वारम्बार पेशाव करें मीठा पेशाव होय अतिशीतल पेशाव होय तिसको शीतप्रमेह कहिये ॥ ८ ॥

शनैःप्रमेहका लक्षण ।

बारम्बार टपक २ पेशाब उतरै तिसको शनैःप्रमेह कहिये ॥ ९ ॥

लालियाप्रमेहका लक्षण ।

पेशाब लाल छूटै तातसा छूटै चिकना पेशाब उतरै तिसको लालियाप्रमेह कहिये ॥ १० ॥

क्षारप्रमेहका लक्षण ।

जिस पुरुषके पेशाबका गंध खारा होय वर्ण खारा होय स्पर्श खारा होय ऐसा खाराहो जैसा खारा पानी तिसको क्षारप्रमेह कहिये ॥ ११ ॥

नीलियाप्रमेहका लक्षण ।

नीलावर्ण पेशाब होय तिसको नीलियाप्रमेह कहिये १२

कालाप्रमेहका लक्षण ।

स्याही सरीखा पेशाब हो तिसको कालाप्रमेह कहिये १३

हलदियाप्रमेहका लक्षण ।

हलदियाप्रमेहवालेका पेशाब कटुक होय रंग हल्दी-सरीखा होय उसको हल्दीप्रमेह कहैहैं ॥ १४ ॥

मजीठियाप्रमेहका लक्षण ।

मजीठिया प्रमेहवालेके पेशाबमें दुर्गंध होय मजीठियारंग सरीखा पेशाब होय तिसको मजीठिया प्रमेह कहिये ॥ १५ ॥

रक्तप्रमेहका लक्षण ।

रक्त श्याम गरम सलोना ऐसा पेशाब होय यह लक्षण रक्तप्रमेहका कहिये ॥ १६ ॥

वसाप्रमेहके लक्षण ।

वास संयुक्त होय वसासरीखा पेशाब होय यह लक्षण वसाप्रमेहके कहे ॥ १७ ॥

मज्जाप्रमेहके लक्षण ।

मज्जासरीखा पेशाब हो मज्जाकरके संयुक्त होय तथा बारम्बार पेशाब करै इतने लक्षण मज्जाप्रमेहके कहे ॥ १८ ॥

क्षौद्रप्रमेहके लक्षण ।

मीठा पेशाब होय कसैला होय जहां पेशाब करै तहां मक्खी चींटी बहुत आवैं इतने लक्षण मधुप्रमेहके कहे ॥ १९ ॥

हस्तीप्रमेहके लक्षण ।

हस्तीके मदसरीखा पेशाब होय पेशाब बेरबेरमें आवै आलस्य बहुत आवै पेट बंध रहै इतने लक्षण हस्तीप्रमेहके कहे ॥ २० ॥ इति वीसप्रमेहके लक्षण ॥

अथ दश कफप्रमेहके लक्षण ।

परिपाक होय नहीं अरुचि होय छर्दि होय निद्रा होय बहुत कफ होय कफप्रमेहके इतने लक्षण हैं ॥

। अथ छःप्रकारके पित्तके लक्षण ।

आंठोंपै इन्द्रियमें पीड़ा होय दाह होय तृषा होय
ज्वर होय खट्टी उकार आवै मूर्च्छा होय दस्त पतला
आवै इतने पित्तप्रमेहके लक्षण कहे ॥

अथ चार वायुप्रमेहके लक्षण ।

उदावर्त होय कंप होय हिया भारी हो लार पड़े गूल
होय लीं न आवै कंठशोष होय श्वास कास -होय
इतने वायुप्रमेहके उपद्रव लक्षण कहे ॥

वीसों प्रमेहोंका इलाज जुदा २ कहे हैं ॥

छाछियाप्रमेहका इलाज ।

दूध १० टंक जीरा सफेद १० टंक मैदालकडी १०
टंक मूसली स्याह १० टंक मूसली सफेद १० टंक गोखरू
१० टंक यह औषध कपड़छान कर मिश्री १६० टंक
मिलाय ३ टंक नित्य खाइये छाछियाप्रमेह
तुरन्त जाय ॥

मूत्रियाप्रमेहका उपाय ।

शतावर १० टंक गोखरू १० टंक खरेंटी १० टंक
तालमखाने १० टंक साठीकी जड़ १० टंक असगन्ध
१० टंक मिश्री ६० टंक चूर्ण कर नायके घृतसेती १०
टंक नित्य लीजै मूत्रीप्रमेह तुरन्त जाय ॥

कांकरियाप्रमेहका उपाय ।

जलभांगरा १० टंक तिल सेंके १० टंक अजवायन

१० टंक यह सब सम मात्रा ले चूर्ण करे ३ टंक प्रमाण नित्य लीजे कांक्रियाप्रमेह जाय ॥

नोनियांक्षारप्रमेहका उपाय ।

हरड़ १० टंक वहेडा १० टंक आंवला १० टंक हल्दी १४ टंक माजूफल १० टंक मजीठ १० टंक यह औषध पीस छानकर चूर्ण कर ४ टंक शहदमें नित्य लीजे नोनियांक्षारप्रमेह तुरन्त जाय ॥

घृतियाप्रमेहका उपाय ।

गुवार पीस छानकर चूर्ण करे ७ पुट गोभीके रसकी दीजे जितना गुवारका चूर्ण तितनी मिश्री मिलाय ५ टंक नित्य लीजे पानीसे २१ दिन इस चूर्णसेती घृतियाप्रमेह जाय ॥

खारियाप्रमेहका उपाय ।

असगन्धनागौरी १० टंक शतावर १० टंक गोंद १० टंक मेढ्रासींगी १० टंक शिरहाली १० टंक यह औषध २१सेर पानीमें आटावना तीन सेर पानी आय-रहै तब और औषध मिलावना पीछे ७ टंक लेना खारियाप्रेह जाय ॥

नीलियाप्रमेहका उपाय ।

रासना १० टंक इन्द्रायण १० टंक असगन्ध १० टंक आंवकी छाल १० टंक तज २॥ टंक तेजपातर ॥ टंक छोटी इलायची २॥ टंक नागकेसर २॥ टंक यह

(१३४) रामविनोद ।

औषध १० सेर पानीमें उवालना डेढ़सेर पानी रखना पीछे पानी छानलेना १० टंक काथ ४ टंक शहद मिलाय पीना नीलियाप्रमेह जाय ॥

दोषत्रयप्रमेहका उपाय ।

पापाणभेद ५ टंक सँभालूके बीज ५ टंक गोखरू ५ टंक एरंडकी जड़ ५ टंक पीपल ५ टंक इलायची ५ टंक मुलहठी ५ टंक पियावांसा ५ टंक मिथ्री ४० टंक ये सब पीस छान चूर्ण कर ३ टंक प्रभात ३ टंक संध्याको खाय दोषत्रयप्रमेह जाय ॥

मूत्रप्रमेह, हस्तिया प्रमेहका उपाय ।

बड़ी कटाईके फूल १ टंक कालाजीरा १२ टंक कौचके बीज २४ टंक स्याह मूसली १० टंक मिथ्री ४४ टंक यह औषध पीस छान डेढ़सेर गौके दूधमें औषध ४ टंक मिलाय पीबना मूत्रप्रमेह हस्तिप्रमेह तुरत जाय ॥

मजीठिया प्रमेहका उपाय ।

मस्तगी १० टंक मजीठ १० टंक पीपलामूल १ टंक स्याह मूसली १ टंक यह औषध सब चूर्ण करना चूर्ण ३ टंक शहद ५ टंक मिलाय खाना इससे मजीठिया प्रमेह जाय ॥

चपियाप्रमेहका उपाय ।

लनोड़ा २० टंक चित्रक २० टंक भांग २० टंक

कंभारी १० टंक सब कूट छान ३ टंक नित्य खांय
१४ दिनतक चपिया प्रमेह जाय ॥

दधिया प्रमेहका उपाय ।

मारा पारा १। टंक सोंठ २ टंक मिर्च २ टंक चित्रक
२ टंक नागकेसर २ टंक नागरमोथा २ टंक इन
औपधोंको कूट छान शहद मिलाय १० टंककी गोली
करना प्रभात संध्या नित्य खांय इसके खायेसे दधि-
प्रमेह जाय ॥

श्यामप्रमेहका उपाय ।

कीकरके फूल सुखाय कूट छानकर मिथ्री अर्द्धभाग
मिलाय ३ टंककी फंकी लीजै श्यामप्रमेह जाय ॥

जल प्रमेहका उपाय ।

धतूरेके बीज १ टंक कत्था १० टंक पारा ४ रत्ती ७
पानके साथ २१ दिनतक खांय जलप्रमेह जाय ॥

हल्दिया प्रमेहका उपाय ।

हल्दी १० टंक आंवला १० टंक मिथ्री ३० टंक
नित्य ५ टंक लेना इसके खायेसे हल्दिया प्रमेह जाय ॥

लालिया प्रमेहका उपाय ।

आंवला ५ टंक सफेद मूसली ५ टंक कूट ५ टंक
शतावर ५ टंक हल्दी ५ टंक कौंचके बीज ५ टंक मिथ्री
६० टंक इन औपधोंका चूर्ण गोघृतमें मिलाय ४
अवलेह कर खांय लालिया प्रमेह जाय ॥

(१३६) रामविनोद ।

तेलियाप्रमेहका उपाय ।

चना पीस सुखाय ५ टंक चवाना तेलिया प्रमेह जाय ॥

चलप्रमेहका उपाय ।

बंग ६ टंक तामेश्वर ३ टंक पारा ३ टंक सार ३ टंक
मिरच ३ टंक जायफल ३ ॥ टंक लवंग २ टंक इला-
यची २ टंक अकरकरहार २ टंक असगन्ध २ टंक गज-
केसर २ टंक मिश्री ४० टंक शहदके संग १ टंककी
गोली करै खारा खट्टा त्यागदे चलप्रमेह जाय ॥

रक्तिया प्रमेहका उपाय ।

भारवरी १० टंक वहेडा १० टंक आंवला १० टंक
मजीठ १० टंक माजूफल १० टंक यह सब औषध पीस
छानकर पीछे ५ टंक शहदमें मिलाय अवलेह कर
चाटना रक्तप्रमेह जाय ॥

रक्तप्रमेहको अवलेह वृन्दसे ।

मजीठ माजूफल गोखुरू मस्तगी गोंद सिरस त्रिफ-
ला यह सब औषध सममात्रा लीजै कूट चूर्ण करै ५ टंक
शहदमें मिलाय प्रभातसमय खाय रक्तप्रमेह दूर होय ॥

हृदिया प्रमेहका अन्य उपाय वृन्दसे ।

नींबकी हरी छाल कूट रस काढ़लेना उतनाही शहद
लेना दोनों चीज ९ टंक प्रभातको लेना हृदिया प्र-
मेह जाय ॥

कांकरियाका अन्य उपाय ।

पलाशपापड़ा कूट चूर्ण करिये अर्द्धभाग मिश्री मिलाइये ३ टंककी फंकी लीजै कांकरिया प्रमेह जाय ॥

गुहियाप्रमेहका उपाय वृन्दसे ।

घृत १पैसा भर खांड (चीनी) २पैसा भर चावलके मांडमें मिलाय लीजै कांकरिया गुहियाप्रमेह जाय ॥

। सर्व प्रमेहोंको लवंगादि चूर्ण योग-
चिन्तामणिसे ।

लवंग त्रिकुटा सफेद चन्दन नागरमोथा खस छोटी इलायची अगर काला वंशलोचन असगन्ध शतावर गोखरू जायफल मिलोय निसोत तगर नाग-केसर कमलगट्टा इन औषधोंके बराबर सफेद मिश्री मिलावै ३टंक प्रभातसमय लीजै बीसो प्रमेह दूर होय ॥

तथा चन्दकला गोली योगचिन्तामणिसे ।

सार ३टंक जायफल लवंग जावित्री छोटी इलाय-ची अकरकरहा दालचीनी त्रिकुटा केसर चीता अस-गन्ध नागौरी शतावर गोखरू यह सब औषध एकर कर्प लीजै मिश्री २५ कर्प लीजै खरल करे गोली २ टंककी बांधै संत्रस सबेरे गोली खाय बीसों प्रमेह जाय ॥ इति प्रमेहचिकित्सा ॥

अथ मेदरोगनिदान माधवनिदानसे ।

दिनके बहुत सोवनेसे वाकफसे गरिष्ठ भोजनसे बहुत चिकने आहारसे दूधसे दहीसे अतिमीठेसे इतनी बातोंसे मेदरोग उपजै उदर बँधै देह पुष्ट होय ॥

मेदरोगके लक्षण ।

पेटके रोगके विषे वायु होय हाथ पैर अति गरम और जीभ गला अति रूखे हों भोजन पचै नहीं ॥

मेदरोगको चूर्ण वृन्दसे ।

कुटा जीरा सफेद चाव हीग सांचल चित्रक यह सब औषध कूट छानकर प्रभात जलसेती पीवै मेदरोग जाय ॥

मेदरोगको अवलेह वृन्दसे ।

त्रिकुटा त्रिफला लोहचन यह सब औषध शहद मिलाय कुटकीके रससेती पीवै मेदरोगको नाश होय ॥ इति मेदरोगचिकित्सा ॥

वातोदर पित्तोदर कफोदरका निदान ।

पेटके चलनेसे अजीर्णसे मलके संचयसे वात पित्त श्लेष्मके विकारसे उदरके विकारसे होय हैं ॥

वातोदरलक्षण माधवनिदानसे ।

जिस पुरुषके वातोदर होय उसका पेट बहुत रूखे पेट

बहुत बोलै गल २ करै ज्वर मृच्छा अतीसार दाह
होयै ये वातोदरके लक्षण कहे ॥

जलोदरके लक्षण ।

पानीकी मटुकी समान पेट होय भूख लगै नहीं अन्न
की अरुचि होय ये जलोदरके लक्षण हैं ॥

कठोदरके लक्षण ।

पेट बहुत कठोर होय अन्न भावै नहीं यह महा
असाध्य है चतुर वैद्य हाथ न लगावै उसका उपाय
निष्फल जावे ॥

सोफोदरके लक्षण ।

श्वासहोय कफहोय अरुचिहोय पेटमें व्यथा बहुतहोय ।

वातोदरका उपाय वृन्दसे ।

पीपल नोन छांछसे पिलाइये वातोदर दूरि होय ॥

प्लीहरोगको चूर्ण ।

अजमोद चित्रक जवाखार टंकणखार संगमरमरका
चूना यव अतीस सेंधानोन पीपलामूल सोंचरनोन सां-
भरनोन पुष्करमूल अणी हीग अमलबेत वायविडंग
इन्द्रायण हरड़ हाहूवेर वर्ना पाढ़ यह सब औषध सम-
मात्रा लीजै इनको कूट छान चूर्ण करै सहिजनके रस-
की ३ पुट दीजै पीछे विनोलेके रसमें ३ पुट दीजै पीछे
सुखाइये फिर गरम पानीसे ३ टंक लीजै व मदिरासे
लीजै दुष्ट छुड़ा जाय ॥

प्लीहा वायुगोलाको अवलेह ।

ढाँककी राख जवाखार नोन तिलकी लकड़ीकी राख ३ टंक सबका चूर्ण घृतके संग अवलेह कर खाय तो प्लीहा वायुगोला दूर करै ॥

सोफोदर चूर्ण वाग्भट्टसे ।

सांठीकी जड़ पाढ़ हड़ सोंठि गोखरू दारु हल्दी अजवायन पीपल चित्रक बड़ी कटेली सब दवाई बराबर ले इनका चूर्ण करै गायकी छांछमें ५ दिनतक खाय तो शूल सोफोदर पांडुरोग मिटै ॥ इति सोफोदर चिकित्सा ॥

सोजाका उपाय चन्द्रसे ।

सोंफ अरंडकी छाल सांठीकी जड़ शालिपर्णी पृष्ठीपर्णी बड़ी कटेली छोटी कटेली गोखरू गिलोय इन सब औषधोंका चूर्ण कर गरम पानीसे पीवे वायुगोला दूर होय ॥

पित्तसोजाका उपाय चरकसे ।

देवदारु सांठीकी जड़ सोंठि इनका ३ टंक चूर्ण गायके दूधमें पिलावे समस्त शरीरका सोजा जाय ॥

अथ त्रिदोष सोजाको चूर्ण ।

पीपलपाढ़ गजपीपल चित्रक पीपलामूल सोंठि कटेली नागरमोथा हल्दी जीरा इनको सममात्रा ले चूर्ण करै ३ टंक गरम जलसे खाय सर्व सोजा जाय ॥

अन्य उपाय ।

सांठीकी जड़ देवदारु सोठि यह सब सममात्रा लीजै काथ कर पीवे सर्वप्रकारका सोजा जाय ॥

वायुसोजाका उपाय योगचिन्तामणिसे ।

चन्दन दोनों मुलेठी पद्माक कमलगह्वा खस नेत्र बाला सँभालूकी जड़ इन सबका चूर्णरटक पानीसेती लीजै वायुसोफ दूर होय ॥

जलोदर कठोदरका इलाज ।

बहेडा आंत्रला सफेद जीरा स्याह जीरा कूट सेंधानोन सोंचरनोन सुहागा जवाखार वायविडंग सांभरनोन कचनोन पाढ़ मुलेठी सज्जी लोटक त्रिकुटा चित्रक जवासा जमालगोटा सोवेके बीज कचूर चीड़ नवसादर एरंडके मूलकी छाल शोरा जायफल पीपलामूल अजवाइन फिटकरी हींग लवंग जावित्री अकरकरा अजमोद इलायची एलुवा यह सब औषध सममात्रा लेकर चूर्ण करिये अमलवेतमाह भरिये अमलवेत धूपमें सुखाइये पीछे पीसकर चूर्णरटक गरम पानीसे दोजै प्रभातके समय खाय जलोदर कठोदर वातोदर पित्तोदर सोफोदर वायुगोला पथरी वायुकी गांठ इतने रोगोंको जीते । धन्वन्तरिने यह उपाय बताया है

जलोदर कठोदरको चूर्ण योगर्चितामणिसे ।

लोहाचूर्ण विडंग हड़ बहेड़ा आंवला त्रिकुटा जवा-
खार यह सब वस्तु १० तोले लीजै शहद १० तोले गुड़ ६०
तोले यह औषध कूट छान शहदमें मिलाय १० टंक
नित्य खाय कठोदर घृहा इतने रोग जाय ॥ इति
जलोदर कठोदर वातोदर सोफोदरकी चिकित्सा ॥

अथ पेटके बीच मांस गोंद मैदाकी

वस्तु केलाकी चिहटका इलाज

अजीर्णमंजरीसे ।

पेठाकी गिरी ४ टंक १४ दिन तक प्रभात दीजै मांस-
की चिहट मिटै पेटका दुःख दूर होय ॥

पेटकी लागको लेप वृन्दसे ।

सरसो वा बकरीकी मँगनी छाँछसेती पीस गरम
करके पेटपै लेप करै मांस और अन्नकी गांठ मिटै
अन्नका दर्द पेटमें होय तो मिटै ॥

अथ उपदंश फिरंगमें निदान ।

बुरी स्त्रीके पास जाय अथवा कपडोसे होय तब जाय
व्यभिचारिणीसे वेश्यासे वृद्धा स्त्रीके सेवनसे उपदंश-
वालेके संगसे गरम वस्तुसे वात पित्त कफके कोपसे
। वातो कफके फिरंगवायु उपदंश उपजैहै ॥

अथ उपदंशका लक्षण ।

ताप होय भूख थोडी लगे इन्द्री और जंघा और मुखपर गुमडी पीली होय इन्द्रीपै सीवनमें चींटीसी लगे गरमी बहुत लगे, ग्लानि गूमडियोंकी रहै इतने लक्षण उपदंश फिरंग वायुके हैं ॥

उपदंश फिरंगवायुकी गोली योगचिंतामणिसे ।

सुरासानी अजवायन १॥ टंक मेथी २ पल गूगल २ पैसाभर गुड़ २ पल सार १ टंक यह औषध सब पीस गोली करै २ टंककी गोली १ संध्या १ प्रभात नित्य स्वाय दिन ११ तक तो फिरंगवायु उपदंश जाय ॥

उपदंशपर गोली और काथ ।

इन्द्रायणकी जड़ ३ पैसाभर मिर्च ३ पैसाभर यह दोनों पीसकर इसकी दो दो पैसाभरकी पुडिया करै एक एक पुडियाके साथ तीन तीन पाव पानी कोरी हांडी बीच उवालना गुड़ एक एक पुडियाके साथ दो दो पैसा भर देना कंडीकी आंच देना पाव १ आय रहैतब छानना गरमीवाले पुरुषको पिलावै झाडा लगे फोडा उपदंश बहुत दिनोंका गरमी मेंवाडा फिरंगवायु जाय ।

उपदंशकी टांकीकोलेपवाग्भट्टसे ।

सुरदारशांख पैसाभर राल ४ पैसाभर घीसे मलहम करै ऊपर टांकीके लगावै टांकी तुरंत अच्छी होय ॥

उपदंशकी धूनी वृन्दसे ।

आकको जड़ हीगलू हुलहुलके बीज अकरकरा यह औषध कूट ७ दिनतक धूनी दीजै तो उपदंश दूर होय इति फिरंगमेवाड़ा चिकित्सा ॥

अथ व्रणका लेप ।

कमीला घरका घमासा मिर्च हल्दी सुहागा सुपारी कौडीकी गख आकके पीले पतेकी राख कडुवे तेलसेती व्रणपै लेप करै सब जातिका व्रण जाय ॥

व्रण फोडाटांकीका उपाय योगचिकित्सासे ।

सिंदूर राल हल्दी देवदारु कमीला सुहागा सजी सोना मक्खीमैनशिल घोडेकी डाढ जलारखिये धावेके फूल यह औषध पीस गायके चार पैसाभर घीमें ४ पैसाभर मोम २ पैसाभर पकायकर पीछे यह औषध पीस गोरिये ठंढी कर पानीमें ४ बार तथा ५ बार धो फोहापै लगाय व्रण ऊपर धरिये व्रण टांकी दूर होय ॥ इति फिरंगवायुकी टांकीका इलाज ॥

अथ कीडीनगराकी औषध ।

नवसादर संभलखार नीलाथोथा नींबूके पत्ते चूना बाजरकी कड़वीकी राख जुवारकी जड़की राख सज्जी यह औषध सममात्रा लीजै जलसेती पीसिये कीडीनगराके ऊपर धांधिये ७ दिन

तक यह उपाय करे पीछे नींबूके पत्तेको ऊपर बांधि
कीड़ीनगरा विषकंटा जाय ॥ इति कीड़ीनगरा
विषकंटाचिकित्सा ॥

कण्डूका उपाय ।

सजी नीलाथोथा नींबूके पत्ते अनारके पत्ते सिंदूर
सुहागा कवीला ढाकका गोंद यह सब औषध पीस
थालीमें गायका माखन गेर तांबेसे रगडै पीछे खज-
पर दिन १५ चुपड़िये कण्डू जाय ॥

अन्य उपाय ।

सीसेके पत्र एक एक कराइये सांपकी कांचली उस-
में मिलाइये कपडेसेती गांठ बांधके राखंकर तेलमें गेर
लेप करे कुष्ठ सब दूर होय मिद्धयोग है ॥

गंडमालाकी चिकित्सा सुषेणशास्त्रसे ।

चोवा सजी मिरच चिरमटी हल्दी दारुहल्दी नोनं
यह औषध पैसा २ भर लीजै कूट छानंकर मीठातेल
पैसा २० भर लीजै तिस तेलको पकाय गरम तेलमें
औषध गेरदे पीछे चिकने बरतनमें रखिये गंडमालाकी
गांठपै यह तेल लगाइये विसर्प रोग जाय ॥

विस्फोटक विसर्प इलीपदको लेप योगचिन्तामणिसे ।

नदीकी सीप ५ पैसाभर जलाय आकके दूधमें
पीस लेप करे छादनं वायु जाय ॥

कंठमालाको लेप शार्ङ्गधरसे ।

पेठेके बीज इन्द्रायणके फलकी गिरी कनेरकी जड़ नागरमोथा हीराकसीस ककोड़ाकी जड़ चन्दन सुरख मीठा मोहरा यह औषध बराबर ले कडवे तेलमें पकाइये पीछे ठंढा कर गंडमालापै लगाइये २१ दिनतक असाध्य गंडमाला जाय ॥ इति गंडमालाचिकित्सा ॥

अथ दभूतरोगका लक्षण माधवनिदानसे ।

ग्लानि होय शरीरमें सब जगह खुजली हो तृषा बहुत होय यह लक्षण दभूत रोगके हैं ॥

दभूतरोगका उपाय योगचिन्तामणिसे ।

दारुहल्दी हरताल शंखभस्म देवदारु मूलीके बीज नागरवेलके पानका रस मिलाय शरीरपै धूपमें बैठके ७ दिनतक लेप करै दभूतकी खुजली दूर होय ॥

अन्य उपाय वैद्यवल्लभसे ।

हल्दीकी गांठ ले पकेहुए इन्द्रायणके एक फलमें गेरू १ पहर अरनेकी आंच दीजे कपड़मिट्टी कर खाम दीजे पीछे भस्म करना फिर दभूतपर लेप करै ७ दिन सब दभूत जाय ॥ इति दभूतचिकित्सा ॥

मुखछायाका उपाय योगचिन्तामणिसे ।

रक्तचन्दन कृट मजीठ हल्दी दारुहल्दी आम्रबौर

पवांडूके बीज केसर वड़की जड़ यह सब औषध सम-
मात्रा ले कपड़छान कर चूर्ण करना जलसेती मुखपै ८
तथा १० बार मसलनेसे मुखछाया दूर होय ॥

अन्य उपाय मनोरमासे ।

पीपलकी लाख और वेरकी मींगी नांबूके रससेती
१४ दिनतक मुखपै लेप करै तो मुखछाया जाय ॥ इति
मुखछायाचिकित्सा ॥

मुखपाककी औषध योगशतसे ।

त्रिफला मुनक्का गिलोय दारुहल्दी जवासा चमेली-
के पत्ते इनका जोशान्दा करना तीन पाव पानी चढ़ाव-
ना पावसेर आयरइ तब प्रभातसमय और सांझसमय
दोनों वक्त कुल्ला करना मुखछाला दूर होय ॥

मुखपाककी वटी अमृतसागरसे ।

खैरसार मुर्दारसंग छोटी इलायची वंशलोचन शीत-
लचीनी सफेद चन्दन ववाशीर साँफ गुलावके फूल मि-
श्री सफेद यह सब औषध पीस छानकर गुलावजलसे
गोली बाँधिये झड़वेरप्रमाण पीछे छालावाले मुखमें
पुरुष संधानमक मिरच पीसि मुखमें गेरे जब छालेमेंसे
लार निकले तब पीछे कुरला कर गोली गेरे चाहे जैसी
गरमी होय सब शान्त होय ॥ इति मुखपाकचिकित्सा ॥

गल रोगकी गोली योगशतसे ।

रसोत पाढ़ तेजवल हल्दी पीपल यवाखार देवदारु

यह औषध सममात्रा ले पीसछानकर शहदमें गोलीबोंधे झड़वेरप्रमाण छायामें सुखाय मुखमें रखिये रस चूसिये गलपीड़ा सब दूर होय ॥ इति गलरोगचिकित्सा ॥

नहरुवाका उपाय ।

केसूलाके फूलकी गुड़में ७ गोली करै सूर्यके निकलते गोली सब निगल जाय नहरुवा दूर होय ॥

नहरुवेका मंत्र ।

ॐ नमो आदेश गुरुकी वामन कोठी योगी हुआ तोड़ जनेऊ नहरुवा किया पके न फूटै श्रीवीरियांनाथ की आज्ञा फुरै ॐ ठः ठः ठः स्वाहा । आदित्यवारकी रात्रिको कौरी कन्यासे पूनी २॥ कताइये सूत्र तार नव लेना गुडकी नव गोलीमें एक एक तारसात सात बार आंकिये आदित्य वारको सूर्य निकलते गोली नवो निगलजाय तो नहरुवा जाय ॥

अन्य उपाय

हींग १॥पैसा भरकी पुडिया ३वाँधिये पावसेर दहीमें पुडिया १ मिलाकर खाय ३ दिनके भीतरही नहरुवा भस्म होय पीड़ा दूर होय ॥ इति नहरुवाकी चिकित्सा ॥

अथ गजचर्मको तैल योगचिन्तामणिसे ।

धूदर चित्रक भंगंग कुड़ाकी छाल सेंधत्र सांभरकच विड़ सांभर यह पांचांनोन आककीजड यह मव दवाई

पांच पांच टंक ले पीसकर गोमूत्रमें भिजोवै ४ दिन-
तक १२ पैसाभर तेलमें गेर औषध पकाय पीछे छान-
कर धूपमें बैठकर शरीरमें तेल मर्दन करै गजचर्म
बीमची खाज दाद सत्र दूर होय ॥

लेप योगशतसे ।

हड़ सेंधा पवांड कूट दूबका रस कांजी यह सब
चूर्ण कर कांजीसे अथवा छांछसे मर्दन करै दाद खाज
दूर होय ॥

अथ कंडूदाफड़को तेल योगशतसे ।

गूगुल नीलाथोथा सिंदूर रसौत मैनशिल दो २ टंक
लीजै कडुवे तेलमें पकाय लगाइये खाज फुन्सी दूर
होवें । इति चिकित्सा ॥

अथ नासूर चिकित्सा ।

स्यारकी विष्टा सजी चूना मनुष्यका हाड़ बकरीका
हाड़ चोप इन औषधोंको बराबर ले दोनों हाड़ ज-
लाले शहदमें मलहम कर बत्ती बनाय १४ दिनतक
नासूरमें देदेना नासूर तुरन्त मिटै ॥

मलहम चिन्तामणिमतसे ।

धतूरेकी जड़ आककी जड़ नागरमोथा गूगुल राल
मुर्दारसंग कमीला कत्या सुहागां तेलिया यह सब
बराबर पीस छान गऊका घृत गरम कर मिलाय

पीस छानकर मलहम करै पीछे नासूरमें भरिये नासूर
बादी टांकी सब दूरि होय ॥

पुनः मलहम ।

भैसका सींग जलायकर राख लीजै मक्खनमें
मिलाय मर्दन करे नासूरके ऊपर लगाइये छिद्र तुरंत
मिटै ॥ इति नासूर चिकित्सा ॥

अथ वगलगन्धका उपाय योग-
चिन्तामणिसे ।

मोहरा चिरमटी नीलाथोथा सिंदूर नवसादर यह
सममात्रा पीस वगलमें लेप करै वगलगन्ध दूर होय ॥

अन्य उपाय ।

गूगुल इमलीके बीज दोनो पानीसेती लेप करै तो
वगलगन्ध जाय ॥

अथ मस्सा रसोलीका उपाय योग-
चिन्तामणिसे ।

सजी चूना कलीका पीस पानीसेती मस्सेके ऊपर
लेप करै तो मस्सा जाय ॥

अथ वायुगांठका उपाय जैजूड़ग्रंथसे ।

पुष्करमूल कृट मिरच संधवनोन हल्दी यह सब
औषध पीस वारीक पानीसेती वायुगांठपै लेप करै
सब वायुगांठ दूर होय ॥

अथ कानके रोगका उपाय योगशतसे ।

सोंठका रस सेंधवनोन चिरौंजी कटुकतेल यह सब औषधश्वारकानमें निचोड़िये कानकी पीड़ा दूर होय ॥

अन्य उपाय योगशतसे ।

नींबूके रसमें सजी धिसकर कानमें गेरे तौ कानकी पीड़ा जाय ॥

कानमें जानवर होय तिसका उपाय वंगसेनसे ।

देवदारु वच हड़ धीकुँवारके रससेती पीस तेलमें पकाय कानके बीच गेरिये कानका दुःख तुरन्त मिटे ॥

वहरेका उपाय ।

हल्दी ९ टंक पीपल ९ टंक सोंठि ५ टंक धीकुँवार ५ टंक आण्डोली ५ टंक आकके फूल ३ टंक शहद १० पैसाभर गायका घृत ६ पैसाभर सब पीस इकट्ठा कर चिकनी हाँडीमें रखिये शुभ दिन देखकर खाय अनसुना सुने ॥

अथ वायुकृत मस्तकदर्दका

उपाय आत्रेयमतसे ।

एरण्डवीतको तेलमें कूट महीन पीसकर शिरमें मर्दन करे ३ वार खार्य शिरोवर्ति जाय ॥

शिरोवर्तिको लेप ।

नेत्रवाला सफेद चन्दन रक्तचन्दन पद्माक कमलगट्टा

खस कसेला जलसेती पीस प्याइये तथा लेप करे
पित्त शिरोवर्ति दूर होय ॥

त्रिदोषशिरोवर्तिको लेप ।

मिरच कूट मुलहठी बच चित्रक यह सब सममा-
त्रा ले पीस कांजीसेती लेप करे सूर्य्यावर्त आधाशी-
शी सब जाय ॥

आधाशीशीका उपाय ।

हींग और गुड़की नास दीजै आधाशीशी तुरंत मिटे ।

आधाशीशीको नास घृन्दसे ।

अगर केसर करतूरी कपूर यह चारों बराबर पीस
पानीसेती नास दीजै आधाशीशी सूर्यवायु मिटे यह
घृन्द ऋषीश्वरने कहाहै ॥

इति रामविनोदका वायु उत्पत्ति लक्षण उपाय, अंग हीन कटिशूल
उपाय, माथेका भ्रम पीड़ा, अकटवायु कटिशूल संधान उदर-
पीड़ा वायु, कम्पवायु रांघणवायु उपाय पुनः सप्त मण्डल उ-
पाय कुष्ठका उपाय गलितकुष्ठ उपाय श्वेत मण्डल उपाय
पद् कुष्ठका उपाय ऊरुस्तंभका उपाय, आमवातनिदान
लक्षण उपाय शूलनिदान लक्षण उपाय पित्तशूल उपाय
वायुगुल्मनिदान लक्षण उपाय हृद्दोगनिदान लक्षण
आदि कथन नाम पंचम अधिकार समाप्त ॥ ५ ॥

अथ छठा अधिकार ॥

आधाशीशीका उपाय वृंदसे ।

कनेरके पत्तेके रसकी प्रातःकाल नास दीजे आधा-
शीशी तुरन्त मिटै ॥

आधाशीशीका यन्त्र ।

| | | | |
|----|----|----|----|
| २३ | २६ | २९ | १६ |
| २८ | १७ | २२ | २७ |
| १८ | ३१ | २४ | २१ |
| २५ | २० | १९ | ३० |

आधाशीशीमें यह चौरानबेका यंत्र कागजमें लि-
खकर बांधे आधाशीशी तुरंत जाय ॥

बकरीके दूधमें वा मूत्रमें सफेद फेन घिसकर नास
दीजे प्रातःकाल आधाशीशी तत्काल जाय ॥

तथा नस्य ।

घूंघताधेराका उपाय मनोरमासे ।

मुनका १० पैसाभर मिश्री ७ पैसाभर मिरच द-
क्षिणी १ पैसाभर पीपल २ टंक इन औषधोंको पीस
छान गोली ३ टंककी करे प्रभात संध्या गोली एक २
खाय घूंघताधेरा दूर होय ॥

अथ सर्व मस्तकरोग शीतांगका उपाय योगचिन्तामणिसे ।

कूट कलौजी मोहरा वच अजवायन पुष्करमूल अ-
नमोद यह सब औषध बराबर लीजै गेहूंके आठामें
सब औषध मिला रोट कर १४दिनतक खवावै इससे
मस्तकपीड़ा और शीतांग जाय ॥

घृघताघेराका उपाय वैद्यवल्लभसे ।

सोंठि मिरच धनियां सांठीचांवल इनका चूर्ण
आदित्य वारको एकसौ आठ बेर इस मंत्रसे मंत्रिये:-
“सूर्यनाथेन तं प्रोक्तं यंत्रोक्तं ब्रह्मचारिणा । तदुक्तं
नारासिंहेन तेन चक्रेण वायुना” ॥ पीछे ठंडे जलसेती
खाइये माथाका सब दुःख जाय ॥

नेत्ररोगका लेप योगशतसे ।

रसोत हड़ सेंधवनोन फिटकरी इनको पीस नेत्रपै
तीनदिनतक लेप करै नेत्ररोग तुरन्त जाय ॥

पोटली वैद्यवल्लभसे ।

लोध फिटकरी मुर्दाशंख हल्दी जीरा अफीम यह
औषध माशा माशाभर लीजै नीलाथोथा आधा
माशा लै पीस पोटली कर आंखमें निचोड़िये आंखकी
ललाई कड़क सब दूर होय ॥

चिपडी आंखका उपाय वैद्यवल्लभसे ।

रसौत गोरोचन मिरच समुद्रफेन यह औषध बरा-
बर ले वारीक चूर्ण कर ७ दिनतक अंजन करे तो
पानी पड़ता थँभै ॥

ब्रह्मासेसवलवायुका उपाय ।

सिरसके बीज लेकर गातालयंत्र कर तैल का
अंजन करनेसे सबलवायु जाय ॥

**नेत्रके छाया तिमिर धुंध जलपात लाली
आदि रोगोंकी गोली वृन्दसे ।**

नीलाथोथा भुना १ पैसाभर खपरिया १ पैसाभर
यह दोनों लेकर मिश्री सफेद ४ पैसाभर मिलाइये
गोदुग्धसे ४ दिन ताई खरल कर चिरमटी प्रमाण गोली
करै फिर पानीसे २१ दिनतक अंजन करै धुंध तिमिर
मोतियाविन्दु लाली सब दूर होय ॥

फूलीका उपाय अमृतसागरसे ।

स्याह कांच ३ टंक चीनीखांड ४ टंक यह दोनों
पीसके १४ दिन तक अंजन करै फूली खाज तिमिर
धुंध दूर होय ज्योति निर्मल होय ॥

शीतलाकी फूलीका उपाय वैद्यसर्वस्वसे ।

कांले गधेका दांत सावरका सोंग यह दोनों
घिसकर अंजन करनेसे फूली जाय ॥

भक्तांधका उपाय योगशतसे ।

'पीपल' गोबरके रससे घिसकर अंजन करे तो रतौंधी जाय ॥

अन्य उपाय ।

जियापोतेकी गिरी कायफल कटाईकी जड़ चाब समुद्रफेन यह सब बराबर ले इनका सूक्ष्म चूर्ण कर शतको अंजन करे तो रतौंधी प्रवाल जाय ॥

मृगीरोगका उपाय चन्द्रसे ।

रीठेकी गिरी हिंगोटकी गिरी जियापोतेकी गिरी समुद्रफेन ये चार दवाई बराबर लीजै पानीसेती गोली करे जिस वक्त मृगी आवे तिसवक्त गोली घिसकर नास दीजै निश्चय मृगी जाय ॥

अन्य नास ।

आकके २ बूंदीकी रुई सफेद पिरच दोनोंको आकके दूधकी ७पुट दीजै पीछे सुखाय पीसिके कागजमें धरै मृगी आवे तब नास दीजै मृगी जाय ॥ इति चिकित्सा ॥

अथ जानवा रोगको मंत्र ।

ओं नमो आदेश गुरुको खंगारी खंगीरी कहाँ गयो सवाभार पर्वत गयो है सवाभार पर्वत जाय क्या करेगा कोइला करसारका तीर घड़ायकर क्या करेगा जानवाकी पीड़ा काटेगा गुरुकी शक्ति मेरी भक्ति पुरी मंत्र ईश्वरोवाच ॥

विधि ।।

२१ बार तीरसों झाड़ा देकर तीरको बहादे पीछे जानवावाला पुरुष मँगाइये तीनवार मंत्र सिंदूरसे जिये तीरसों झाड़िये ७ दिनमें जानवा जाय ॥

अथ डमरुवाको मंत्र ।

डमरू वायें पैरमें होय है ॥ ॐ डमरू डिमडिमी हाथ कपाल आंखों भाजो डमरू जाय न भाजै तौ पाँच बाण अर्जुनके छीने नारायणके त्रक छीनों मित्र मित्र छिन्न छिन्न जाऊं चिता उमडिया वीरकी आज्ञा फुरै ॥

विधि ।

३ दिन २१ बार तीरसे झाड़दे तेल पावसेर २१ बार मंत्रिये तेलको धरतीमें गेरिये ३ दिन तक करै वायें पैरकी चीस मिट्टे दाहिने पैरमें जानवा विसमें डमरू जानिये ॥

अथ विपकी चिकित्सा ।

बावले कुत्तेके विषका उपाय वृंदसे ।

जमालगोटा मिरच सुहागा शिंगरफ तूंबी यह सब सम भाग लीजै दूना गुड़सेती गोली वांधिये छोटी सुपारीप्रमाण गरम पानीसे गोली दीजे दाढ़का विष दूर होय ॥

अन्य उपाय योगशतसे

कुचिला सरसों गुड़में मिलाय वेरप्रमाण गोली

बाँधे प्रभात समय १ गोली गरम पानीसे दीजै एक संध्याको दीजै हड़कियाकुत्तेका विष दूर होय ॥ इति श्वानविषकी चिकित्सा ॥

अथ सर्पविषचिकित्सा योगशतसे ।

नींबकी निबोलीकी गिरी सेंधवनोन मिरच यह तीनों औषध पैसा २ भर लीजै घृतके संग चाटै सर्प-विष दूर होय ॥

अन्य उपाय ।

केसरि नागकेसरि सांठीकी जड़ कटाईकी छाल बलसेती पीस पीवै सर्पजहर दूर होय ॥

स्थायर जंगम विषका उपाय
योगशतसे ।

हड़ हींग वच पानीसे महीन पीस डकपर लेप करै सर्पविष दूर होय ॥ इति सर्पविषचिकित्सा ॥

अथ विच्छूके विषकी चिकित्सा ।

लाल कनेरकी जड़ और दक्षिणी मिरच यह दोनों पानीसे पीसकर लेप करै विच्छूका विष दूर होय ॥

अन्य उपाय ।

हींग चोखी लेकर आकके दूधकी ७ पुट दे झड़बे-रप्रमाण गोली बाँधि विच्छूके डंकपर लेप करै विष जाय ॥ इति विच्छूविषचिकित्सा ॥

अथ शस्त्रघातचिकित्सा योगचिंतामणिसे ।

नीलाथोथा शिंगरफ मुर्दारसिंग सिंदूर मँजीठ यह सब औषध एक एक पैसा भर कडुवा तेल ९ पैसा भर ले सब औषध तेलमें पकावे फेर फोड़ेमें लगाय घाव पर दीजे घाव भरे ॥

घावके लोहू थंभनेका उपाय वृन्दसे ।

बिना व्याही भँसका सींग चाकूसे छीलके १ महीना गौके घृतमें भिगोवै पीछे आकके डोडेकी रुई लेकर तिसकी बत्ती कर घृतमें जलाय कज्जल करिये कज्जलको घावपर लगाइये लोहू थंभै ॥ इति शस्त्रघातचिकित्सा ॥

अथ धरनिकी चिकित्सा ।

गुड़ १ तोला नकछिकनी दमाशे मिलायकर खाय धरनि तुरंत ठिकाने आवे कभी डिगे नहीं ॥

धरनिपर यन्त्र चौवनका ।

धरनिपर आदित्यवारके दिन अनवोला केसर कस्तूरी गोरोचन कपूर शिंगरफ यह सब एककर गायकी छायामें वैठ यंत्र लिखिये कन्याके काते सूतके डोरेसे बांध तां चांदीमें मढ़ाकर कमरमें बांधे तो धरनि तुरंत ठिकाने आवे फिर डिगे नहीं सत्याम्नाय योगीका सवा सेरके चूरमासे पात्र भरिये, सवा गज

लाल योंगीको ओंढाइये धरनि डिगे नहीं ॥ इति
धरनि चिकित्सा ॥

अथ बालकके अतीसारकी चिकित्सा
योगशतसे ।

हल्दी दारु हल्दी इन्द्रयत्र काकड़ासिंगी मुलेठी
इनका काढ़ा कर शहद मिलाय बालकको पिलाइये
अतीसार दूर होय ॥

रक्तातीसारकी चिकित्सा वृन्दसे ।

पाषाणभेद जायफल सोंठि शतावारि आंबकी गुठली
छुहारा कालपीकी मिश्री यह औषध सममात्रा ले पीस-
कर घूटी दीजे तत्काल लोहू थँभै बालक पुष्ट होय ॥

बालककी छर्दि चिकित्सा योगमतसे ।

काकड़ा सिंगी मोथा पीपल अतीसे यह चार औषध
बराबर ले चूर्ण कर शहदमें चँटावे बालककी उबाकी
छर्दि जाय ॥ इति बालकछर्दिचिकित्सा ॥

अथ अंडवृद्धिकां उपाय ।

सोंठि पीपल मिरच बेलगिरी पीपलामूल निसोत
चित्रक यह सब औषध सममात्रा ले चूर्ण कर २ टंक
दूधसे पीवे अंडवृद्धि दूर होय ॥

अन्य उपाय ।

गरुडका तैल अंक गोदुग्ध रसेर चीनीखाँड़ आध-
सेर यह सब औषध ले एकत्र कर पीवे अंडपीड़ा
जाय ॥ इति अंडवृद्धिचिकित्सा ॥

अथ लगी चोटका उपाय भोजप्रवन्धसे ।

इल्दी बीजात्रोल यह दोनों पीसकर चूर्ण करे
२ टंक गरम पानीसे लीजे चोट दूर होय ॥

चोटका अन्य उपाय ।

इल्दी अंसालिया मैदालकड़ी सजी पानीसेती मही-
न पीस दर्दके ऊपर ३ दिनतक धूपमें बैठके मर्दन
करे सब दर्द दूर होय ॥

अथ नींद आनेका उपाय वृन्दसे ।

सफेद मिरच कस्तूरी घोड़ेकी लारके संग विसकर
अंजन करे नींद बहुत आवे ॥

पुनः उपाय वैद्यवल्लभसे ।

बिजारेका पकाहुआ पीला १ फल शिरहाने रखिये
नींद बहुत आवे ॥

अथ बगलगन्धका उपाय ।

हरड़े मोथा इमली करंजुवा बेलगिरी यह औषध
बराबर ले सद्यपानीसे पीस बगलमें लेप करे बग-
लगन्ध दूर होय ॥

अथ मुखदुर्गन्धका उपाय वैद्यमनोत्सवसे ।

लवंग कपूर दालचीनी तमालपत्र केसरि कस्तूरी
नायफल जावित्री चन्दन गुलाबके फूल इलायची
छोटी इनको गुलाबसे पीस गोली बेरप्रमाण बांधै गोली
१ तथा २ मुखमें रखिये मुखदुर्गंधि दूर होय ॥

अथ दांतोंकी श्याम मिस्सी ।

हीराकसीस हड़ आंवला माजूफल जंगीहड खैरसार
फिटकरी सोनामक्खी लोथ यह सब औषध बराबर
लीजै इनका चूर्ण कर इस चूर्णके बराबर लोहका चूर्ण
लीजै चिकनी सुपारी १ पैसाभर पीस मिलाइये पीछे
निम्बूके रससेती पीसिये तथा इमलीके रससे तथा
अनारदानेके रससेती पीसि महीन कर छायामें सुखाय
पीतलके बरतनमें राखिये ३ बार तथा ४ बार दांतोंमें
लगाइये हलुवा खानेको दीजे दांतशूल मुखदुर्गन्धता
मिटै ॥ इति मिस्सी विधि ॥

अथ लाल मिस्सीकी विधि योग-
चिन्तामणिसे ।

शिंगरफ चिकनी सुपारी कत्थाकी बड़ियां इन ती-
नोंको ६ माशाभर तथा पीपलकी लाख ३ पैसाभर
ले पक्के सवासेर पानीमें गेर अग्निपर चढादे जब
७ पैसाभर पानी आय रहै तब उतारै मजीठ

३ टंक जुदी उकायले २ पैसाभर पानी आय रहै तब मजीठके ताई पानीसेती पीसिये पीछे लाखके पानीसेती खरल करै सब पानीको इसभांति सुखाइये फिर चूर्णको छायामें सुखाइये मजीठका चूर्ण दांतोंमें ३ वार तथा ४ वार मलिये दांत लाल होयँ यह सिद्ध योग कहा॥ इति लाल मिस्सी विधि ॥

अथ सफेद मिस्सीकी विधि ।

मस्तगी गोंद भूनी फिटकरी हीराकसीस जंगीहड़ अकरकरहा तेजवल मुर्दारसंख लोध कत्था सुपारी चिकनी यह औषध पीस चूर्ण कर दांतपै मलै प्रभात संध्या दांत वज्र सरीखा हो दांत दाढ़की पीड़ा दूर होय ॥

अथ छः महीनेके केश कल्प ।

माजूफल १० टंक हीराकसीस १० टंक सफेद कनेरके बीज ९ टंक सँभालूके बीज १० टंक वेंगनकी जड १० टंक अनारकी जड १० टंक सिंहरास १० टंक लोहचूर्ण ३२ टंक नसपाल १० टंक आंवला ७० टंक भिलावां १० टंक जामुनकी छाल तथा जड १० टंक नीलके पत्ते १० टंक मालकाँगनी २० टंक पवारके बीज २० टंक जायफल १० टंक नवसादर ५ टंक त्रिफला २८ टंक काले तिल यह सब औषध पीसकर १० सेर तेल कडुकमें मिलाइये पीछे पकाइये ७ सेर तथा ५ सेर तेल बाकी रहै तब तेलको लोहेके घड़ेके भीतर राखे १ मही-

नाभर जमीनमें गाड़िये पीछे निकाल वालोंमें तेल लगाइये छः महीनेतक केश स्याह रहें ॥ इति केशकल्पचिकित्सा ॥

अथ केश बढ़नेको लेप योगचिन्तामणिसे ।

रसौत हांथीका दांत बकरीके दूधसे घिस लेप करे बाल बहुत आवैं गये शिरके केश २७ दिनमें फेर आवैं ॥

अथ आगेके जलेका उपाय वृन्दसे ।

कूट आंवला मिर्च नींबूके रसमें अथवा नींबूके पत्तेके रसमें जलेपर लेप करे पीड़ा तुरन्त मिटै ॥

अन्य उपाय शार्ङ्गधरसे ।

यवका बकल राख कर मीठे तैलमें पीस जलेपर २१ वार लेप करे पीड़ा जाय ॥

अथ स्वेदज्वरादिपर लाक्षादि तैल योगचिन्तामणिसे ।

रक्तचन्दन श्वेतचन्दन मोथा नेत्रवाला खस पद्माख मुलहठी लोहवान सेल्हा रसकचूर इलायची देवदारु धावेके फूल नागकेसरि पतंग मजीठ हल्दी सारिवा कुटकी मिरच कंकोल नख काला अगर जवासा केसरि तजपत्रज कमलगुह्या पित्तपापड़ा बालछड़ीला राल ये सब आपस एक एक पल लीजे इनसे चौगुना तिलका तेल लीजे कड़ाहीमें गेर आटावना तेल बाकी आय रहै तब उतार चि-

कने बासनमें धर रखिये भला मुहूर्त देख, रोगीके मर्दन करै अजीर्ण ज्वर स्वेदज्वर शीतज्वर दाहज्वर खाज बीमची गजचर्मादिक रोग जायँ ॥

मस्तकरोगपर षड्विन्दुतैल योगशतसे ।

रासना सौंठि सौंफ सेंधवनोन तगर बच वायविडंग जावित्री यह औषध एक एक पैसाभर लीजै बीस पैसाभर पानी गेर उवाले १० पैसाभर पानी आय रहै तब २० पैसाभर तेल कडुवा मिलाइये भांगराका रस आध सेर मिलावे भांगरेका रस जल जाय तो तैलको उतार लीजै पीछे माथेमें मर्दन करै शिरोवर्त आधाशीशी तुरंत मिटजाय ॥ इति मस्तकरोग चिकित्सा ॥

अथ घृताधिकारमें प्रथम कल्याण घृत ।

असर्गन्ध मंजीठ बच मोचरस मोठ मोथा पीपला-मूल पीपल अजमोद मिरच अजवायन चित्रक सँभालू इलायची दोनों स्याह मूसली सफेद मूसली इन्द्रयव कोंचके बीज तज जावित्री वंशलोचन तमालपत्र देवदारु जायफल शालिपर्णी कटाई २काला सारिवा श्वेत सारिवा पृष्टिपर्णी मुलहठी डोंडापोस्तकां त्रिफला कूट उटंगन कनेरकी छाल यह सब औषध एक एक टंक लीजै ४ सेर पानीसे उवालिये १ सेर पानी आय रहै तब उतार लीजै १ सेर दूध सवासेर घृत मिलाय उवालिये घृत बाकी

आय रहे तब कड़ाही उतारले २॥ टंक प्रभात समय लीजै खट्टा तुरश त्यागे धातु बद्धे ४ घड़ी बंधेजरहे ॥

त्रिफलादि घृत योगचिन्तामणिसे ।

त्रिफला हल्दी दारुहल्दी गौरीसर सरसों मेदा महा मेदा प्रियंगु सौंफ हींग रक्तचन्दन अजमोद कमलगट्टा मिश्री रासना जायफल अगर मलयागिरि कायफल तवाशीर यह औषध चार चार टंक ले आठगुने पानीमें चारपहर भिगोवै पीछे कड़ाहीमें गेर उवालिये आधा पानी आय रहे तब फेर कड़ाहीमें गेर घृत २५६ टंक शतावरिका रस १२४ टंक मिलाइये पीछे मन्दा-ग्रिसे औटाइये घृत बाकी रहजाय जब कड़ाही नीचे उतारे मिट्टीके वासनमें घृतको छान रखवे स्त्री ऋतुके अन्तमें ३ टंक पीवै ३ दिनतक तो वह स्त्री गर्भवती हो वीर्य्य बँधे शरीर पुष्ट हो यह घृत भरद्वाज ऋषी-श्वरने बतायाहै ॥

अथ पाकाधिकार ।

सौभाग्यशुंठीपाक योग चिन्तामणिसे ।

सतुवासोंठि ५ सेर लीजै कूट छान गायके घृत ५ सेरमें सोंठि सेकै पीछे नीचे उतारले पीछे कड़ाहीमें दू २५सेरध उवालिये आधा रहे तब भूनी सोंठि मिलाइये

खोवा दानेदार होय तब जायफल ८ टंक जावत्री ८ टंक
लवंग ८ टंक त्रिफला २० टंक जीरा दोनों १६ टंक
इलायची ८ टंक मिर्च ८ टंक नागरमोथा ८ टंक
भीमसेनी कपूर ४ माशा छुहारा ९ फल विदारीकंद ८ टंक
शतावरि ८ टंक लसोड़ा ८ टंक केसर ८ टंक दालचीनी
८ टंक सालिवमिथ्री ८ टंक मस्तगीगोंद ८ टंक वंश-
लोचन ८ टंक नारियलकी गिरी तीन पाव बादामकी
गिरी एक पाव चिलगोजे एक पाव पापाणभेद ८ टंक
यह औषध पीस छानकर जुदीरखिये सुगन्ध वस्तु
पीसकर जुदीरखिये पाकमें खोवामिलाय पीछे काष्ठादि
औषध फिर अभ्रक तथा वंग तथा सोने चांदीके तबक
मिलाय ६ पैसाभरका लड्डू बांधै एक प्रभात खाय एक
संध्या खाय सुन्दर रूप होय शरीरकी शोभा होय देह
मुख नासिकमें कांति होय वीर्य्य बँधै अर्श जाय आठों
प्रमेह जायँ वंध्याके पुत्र होय यह सौभाग्यशुंठी शि-
वजीने कही पार्वतीजीने खाई ॥ इति सौभाग्यशुंठी ॥

अथ सुपारीपाक् आत्रेयमतसे ।

सुपारी चिकनी १ सेर आंवले पावसेर आठसेर
पानीमें उवालिये आध सेर पानी आयरहे तब कांढिके
छायामें सुखाइये पीछे कूटछानकर ५ सेर दूधमें गेर
औटाइये कीटी करे दानेदार होचुके तब प्यालीमें

ले मिश्री ५ सेरकी पात करै तय्यार होय तब कड़ाही नीचे उतारं पीछे यह औषध गरै नागकेसर, चन्दन सफेद नागरमोथा धनियां त्रिकुटालोध कसेला धावेके फूल गोखरू असगन्ध शतावारि लवंग, जायफल जावित्री छोटी इलायची दालचीनी सेंधव तज पत्रज जीरा सफेद जीरा स्याह वंशलोचन यह औषध आठ २ टंक लीजै दाख बदाम पिस्ता आध आध सेर चिरीजी पावसेर मिश्री २ सेर रूपरस ६ टंक सोनेके तबक ५ माशे चांदीके तबक ९ माशे यह सब औषध खोवा चासनीमें मिलाय १० टंककी गोली करनी प्रभात संध्या एक २ गोली खाय तो दाह तपन शूल उछाल गरमी योनिके दुःख गुदाके दुःख मुखके दुःख लोहूका पडता येरका जलना धातुक्षीण प्रमेह मूत्रकृच्छ्र इतने रोगजायै स्त्री खाय तो गर्भवती होय ॥

अथ असगन्धपाकविधि चौरासी

वातके ऊपर चरकसे ।

नागौरी असगन्ध ३ पैसाभर लीजै सतुवा सोंठि १६ पैसाभर पीपल १६ पैसाभर मिरच ३ तोले तज १ तोला पत्रज १ तोला इलायची १ तोला नागकेसरि १ तोला अकरकरा १ तोला केसर १ तोला जायफल १ तोला जावित्री १ तोला इन औषधोंको कूट छानकर घृत ३ सेर

दूध ७सेरमें कीटी करै पीछे दूसेर खांडकी पात करै पीछे बंग ३ तोला गेरिये पीछे गोली ५ पैसा भरकी करै गोली १ प्रभात ३ संध्याको खाय तो ८४ वात जायँ ॥

अथ छत्तीस रोगोंपर चन्द्रहासरस ।

जायफल लौंग इलायची जावित्री गजपीपल दाल-
चीनी शीतलचीनी कवावचीनी मिरच पीपल उटंगण
अकरकराधनियां हारुवेर लसोड़ा अजमोदा चांव सोंठि
कचूर चन्दन सफेदचन्दन लाल पोस्तजड़ कौत्तबीज
यह औषध दश दश टंक लेना और त्रिफला देवदारु
जामुनकी गुठली कीकरकी छाल कसेला कसेली
मोचरस स्याह जीरा सफेद जीरा भाड़ंगी गिलो-
य स्याह मूसली सफेद मूसली कंकोल मिरचवंश-
लोचन मस्तंगी कुलीजन सँभालूके पत्ते वायविडंग
शंखाहुली कपूर कचरी सौंफ नागकेसरि पुष्करमूल
तगर पद्माख त्रायमाण सोबाका बीज काकड़ा-
सिंगी जवासा धमासा कटेली दोनों मूर्वा बहुफ-
ली माजूफल समुद्रसोख कायफल सिंवाड़े गोखरू
धावेके फूल माईके फूल पापाणभेद निसोत अरंडोली
विजयसारकी जड़ भांग असगंध प्रियंगुके फूल मोथा
अरंडूसी गंगरेनकी छाल लोंघ यह औषध दो दो पैसा-
भर लीजै फिर सबका सूक्ष्म चूर्ण करै अभ्रक २ तोले बंग
५ तोले कस्तूरी दमाशे कपूर भीमसेनी दमाशे आवकी

छाल १ सेर बादामगिरी १ सेर मुनक्का १ किसमिस २ सेर
 जुहारा १ सेर खांडचीनी २५ सेर मिथ्री ७ सेर बेरी-
 जड ५ सेर गुड ६ धडी पानी २॥ मन में सब औषध
 दरदरी कर पानी गुड़ औषध सब मिलाय बड़ी गोलमें
 गेर मुखपै ढकनी दैके खामदेकर धरतीमें गाड़े मही-
 ना १ पीछे काढ़ै फिर दाखकी तरह रस चुआवै पीछे शी-
 शमें धरखै पैसा २॥ भर नित्य पीवै तो खाया पिया
 सब भस्म हो, इंद्रि महा दृढ़ होय वंधेज बहुत होय ना-
 मर्द मर्द होय स्त्री बहुत प्यार करै राजयक्ष्मा खूनी वादी
 अर्श कफ क्रोठ रक्त पित्त अठारह प्रमेह गल अंतर जल
 प्लीह पथरी वायगोला आम वात शूल ८४ वाय अक-
 डवाय झोलावाय गाढ़ पेट शूल पांडुरोग कमलवार्थ
 पीलिया रोग तेरह सन्निपात ये सब जायें शरीर पुष्ट
 होय वांझके पुत्र हीय चंद्रहासके इतने गुण कहे हैं ॥

अथ धातुवोंका अधिकार ।

सुवर्णादि शोधनविधियोगचिन्तामणिसे ।

सोना रूपा तांबा रांग जस्ते लोहा शीशा इनका
 पत्र गरम कर सात सात वेर एक एक वस्तुमें बुझावै
 यानी सातवेर तेलमें सातवेर छांछमें सातवेर गोमूत्रमें
 सातवेर काञ्चीमें सातवेर कुलथीमें बुझावै तो धातुवों-
 का मूल दूर होवे ।

अथ मृगांक मारनकी विधि ।

प्रथम सोनेके पत्र शोधन कर भोजपत्र सरीखे करा-
 इये खरापतले सोनेके पत्रोंके बराबर पारा लीजै खरल
 बीच दोनोंको मर्दन करै एक मेल दोनों होजायँ तब
 कचनारके रससेती खरल करै फेर अग्निकालके रससे-
 ती खरल करै फिर सोनेसे चाँथा हिस्सा सुहागा गेरि
 सातरपुट दीजै जब काजलसमान रंग होय तब सोनेसे
 दूने चोखे मोती लीजै यह सब पीस कजली करै फिर
 सब औषधके बराबर आँवलासारगंधक ले बहुत वारी-
 क जँभीरीके रससेती मर्दन कर गोला बांधिये गोलको
 धूपमें सुखाय गोलके सात कपड़मिट्टी दीजै गोलको
 धूपमें सुखावताजाय कपड़ा मिट्टी देवाजाय जब कपड़ा
 सूखजाय तब हांडी मोटी लाइये आधी हांडी सांभर
 नोनसे भरिये बीचमें गोला धरिये पीछे नोनसे हांडी
 भरदीजै पीछे हांडीका मुख मुद्रा देकर धूपमें सुखाय
 हांडीको गजपुट दीजै अरने उपलेकी शीतल होय तब
 काढ़ लीजै सिद्ध हुए पीछे रत्ती १ मृगांक मिर्च २ वा
 पीपल ३ से दोष देखिये रत्ती १ मृगांक पीपल २ त
 शहद संग दीजै पथ्य उड़दकी दाल खीर दुहरी समेत
 दीजै मृगांक इतने रोगोंको दूर करे श्लेष्मा रोग खयन
 राजयक्ष्मा कास श्वास मंदाग्नि विषाज्ज्वर धातुक्षय
 और शरीरको स्थूल करे ॥

उपाय सत्त्वछोडनेका ।

गुड़ गूगुल पवांडवीज लाव सुहागा छोटी मछली यह सममात्रा लेके धातुपै गेरे फूकनीसे बुमाता जाय धातुसत्त्व निकले ॥

अथ रससिंदूर पारा मारनकी विधि ।

क्षीणपुरुषको नामर्द नपुंसक धातुक्षीण ऐसे पुरुषको पारा बड़ा गुण करै महादेवका बताया संसारमें रसायन है ॥

प्रथम पाराशोधन विधि ।

प्रथम पारेको वीकुवारके पत्तेमें ४ पहर खरल करै पुनि ४ पहर चित्रकके काढ़ेमें खरल करै फेर खरल में गेर ४ पहर मर्दन करै तो पारा शुद्ध होय ॥

चार रसका शोधा व जुदाजुदा गुण ।

वीकुवारके पट्टेमें ४ पहर मर्दन करनेसे पारेकी सातकांचली दूर होय चित्रकके काढ़ेमें खरल करनेसे पारेकी जिस्मी दाह सब दूर हों अंकोलके रसमें खरल करनेसे पारेका विष दूर होय अमलतासके रसमें खरल करनेसे पेटकी सब व्यथाको दूर करै ॥

पाका पंख दूर करना और मुख करनेका इलाज ।

आकका दूध १ पाव थोहरका दूध २ पाव धतूरे;

का रस तीन पाव कलिहारीकी जडका रस ४ पाव क-
नेरका रस ५ पाव चिरमटीका रस ६ पाव अफीम ७
पाव यह सात उपविष हैं इनमें पारा जुदार मर्दन करै
पारेकी पंख छेडीजाय फेर पारा उडन पावै नहीं पारेके
मुख होय तिस मुखसे धातुको ग्रसै ज्वरको हरै ॥ :

पारा मारन विधि ।

पारा १ भाग आंवलासार गन्धक २ भाग खरल
करै काजल समान रंग होय तब आतसी सीसीमें क-
जली भरिये सीसीके मुखमें ईटका टुकड़ा दीजै मुहडेंमें
सीसीके गाढ़ी मुद्रा दीजै सात कपडमिट्टी सुखाय २
दीजै पीछे ठीकरा बालू रेतसे भरिये अधवीचमें सीसी
धरिये सीसीके ऊपर बालूका रेत दीजै नीचे लकडी-
की आंच २७ पहरकी दीजै तीन सीसियोंमें पचाइये
सीसीके मुहड़े पर जो रस हो उसे अविसी रस कहिये
हिंगलू वर्ण समान लाल रंग होय तिस रसको २ रत्ती
पानमें दीजै ऊपर दूध मिश्री पिलाइये इस पारेके ऐसे
लक्षण लिखे हैं इसको प्रमेह श्वास कास नपुंसक क्षीण-
ता गतवीर्यवालेको दीजै तो यह सब रोग दूर होय ॥

अथ सर्व धातुको गुण ।

मृगांकमें १०० गुण रूपरसमें ८ गुण सारमें ४० गुण
बंगमें ६४ गुण ताम्रेश्वरमें ३२ गुण अभ्रकमें १०००

गुण हीरेमें १००००००००कोटिगुण पारेमें अनन्त गुण शुद्ध पारा जो कोई मनुष्य खाय तिसको वह महा अवगुण करै १८ कोट २० प्रमेह तथा दाह व गरमी करै सब शरीरमें फूट निकले ॥

पारा भस्म करनेकी विधि योगमतसे ।

पारा ४ टंक आंवलासार ४टंक बड़के दूधमें मर्दन करै पीछे मिट्टीके ठीकरेमें पचाइये बड़का दूध गेरता जाय बड़की लकड़ीसे चलाता जाय ठीकरेके नीचे मन्दाग्नि दीजै १ दिन ताई पारा भस्म होय वह पारा २ रत्ती नागरपानमें खाय शरीर पुष्ट होय भूख बहुत लगै ॥

अथ रसकपूर करनेकी विधि ।

पारा फिटकरी हीराकसीस सेंधवनोन नवसादर यह सब औषध सममात्रा ले खरलमें गेर घीकुवांरके रससे ४ पहर मर्दन करै पुनि सब औषध हांडीमें गेर मुखमें गाढ़ी मुद्रा हांडीके देकर तेज अग्नि दीजै दो पहर रसकपूर सिद्ध होय ॥

अथ शिंशरफमेंसे पारा काढनेकी विधि ।

हिंशलूको नीबूके रसमें नीबूके पत्तोंके रसमें नागरपानके रसमें १ पहर मर्दन करै पूर्ववत् डोलका यंत्र कर पारा काढिये सो पारा सबही काममें आवै यह पारा काढनेकी विधि कही ॥

अथ हरतालमारनकी विधि ।

बुगदादी चोखी हरतालका खण्ड खण्ड करै हरतालके खण्डको दोलका यंत्रकर १ पहर कांजीमें फिर और १ पहर त्रिफलाके काढ़ेमें औटाइये पीछे हरतालका चूर्ण कर पेठेके रसमें खरलं करे पीछे तिलके तेलमें हरतालको चूर्णकर भस्म करिये हरताल दोष न करै पीछे हरतालकी पोटली बांध मिट्टीके बासनमें दोलका यंत्रकर कांजीमें पचाइये १ पहर पीछे पेठेके रसमें १ पहर तिलके तेलमें १ पहर इतना करे तो हरताल शुद्ध होय ॥

अथ नाग तांवेकी विधि ।

मोरका चांद पंख और केश रहजार लाइये जलाकर राखकर मोटे मंटकेमें रखिये २ अथवा ३ दिनतक फिर २० टंक राख और घृत ३ टंक गुड़ ३ टंक सरसों ३ टंक गूगुल ३ टंक छोटीमछली ३ टंक ऊन ३ टंक सुहागा ३ टंक सजी ३ टंक चिरमटी ३ टंक पीपल ३ टंक लाख ३ टंक यह सब भी इकट्ठा करे फिर १ हाथ चौड़ा १ हाथ गहरा गढ़ा खोद कोइलोंसे भरिये ऊपर उसमें मोरपंखकी राख गेर ऊपर औषध जलाता जाय सब औषध शीतल होय जिसमेंसे कन निकले सो उठायलीजै तांवा लेकर गलाय उस तांवेका छिछा गढ़ा अंगुलीमें रखिये कुमल खाया होय सांपने डसा होय जहरमोहरा

खाया होय संखिया खाया होय सो जाय इस नाग छेसे किसीकी बाधा होय नहीं ॥

अथ सोनामक्खीके शोधनकी विधि ।

सोनामक्खी प्रथम शहतमें पीछे कुलथीके काड़ेमें अथवा बन्दरके पेशावमें मर्दन कर डोलका यंत्रकर पचाइये सोनामक्खी टंक ३ संधानोन टंक ३ विजौरेके रससेती अथवा नींबूके रससेती लोहेकी कडाहीमें पचाइये नीचे अग्नि दीजै ऊपरसेती रस निचोडता जाय आंच सेवरी दीजै कडाही लाल होय तब सोनामक्खी शुद्ध होय पीछे सोनामक्खीका सार काढिले तब बहुत शुद्ध होय ॥

अथ संखिया शोधन विधि ।

संखियाकी डेलीको कपडेमें बांधकर दोलकायंत्रकर पेठेके रसमें पचाइये ३ दिनताई पीछे चौलाईके रसमें उवाल दोलका यंत्रमें पचाइये पहर १ में संखिया शुद्ध होय सब काममें आवै ॥

अथ गन्धक शोधन विधि ।

लोहपात्रमें घृत गर गरम करे घृत गरम होजाय तब गंधक दरदरी कर गोरिये जब गन्धक गलजाय तब दूधमें गोरिये जब जमजाय तो काढलीजै वह गन्धक सबही काममें आवै ॥

अथ शिलाजीतके सत्त्वकी विधि ।

शिलाजीत मँगवाय गायके दूधमें घोलकर सुखायलीजै पीछे त्रिफलाके रसमें मर्दन करै १ पुट देकर धूपमें सुखायलीजै पीछे शिलाजीतको लेकर भांगरेके रसमें मर्दन करै पीछे दूधकी पुट दे धूपमें सुखायदीजै इस भांति शिलाजीत शुद्ध होय सब काममें आवै ॥

शुद्ध शिलाजीतकी परीक्षा ।

अग्निपे शिलाजीत धरे धुआं नहीं निकले तो शिलाजीत शुद्ध जाने ऐसा शिलाजीत सब काममें आवै इलायची छोटी पीपल शहद इसके साथ १ मासा खाय तो बहुत गुण करै मूत्ररोग पथरी प्रमेह राजयक्ष्मा इन सब रोगोंको दूर करै यह शिलाजीतसत्त्वकी विधि कही ॥

अथ तेलिया शोधनविधि ।

मीठा तेलिया १ पैसाभर तीन पाव दूधमें उवालिये जब दूध गाढ़ होय तब मीठातेलिया काढ़ गरम पानीसे धोवै ऐसे मोहरा शुद्ध होय पीछे चाकूसे टुकड़े कर धूपमें सुखाय धरराखे सब औषधोंके काममें आवै ॥

अथ अशुद्ध मृगांकके अवगुण ।

बल हरे वीर्य हरे रुधिरविकार करे ॥

अथ अशुद्ध रूपके अवगुण ।

पेट बंध करे इन्द्री हीन होय शरीरमें महारोग करे ॥

अथ अशुद्ध ताँवेके अवगुण ।

कंठशोष हो सब धातुको नाशै अनेक रोग करै
शरीरकी कांति हरै विरेचन वमन करै ॥

अशुद्ध सारका अवगुण ।

आयु हरै मूर्च्छा करै वीर्य हरै ॥

अथ अशुद्धशीशेका अवगुण ।

अशुद्ध शीशा और बंग दुष्ट गोला करे कोढ़ संग्रहणी
प्रमेह शूल श्वास पांडुरोग इतने रोगोंको करे ॥

अथ कच्चे अभ्रकका अवगुण ।

अग्नि मन्द करे कृमिरोग संग्रहणी प्रमेह श्वास
इतने रोग करै ॥

अशुद्ध गन्धकका अवगुण ।

बल हीन करै पेट भारी कब्जता करै रुधिर प्रकोप
करै वीर्यको हरै ॥

अथ सोनामक्खी रूपामक्खीका अवगुण ।

अग्नि मन्द करै बलहानि होय पेट बंध करै आंख
दूखे कोढ़ कंठमाला करै ॥

अथ अशुद्ध हरतालके अवगुण ।

पेटमें कब्ज करै दाह करै शरीर विगडे कंठ सूखै
वमन करै विरेचन करै ॥

अथ अशुद्ध तेलियाका अवगुण ।

उकलेद करै कंठ सूखै दाह करै वमनकरै हाथ पैर फूटै।

अथ कच्चे अजयपालका अवगुण ।

उकलेद करै कंठ सूखै दाह करै विरेचन करै सोफ करै
देह व्याकुल करै आंखोंमें खाज करै इतने अवगुण करै॥

इति श्रीरामचन्द्रविरचित रामविनोदमें वचनका बंधेज आधा
शीशी प्रतीकार घुंघता उपाय मस्तक उपाय शीताङ्ग अंगरोग
मृगीका उपाय जानवा डमरू हड़किया श्वानविष उपाय
सर्पवृश्चिक विष उपाय शस्त्रघाव उपाय धरा डिगीका उपाय
बालकके अतीसारका उपाय बालचिकित्सा जलपीड़ा
निद्रा आवना मुखदुर्गन्धि उपाय दांतरोगकी मिस्तीके सा-
धनका उपाय केशकल्प केश जातेरहैं तिसका उपाय
केश दूर करने का उपाय आगके जलेका उपाय
नारायण तेलका उपाय लाक्षादि तेल वृद्धिमारे-
चादि तैल गंडमालाको तैल पद्मिन्दुतैल केश न
टूटे तिसका उपाय कल्याण घृत त्रिफलादि घृत
अमलादि घृत सौभाग्यशुंठीपाकना रेलपाक
मृगांक आदि सब धातुका भस्मीकरण
उपाय धातु उपधातु विष उपविष संस्त्रिया
इत्यादि तब बिगर शोधके अवगुण शो-
धन मारण शुद्ध अशुद्ध गुण अवगुण
कथननाम षष्ठ अधिकार समाप्त ।

अथ सप्तमाधिकार प्रारंभ ॥

वृद्ध और मरन मोदक ।

जायफल ४ टंक जावित्री ४ टंक लवंग ४ टंक म-
स्तंगी ४ टंक सालम ४ टंक वंशलोचन ४ टंक दाल-
चीनी ४ टंक इलायची छोटीके बीज ४ टंक चाबचीनी
४ टंक शीतलचीनी ४ टंक खस ४ टंक वड़ी इलायची-
के बीज ४ टंक तिल १ टंक तमालपत्र १ टंक असगन्ध
१ टंक संबलकी छाल १ टंक शतावरि १ टंक कायफल
१ टंक केलाकन्द १ टंक कचूर १ टंक धतूरेके बीज १
टंक धनियां १ टंक मिरच १ टंक भारंगी १ टंक मुलेठी
१ टंक मोचरस १ टंक पीपल १ टंक काकड़ासिंगी १
टंक पुष्करमूल १ टंक पीपलामूल १ टंक गोखुरू १ टंक
जीरा स्याह सफेद १ टंक कौचके बीज १ टंक गज-
पीपल १ टंक मूसली १ टंक नागकेसर १ टंक सिंहाडे
१ टंक गंगेरनकी छाल १ टंक अनारदाना १ टंक यह सब
औषध सूक्ष्म कर कपड़छान करना गोला २५ टंक
वादामगिरी २७ टंक छुहारा २० टंक चिरौजी २० टंक
चिलगोजे २० टंक अफीम २ तोले भांग ७ ॥ सेर दूध ५ सेर-
को खोया करै तिसमें भांग पीसके छिटकाय दीजै सीरा-
समान गाढ़ा होय तब घृत गेरके दानेदार खोया करना
पीछे कडाही उतारले खांड पांचसेरकी पात करै पक्की

पात होय तब खोया चूर्ण सब मिलाइये ऊपरसे मेवा मिला लड्डू पांच पैसाभरके बाँधे एक लड्डू नित्य खाय ऊपर दूध मिथी पीवै तो धातुवृद्धि होय देह बहुत पुष्ट होय वृद्ध पुरुष जवान होय रूप बहुत होय इस मदनमोदकमें इतने गुण कहे हैं ॥

कामकौतूहलगुटिका योग- चितामणिसे ।

कौंचके बीज कुलींजन तमालपत्र पीपल कवावचीनी जावित्री इलायची गोखरू चम्पेके फूल मस्तंगी यह आठ आठ टंक जुदी २ लीजै लवंग १ पैसाभर कस्तूरी १ पैसाभर कपूर ८ मासे सब औषध पीस छानकर ऊपर कपूर कस्तूरी सब गेरिये केसरके रससेती बाँधिये वागीवेरप्रमाण व्यालू करके संध्याको १ गोली खाय पुरुष स्त्रीको कामकौतूहल बहुत करावै १ पहरका वंधेज करै यह गुण है ॥

बन्धेजको सिंहवाहनी गोली ।

केसर १ टंक लवंग १ टंक जावित्री १ टंक जायफल १ टंक खपरिया १ टंक अजमोद १ टंक माजृफल १ टंक समुद्रशोष १ टंक मोठकी जड़ १ टंक मस्तंगी १ टंक कुचला १ टंक अफीम १ टंक शिंगरफ १ टंक वत्सनाग १ टंक कस्तूरी २ मासे कपूर २ मासे सब औषध पीस

छान शहतमें गोली बांधै वागीवेरप्रमाण सन्ध्याको
१ गोली खाय ऊपर दूध पीवै फिर नागरपान खाय
स्त्रीके संग बहुत सुख पावै बहुत प्रेम करै १ पहर
बंधेज होय ॥

धातुक्षीणका उपाय ।

गोखरू विदारीकन्द कुलींजन शतावारि एक एक पल
जुदी जुदी लीजै कौंचबीज उटंगनबीज इलायची पीपल
रक्तचन्दन नागकेसर मूसली छड गिलोय वंशलोचन
यह औषध चार चार टंक जुदी जुदी लीजै इनका
सूक्ष्म चूर्ण कर संबलके रसकी २१ पुट देकर धूपमें
सुखावै डाभके रसकी २१ पुट दीजै सर्व चूर्णके बराबर
मिश्री लीजै ५ टंक इस चूर्णको नित्य लेना वीर्य्य
वँधै मूत्रकृच्छ्र जाय ॥

नामर्दका उपाय योगचिन्तामणिसे ।

तालमखाना गोखरू शतावारि गंगेरनकी छाल
काचके बीज खरैटी यह औषध बराबर लीजै ४ टंक
रातको सेवन कर ऊपरसे दूध मिश्री पीवना धातुकी
वृद्धि होय वल वढै मैथुन बारवार करै ॥

गतवीर्य्यका इलाज ।

अफीम एक तोला पीपल अकरकरा जायफल जावि-
त्री इलायची धतुरेके बीज केसर दालचीनी मोचरससोंठ
नागकेसर यह औषध नागरपानके रससेती एक पहर

खरल कर गोली चनेप्रमाण बांधिये संध्या समय एक गोली नित्य खाय ऊपरसे दूध मिथी पीवे अर्द्ध प्रहरका बंधेज होय धातु पुष्ट होय ॥

अथ हथरससे नामर्द होय तिसका उपाय ।

गोखुरूचूर्ण ३ टंक स्याह तिल ३ पैसाभर दूध १ सेरमें तिल औटाइये कीटी कर महीनेताई संध्यासमय खाइये हथरसका दोष मिटे इन्द्री सचेत होय ॥

पुनः हस्तकर्मकर इन्द्री नर्म पडगई होय वन्द कुशाद स्त्री संगति करके नर्म पडी होय

तिसका उपाय अमृतसागरसे ।

अकरकरा १ टंक केसर २ टंक जायफल ३ टंक लौंग ३ टंक शिंगरफ ६ टंक अफीम २ टंक ले गोली छोटे वेरप्रमाण बांधिये १ गोली संध्याको लेना ऊपरसे दूध मिथी पीवना बंधेज घडी चारका हो हथरसदोष मिटे ॥

पुनः चमत्कार बन्धेजका अद्भुत्सागरसे ।

लाल सफेद कनेरकी कली २ सेर १ सेर घतूरेके बीज ४ सेर बड़ी कटाईके फल २ सेर नींबकी निबौली १ सेर कौंचके बीज १ सेर वैंगनके बीज सब जुदे जुदे पीस कपडछान कर २० सेर दूधमें औषध छिटकाय दीजे पीछे खूब औटाइये ठंडा कर रातको जमायदे प्रभात विलोय घी काढलेना हाथ पैर टूंडीमें ४ माशे मर्दन करै मर्दन

(१८६) रामविनोद ।

करते समय धरतीपर पैर न रखे शय्यापै राखै चतुर
पुरुष होय सो यह उपाय करै १ घड़ीका वन्धेज होय ॥

वीर्यस्तम्भनको लेप अद्भुतसागरसे ।

कड़वी तोरईके बीज पानीसेती पिसाय पैरके तलवे-
में दो घड़ीतक लेप करै और शय्याके नीचे पैर धरे
नहीं जितनी देर शय्यासे पैर धरे नहीं तितनी देर वी-
र्य गिरे नहीं धरतीपर पैर धरतेही वीर्य गिरे ॥

पुनः वन्दकुशादको लेप मनोरमासे ।

पाग १ टंक आंवलासार १ टंक मैन्शिल १ टंक
शुद्ध संखिया १ टंक सुहागा तेलिया १ टंक हरताल तब-
किया १ टंक पीस छानकर घृतमें औषध मिलायके
महीन कपड़ेके ऊपर औषधका लेप करै पीछे उस कप-
ड़ेको लपेट बत्ती करै उस बत्तीमें लम्बा डोरा बांधिये
पीछे बत्तीसे विलाद ऊंचा राखिये पीछे बत्तीमें अग्नि
लगाइये नीचे कांसेका कटोरा वा प्याला धरिये घृत
सब कटोरेबीच झड़पड़े वह सब घृत इन्द्रीपर मर्दन
वड़ी दो तक करे वन्दकुशाद रोग दूर होय हथरसका
विकार मिटै इन्द्री दृढ़ होय ॥

**लिंग शिथिल होय तिसका उपाय योग-
चिन्तामणिसे ।**

शूहर चाव अमगन्ध नागकेसरि कटाईके फल ध-
तूरके बीज यह सब औषध बगवर महीन कपड़छान

कर पानीसेती पीस संध्याको इन्द्रीपर मर्दन करे ७ दिनतक यह औषध लगावै तो लिंग पुष्ट होय ॥

पुनः शिथिलताका लेप ।

गायके घृतसे संवलका गोंद इन्द्रीपै मर्दन करे ७ दिनतक लिंग दृढ़ होय ॥

लिंगपीडाको लेप राजमार्त्तण्डसे ।

इन्द्रायणकी जड़ वैलके पेशावसेती घिसकर इन्द्रीपर लेप करे लिंग दीर्घ होय लिंगपीडा जाय ॥ इतनी पुरुषकी चिकित्सा कही ॥

अथ स्त्रीचिकित्सा-भगसंकोचनका उपाय ।

मानृफल फिटकड़ी धतूरके बीज धावेके फूल पानीसेती गोली करे योनिमें दोपहर रखे योनि भीडी होय ॥

वत्ती जेचूड ग्रन्थसे ।

जामुनकी गिरीत्रिफला हीराकसीस धावेके फूल सब बराबर लीज पानीसेती पीस वत्ती बनाय योनिमें राखिये योनि बहुत भीडी होवे ॥

पोटली योगरत्नावली ग्रन्थसे ।

तोरईके बीज फिटकड़ी धावेके फूल यह सब औषध सममात्रा ले कूट छान पतले कपडेके बीच पोटली कर योनिमें राखिये तो भगसंकोचन बहुत होय ॥

योनिसे पानी छूटै ताका उपाय सारोङ्घारसे ।

त्रिफला ३ पैसेभर पानीमें भिगोय राखै हीराक-
सीस फिटकड़ी २ पैसेभर महीन पीसकर पतला कपड़ा
एक हाथसे त्रिफलेके पानीमें औषध मिलाय उस
पानीसे कपड़ेको ८ पुट देना अंगुली वराबर कपड़ेकी
वत्ती कर योनिबीच रखिये अति कठिन होय ॥

योनि बडी करनेका उपाय माध्वग्रन्थसे ।

नारियलकी गिरी लीजै तिसका घृत कढ़ाय नाभि-
बीच लेप करै योनि बडी होय ॥

देह सुगन्ध करनेकी धूप चिन्तामणिमतसे ।

चन्दन सफेद केसरि इन्द्रयव कूट लवंग देवदारु
कमलगट्टा यह औषध वराबर लेकर दूधसे पीस
गोली करै गोलीकी धूप भगमाहिं दीजै यह धूप
मनुष्यको वश करै देहकी दुर्गंध दूर होय ॥

लेप सुश्रुतसे ।

नींबूके पत्ते धतूरेके पत्ते नागकेसरि अर्जुनवृक्षकी
छाल देवदारु सब औषध वराबर ले सूक्ष्म पीसकर
इनका काढ़ा करै भगको इस काढ़ेसे घोवे जब भोग-
समय स्त्री द्रवजायंतो महासुगन्ध होय ॥

अथ स्त्रीद्रव्यनका उपाय सारोद्धारसे ।

॥ घूंघरखेल शहदसेती पीस योनिमें लेप करै भोगस-
मय स्त्री द्रवजाय ॥

अथ गर्भपातनका इलाज ।

तूंबेकी जड़ १पैसाभर गुड़ पुराना २ पैसाभर पाव-
सेर पानी हांडीमें गरे औटाइये ४पैसाभर पानी आय रहै
तव पीवे ३ दिनमें गर्भपातन होय । खारी खट्टा खाय
नहीं अथवा काले तिल पैसाभर गुड़ पुराना १६
पैसाभर तीन काल पीवना गर्भपातन होय ॥

अथ योनिशूलका उपाय ।-

कपासके पत्ते पीस गोली कर भगमें राखे योनिका
शूल मिटै ।

कुच कठिन होनेका उपाय सारोद्धारसे ।

असगन्ध कूट गजपीपल कनेरकी जड़ ३टंक पानीमें
रातको भिगोयराखै प्रभात उठके पीसलीजे माखन घृ-
तसेती मर्दन करे पीछे कुचपै लेप करै कुच कठिन होय ।

कुच प्रफुल्लितका उपाय वृन्दसे ।

गेंडूका चून चीनीखांड सोवा तीनों पीस छानकर
गऊका घृत सब बराबर लीजे आवसेरके दो लाडू कर-
के कुचमें १५ दिनतक बांधे तो कुच कठिन होय ॥

स्त्रीके दूध न उतरे तिसका उपाय ।

१सेर दूध तथा छांछ लेकर । ॐ दसुंदनी

कुरुरस्वाहा ॥ इस मंत्रसे दूध तथा छांछ २१ बेर मंत्रिये तो कुचमें दूध बहुत उतरे बालक पुष्ट होय ॥

स्त्रीका कुच पकजाय तिसका उपाय वैद्यवल्लभसे ।

गऊकी छांछमें ज्वार रांधकर गरम सुहावती कुचमें बांधे पाके फूटे दुःख दूर होय ॥

कुच ऊपरगांठि होय तिसका उपाय ।

ब्रह्मदंडीका पंचाङ्ग लीजै स्याह जीरा लीजै दोनो सममात्रा ले पीसके प्रभात फंकी लीजै कुचगांठि अच्छी होय ॥

कुचके ऊपर छिद्र होय टांकी हो तिसका मलहम ।

रालको वारीक पीसिके चौगुणा गौका घृत बहुत गरम करके राल गेरि सोटेसे मथिये पीछे ये दवाई गेरिके मथिये मुदांशख नीलाथोथा पीछे हुक्केके पानीसे धोय मलहम लगावे तो कुचका दुःख मिटे ॥

अथ कांखोलाई गांठिका उपाय ।

स्याह जीरा मिर्च आकके दूधमें पीसिके लेप करे कांखोलाई दूर होय ॥

कांखोलाई (बगल) गांठिका मंत्र ।

ॐ नमो आदेश गुरुको वनमें व्याई बांदरी जिन हनुमन्त ॥ बदर थणैला कांखोलाई ये तीनों

भस्मन्त गुरूकी शक्ति मेरी भक्तिॐ ह्रीं जः जः जः टः
ठः ठः । इस मंत्रसे उपलेकी राख ७ दिनतक चांकजे
मुखसेती मंत्र पढ़के सातवार दिनमें दो बेर ७ दिन-
तक काँखोलाई वद थणैला अच्छा होय ॥

अथ जिस स्त्रीका फूल गया होय
तिसका उपाय वृन्दसे ।

पीपल मेनफल गुड़ कीकरकी छाल दात्यूणी ज-
वाखार यह सब बराबर लीजै सूक्ष्म चूर्ण कर गोली
बना योनिमें पांच बेर धरे तो फेर फूल आवै ॥

पुष्प दूरकरणका उपाय वाग्भट्टसे ।

सोना गेरू ३ टंक वासी जलसों ऋतुसमय ६ दिन
तक पीवै इस प्रकारसे फूल उपाय जानो ॥

ऋतुनाशन उपाय वैद्यविनोदसे ।

टेसूके फूल २ टंक महीन चूर्ण कर गायकी छांछ-
सेती ४ दिन पीवै इस रीतिसे स्त्रीके गर्भ नहीं होय ॥

गर्भनाशका उपाय वाग्भट्टसे ।

सरसों संवलके फूल इन दोनोंका काड़ा करि
पीवै तैल गेरुके ६ दिन ऋतुसमयमें तो स्त्रीके गर्भ
कभी न होय ॥

अन्य उपाय वैद्यवल्लभसे ।

मिश्री चावल नागकेसरि २ पैसाभर ठंडे पानीसे तथा गोदुग्धसे वा बकरीके दुग्धसे ७दिनतक पीवे तो गर्भ न धारे ॥

गर्भजाता होय तिसका उपाय वैद्यसारोद्धारसे ।

मिश्री २पैसाभर इसवगोल १पैसाभर ठंडे पानीसे पीवे ७दिनतक तो झरतो गर्भ रहजाय दिनमें दोवार पीवे ।

अन्य उपाय शार्ङ्गधरसे ।

नेत्रवाला चन्दन सफेद मिश्री ये तीनों बराबर ले ३ टंक ७ दिन तक ले गर्भ थगै ॥

अधूरे गर्भको गण्डाका मंत्र ।

ॐ वांधो सरुवो वांधूंजाय वांधूंमें सवही वणराय वांधूं नदी वहतो नीर वांधूं सवको ढका शरीर हाड़की वींधन वींधन हड्डीमेंका वाण वांध २ रक्तियावीर अमुकाकी गर्भ देगतजानगुरूकी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरोवाच ॥

अन्य उपाय शार्ङ्गधरसे ।

छोटी इलायचीके बीज जायफल तज तमालपत्र व-
धायरा सफेद जीरा लॉंग मुलेठी ये सब औषध बराबर लेना इन सवके बराबर मिश्री लीजे चूर्ण टंक ४. दूध-
सेती लेना छांड गर्भ होय सो वृद्धि होय ॥

अथ मृतवत्साका उपाय योगचिन्तामणिसे ।

(मास ६ का तथा वर्ष १ का तथा वर्ष २ का
तथा वर्ष ३का तथा ४ का तथा ५ का बा-
लक होयके मरजाय सो मृतवत्सा है)

छोटी इलायचीके बीज पद्माख पित्तपापड़ा नेत्रवा-
ला हल्दी देवदारु बच चित्रक हरे एलुवा पीपल कचूर
बायविडंग अजमोद कसुम्भा रसोत सब वरावर लेकर
चूर्ण करै शीतल जलसे एक मासा चूर्णलीजै गर्भ रहै
तबताई लीजै प्रभातसमय प्रथम गर्भमासमें १ माशा
चूर्ण दीजै दूसरे मासमें २ तीसरेमें ३ चौथेमें ४ पांचवेंमें
५ छठे मासमें चूर्ण दीजै नहीं मृतवत्सा दोष मिटै
वालक जीवै ॥

अन्य उपाय अर्णवग्रन्थसे ।

लवंग छोटी इलायची मिर्च जायफल अजवायन
अजमोद इन्द्रायणकी जड नवसादर अतीस तुलसीके
बीज पीपल खपरिया हल्दी सिरसके बीज सुहागा विड-
नोन कचनोन सांचरनोन चित्रक बीजबोल एलुआहींग
सोनामक्खी सब औषध वरावर ले मनुष्यके पेशाबसे
पीसकर मिर्चप्रमाण तथा चनेप्रमाण गोली करै बाल-
कको धरतीमें प्रड़तेही घूँटी दीजै दिन २१ तक मृतव-
त्साका दूषण मिटै कुक्षिरोग जाय ॥

अथ नालपरावर्तकी चिकित्सा ।

जिस मनुष्यके बेटीहीका जन्म हो तिसके बेटा करना हो तिसको नालपरावर्त कहिये । जब स्त्रीके मास द्वायका गर्भ होय पीछे ६१ दिन ६२ दिन ६३ वें इन तीन दिनोंमें नालपरावर्तका उपायकरै भांगके बीज मासे ३ निगलजाय फिर दिन ८१ दिन ८२ दिन ८३में मासे दो दो निगले बेटीसे बेटा होय ॥

अन्य उपाय भावप्रकाशसे ।

निंबूकी जड़का रस काढ़के चावलके पानीमें मिलाय ऋतुस्नान करके तुरत पीवै बेटीसे बेटा होय ॥

अथ कष्टी स्त्रीका इलाज राजमार्तण्डसे ।

काली अंधारीकी जड़ वा सहदेईकी जड़ चौदशके दिन लीजै गूगुलकी धूनी देकर बांधिये स्त्री कष्टसे तुरंत छूटै ॥

अन्य उपाय सारसंग्रहसे ।

स्त्री जब कष्टी होय उस स्त्रीका नाम लेकर अंगाकी जड़ ले गूगुलकी धूनी देकर कमरमें बांधे कष्टी स्त्री तुरत छूटै ॥

अथ कुक्षिरोगकी चिकित्सा बालतंत्रग्रंथसे ।

बांझ स्त्रीके तीन भेदहैं एक तो जन्मबांझ दूसरी कोख-बांझ तीसरी मृतवत्सा जन्मबांझके कभी पुत्र होय नहीं पूर्व जन्मके योग करके तिसको जन्मबांझ कहिये १. के शापने अथवा ऋषीश्वरके शापसे संतान

होय नहीं सो स्त्री को खवन्व्या कहिये गुरुके शापसे
मृतवत्सा होय है ॥

अथ पेट शुद्धकरनेका उपाय राजमार्त्तण्डसे ।

खांड १० टंक निसोत छाल २ टंक जमालगोटा १
टंक दूधसेती तीन दिन तक पीवै ऋतुस्नान करे दूध-
भात खांड पथ्य देना प्रभात शाम कोठा शुद्ध होय ॥

अथ योनिशुद्धका उपाय ।

छोटा बैगन ले गऊके घृतके बीच तीन फाड़ करे
तिस पीछे आंवलासार गन्धक पीस फाडमें बुरकाइदे
फेर भगपै ३ दिन बांधिये योनि शुद्ध होय ॥

अन्य उपाय ।

मोथी चना दोनो भूनकर पोटली करे ऋतुके समय
पोटली भगमें रखे ३ दिन तो योनि शुद्ध होय ॥

अथ संतानका उपाय वृन्दसे ।

शंखाहुली मयूरशिखा नागकेसारि यह तीनों वरा-
बर पीस चूर्ण करे टंक तीनकी गोली गायके दूधसे
लीजै खटाई न खाय भर्त्तासे संग करे स्त्रीके गर्भ रहे ॥

अन्य उपाय वैद्यसर्वस्वसे ।

भांगके बीज अनवेधे मोती ७मोरसिखा चंटकटेली
जायफल जीरा सफेद २ टंक लीजै ये औषध पीसछान
कर पुडिया ७ वराबरकी बांधे ऋतुस्नानके पीछे
सात दिन ताई गायके दूधसेती लीजै अलोना खाय
खीर बुरा भोजन दीजै पुत्र निश्चय होय ॥

अन्य संतानका उपाय वैद्यवल्लभसे ।

नागकेसरिं गोरोचन असगन्ध ये सब एक कर पीस ७ पुडिया बांधिये ऋतुस्नान पीछे गायके दूधसे पुडियार नित्य ले खीर चूरमा खाय गर्भ रहे पुत्र निश्चय होय ॥

अथ नाडीपरीक्षा वृन्दसे ।

भली सुबुद्धि कर सरस्वतीको याद कर शुद्ध चित्त आनन्द हित करके प्रगटजीवकी परीक्षा करैहैं धन्वंतरी-को नमस्कार करके पित्त १ श्लेष्मर अनिल ३ देखकर इतनी नाडी पहिचानिये कटुक तीक्ष्ण गरम चिकना रूखा इस प्रकारकी नाडीकी खबर पडे ॥

पित्तनाडीके लक्षण ।

काककी चाल मेढककी चाल कुलंगकी चाल पित्तके कोंपकर नाडी ऐसी चले खीरा खरवूजा खिरोट खारा फल खायसे नाडी पित्तके घर होय ॥

वातनाडीके लक्षण ।

सर्पकी चाल जोककी चाल हो यह वात नाडीके लक्षण हैं ॥

श्लेष्मनाडीके लक्षण ।

मोरकी चाल बटेरकी चाल कबूतरकी चाल ॥

त्रिदोषनाडीकी चाल ।

जिसतरह पानीमें मछली तड़फ़डाय तैसे सन्निपा-तकी नाडी चलै अथवा तीरकी तरह चलै ॥ इति ॥

नाडीके आठ भेद ।

भारी १ खेद २ मल ३ पित्त ४ चिहा ५ कुरीकुरी चिह्न
 ६ जलन ७ शीतलता ८ इनके लक्षण भिन्न २ कहें मलकी
 और पित्तकी नाडी व्याकुल होय शिथिलकी नाडी मंद
 होय पित्तदग्धकी नाडी माड़ी बन्ध शिथिल होय देह
 की शोभा घटे इतने पित्तदग्ध नाडीके लक्षण कहे ॥

वातदग्ध नाडीके लक्षण ।

चंचल होय लोहू विकारकी नाडी गरम होय इस तरह
 सबकी देखिये नाडी पित्त पंगुल है कफ पंगुल है मल धातु
 पंगुल है यह सब वायुके बलसे चलेहें पवन मेवको खंच
 लेजाय तैसे वायु सबको खंच लेजाय काम क्रोधसे वायु
 होय वायुसेती पीडा होय पीडासे क्षीण शरीर होय ॥

पित्तनाडीके विकार ।

पित्तके विकारसे स्वरभंग होय भूख मंद होय कंठ
 सूखे धातु क्षीण होय पित्तसे पीला अंग होय इतने
 पित्तनाडीके लक्षण कहे ॥

वायुके लक्षण ।

क्रोधसे लद्वेगसे कामसे चिंतासे भयसे धातुक्षय और
 मंदाग्निसे नाड़ी मंद चले वायुसे नाड़ी झकोरा खाती
 चले देह कैपे शिथिलता होय ये वायुके लक्षण हैं ॥

कफचेष्टाके लक्षण ।

कफवालेकी नाडी हंसकी चाल चले जब नाडी हंस-
 की चाल चले कफके घर कदिये सुखी पुरुषकी

(१९६)

अन्य संतानका
नागकेसरि गौरोचन
पुडिया बांधिये ऋतुस्नान
नित्य ले खीर घूर ।

अथ

भली सुबुद्धि कर
आनन्द हित करके
को नमस्कार करके पित्त १
इतनी नाडी पहिचानिये क
रूखा इस प्रकारकी

काककी चाल मे
कोंपकर नाडी ऐसी चले
फल खायसे नाडी १॥

सर्पकी चाल
लक्षण हैं ॥

मोरकी चाल वटेर

जिसतरह पानीमें
तकी नाडी चले

दोय शरावका एक प्रस्थ होय अंजिलिके ६४ टंक शराव टंक १२८ प्रस्थके टंक २५६ आठक चार प्रस्थका होय चार आठकका एक द्रोण भारका मान इतने पलोंका होय ६०९६ सौ पलकी एक तुलाका मान है दोय मनकी एक सूर्यकी कहिये चारि मनकी एक गोली सोलह मनकी १ खारी द्रोणका सेर यह तोलका प्रमाण शार्ङ्गधरसे कहा समझलेना यह कालिंगी भाषा है ॥

अथ माधवी भाषा ।

तोलका रूप अज्ञानियोंके समझनेके वास्ते जलमें सूर्यदीखै तिसमें बहुत बारीक रजदीखे तिसके ताई रज कहिये तिस रजका तीसवां भाग परमाणु कहै हैं तिसपरमाणुका नाम वंशी कहिये दवंशीकी १ मरीचिका कहिये ६ मरीचिकाकी एक राई ३ राईकी एक सरसौं आठसरसौंका एक यव चारयवकी एक चिरमठी छः चिरमठीका एक माशा चार माशेका एक टंक दो टंकका एक कोल दो कोलका एक कर्प दो कर्पकी एक शुक्तिका दो शुक्तिकाका एक पल पलके १६ टंक प्रसृति के ३२ टंक दो प्रसृतिका एक कुडव कुडवके ६४ टंक दो कुडवका एक शराव शरावके १२८ टंक दो शरावका एक प्रस्थ प्रस्थके २५६ टंक चार प्रस्थका एक आठक तिसके १०२४ टंक चार आठकका एक द्रोण तिसके ४०९६ टंक सूर्यके ८३८४ टंक होय गोणीमें १६३४ टंक खारीके ५५४४ टंक इसमें

स्थिर होय ठहर ठहर चले जो नाड़ी प्राणकी क्षीण नाड़ी होय शीतल होय सो नाड़ी यमके घर लेजाय ॥

त्रिदोषके लक्षण ।

तीतरकी चाल लवाकी चाल यह त्रिदोषकी नाड़ी नृत्य करै तथा तंद्रा होय नेत्रपीडा होय प्रलाप होय ॥

असाध्य लक्षण ।

सूरत शोभा क्षीण होय कान वाँका होय नेत्र विकट होय बलित बोले ॥ इति नाड़ीपरीक्षा ॥

अथ तोलप्रमाण ।

जिससे द्रव्यके तोलकी चौकसी होय तोल जाने-विना औषधकी ठीक पडे नहीं ताते तोलका प्रमाण कहै हैं जलमें सूर्य्य दीखै तिसमें बारीक रज दीखै तिस रजके तीसवें हिस्सेको परमाणु कहै है। और वशी नाम कहिये वंशी ६ की एक मरीचिका कहिये ६ मरीचकी एक राई ३ राईकी एक सरसो आठ सरसोंका एक यव ४ यवकी एक चिरमिठी आठ चिरमिठीका एक माशा चार माशेका एक टंक होय टंक साणि धारण पित्रु ये टंक के नाम हैं छः मासेका एक गद्यान टंक १६ का कौल शुक्र एक नाम है ४ टंक कर्प तूर्य विडाल पद इनकी कर्ष सज्ञा है १६ टंकका एक पल चार कर्पका एक पल दोय पलकी एक प्रसृति होय प्रसृतिकी एक अंजलि अंजलि कुडवका एकही नाम है दीय कुडवका एक शराव

दोय शरावका एक प्रस्थ होय अंजिलिके ६४ टंक शराव टंक १२८ प्रस्थके टंक २५६ आढक चार प्रस्थका होय चार आढकका एक द्रोण भारका मान इतने पलोंका होय ६०९६ सौ पलकी एक तुलाका मान है दोय मनकी एक सूर्यकी कहिये चारि मनकी एक गोली सोलह मनकी १ खारी द्रोणका सेर यह तोलका प्रमाण शार्ङ्गधरसे कहा समझलेना यह कालिंगी भाषा है ॥

अथ माधवी भाषा ।

तोलका रूप अज्ञानियोंके समझनेके वास्ते जलमें सूर्यदीखै तिसमें बहुत वारीकरजदीखे तिसकेताई रज कहिये तिस रजका तीसवां भाग परमाणु कहै हैं तिसपरमाणुका नाम वंशी कहिये ६ वंशीकी १ मरीचिका कहिये ६ मरीचिकाकी एक राई २ राईकी एक सरसौं आठ सरसौंका एक यव चार यवकी एक चिरमठी छः चिरमठीका एक माशा चार माशेका एक टंक दो टंकका एक कोल दो कोलका एक कर्प दो कर्पकी एक शुक्तिका दो शुक्तिकाका एक पल पलके १६ टंक प्रसृति के ३२ टंक दो प्रसृतिका एक कुडव कुडवके ६४ टंक दो कुडवका एक शराव शरावके १२८ टंक दो शरावका एक प्रस्थ प्रस्थके २५६ टंक चार प्रस्थका एक आढक तिसके १०२४ टंक चार आढकका एक द्रोण तिसके ४०९६ टंक सूर्यके ८३८४ टंक होयें गोण्डिमें १६३४ टंक खारीके ५५४४ टंक इसमें

कहा दो मनका १ सूर्यक चार मनकी एक गोणी सोलह मनकी एक खारी द्रोण एकका ४१ सेर यह माधवी भापा है कालिंगी भापासे श्रेष्ठ है जिन शास्त्रोंकी शाखा लेकर रामविनोद बनाया तिन ग्रन्थोंके नाम आगे लिखे हैं॥
 चरक १ आत्रेय २ हारीत ३ योगचिन्तामणि ४ सुश्रुत ५ भृगु ६ क्षीरपाणि ७ आनन्दमाला ८ आनन्दपाल ९ वैद्यविनोद १० सन्निपातकलिका ११ राजमार्तण्ड १२ रसचिन्तामणि १३ योगशतक १४ विंदुसार १५ मनोरमा १६ बालतंत्र १७ शार्ङ्गधर १८ कालज्ञान १९ बालचिकित्सा २० वैद्यसर्वस्वा २१ वैद्यवल्लभ २२ वैद्यमनोत्सव २३ वैद्यसारोद्धार २४ सारसंग्रह २५ भावप्रकाश २६ अमृतसागर २७ चिकित्सार्णव २८ क्षेमकौतूहल २९ रसमंजरी ३० रसरत्नाकर ३१ टोडरानन्द ३२ माधवी दामोदर ३३ माधवनिदान ३४ बंगसेन ३५ रत्नभूषण ३६ जैचूड़ ग्रन्थ ३७ वशिष्ठ ३८ भेड़ाग्रन्थ ३९ इत्यादि ग्रन्थोंकी शाखासे यह रामविनोद भापा किया वचनका बन्ध यह सब व्याधिका दूर करनेवाला है इसमें पुण्य होय यश होय अच्छे मित्र होय धनकी प्राप्ति होय प्ररोपकार होय इस ग्रन्थके बराबर और ग्रन्थ सुगम नहीं चतुर पुरुष इस विद्याको पढ़े सद्गुरुके पास तब सफल होय॥
 इति पद्मराग शिष्येण रामचन्द्रविरचिते रामविनोद समाप्त ।